



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं० 50]

नई दिल्ली, दिसम्बर 7—दिसम्बर 13, 2003, शनिवार/अग्रहायण 16—अग्रहायण 22, 1925

No. 50] NEW DELHI, DECEMBER 7—DECEMBER 13, 2003, SATURDAY/AGRAHAYANA 16—AGRAHAYANA 22, 1925

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा निधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिसमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)
General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2003

सा.का.नि. 422.—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार आन्ध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियमावली, 2003 है।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "आन्ध्र प्रदेश" शीर्षक तथा इसके अन्तर्गत आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

आन्ध्र प्रदेश

राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद	113
पुलिस महानिदेशक तथा महानिरीक्षक	1
पुलिस महानिदेशक—भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	1
अपर पुलिस महानिदेशक—प्रशासन	1
अपर पुलिस महानिदेशक—(आसूचना)	1
अपर पुलिस महानिदेशक—(कानून तथा व्यवस्था)	1
अपर पुलिस महानिदेशक—सी.आई.डी.	1
अपर पुलिस महानिदेशक—आन्ध्र प्रदेश विशेष पुलिस	1

पुलिस आयुक्त—हैदराबाद	1	पुलिस उप महानिरीक्षक—विशाखापटनम रेंज	1
पुलिस महानिरीक्षक—मुख्यालय और कानूनी सेवाएं	1	पुलिस उप महानिरीक्षक—एलूरू रेंज	1
पुलिस महानिरीक्षक—कानून और व्यवस्था	1	पुलिस उप महानिरीक्षक—गुंटूर रेंज	1
पुलिस महानिरीक्षक—सी.आई.डी.	1	पुलिस उप महानिरीक्षक—वारंगल रेंज	1
पुलिस महानिरीक्षक—आसूचना	1	पुलिस उप महानिरीक्षक—हैदराबाद रेंज	1
पुलिस महानिरीक्षक—समन्वय एवं यातायात	1	पुलिस उप महानिरीक्षक—निजामाबाद रेंज	1
पुलिस महानिरीक्षक—भण्डारण और संभार तंत्र	1	पुलिस उप महानिरीक्षक—कुरनूल रेंज	1
पुलिस महानिरीक्षक—आन्ध्र प्रदेश विशेष पुलिस	1	पुलिस उप महानिरीक्षक—अनन्तपुर रेंज	1
पुलिस महानिरीक्षक—सुरक्षा	1	पुलिस आयुक्त, विशाखापटनम सिटी	1
पुलिस महानिरीक्षक—प्रशिक्षण	1	सहायक पुलिस महानिरीक्षक—कानून व व्यवस्था	1
पुलिस महानिरीक्षक—ग्रेहाउन्ड्स	1	पुलिस अधीक्षक—आसूचना I, II, III, IV	4
पुलिस महानिरीक्षक—होम गार्ड	1	पुलिस अधीक्षक—सी. आई. डी. I, II, III, IV और V	5
पुलिस महानिरीक्षक—कल्याण और क्रीड़ा	1	पुलिस अधीक्षक—एस.आई.बी.	1
पुलिस महानिरीक्षक—पुलिस परिवहन संगठन	1	पुलिस अधीक्षक—सुरक्षा	2
पुलिस महानिरीक्षक—विशेष सुरक्षा बल	1	पुलिस अधीक्षक—महिला सुरक्षा सैल, सी.आई. डी.	1
पुलिस महानिरीक्षक—पी.सी.आर. सैल, सी.आई.डी.	1	पुलिस अधीक्षक—रेलवे	2
निदेशक, आन्ध्र प्रदेश पुलिस अकादमी	1	पुलिस अधीक्षक—रेलवे (गुंटाकल)	1
निदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	1	संयुक्त निदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	2
निदेशक, एस.सी.आर.बी.	1	प्रधानाचार्य—पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज	1
अपर पुलिस आयुक्त (यातायात)	1	उप निदेशक, आन्ध्र प्रदेश पुलिस अकादमी	1
अपर पुलिस आयुक्त (सुरक्षा)	1	ग्रुप कमन्डर—ग्रेहाउन्ड्स	1
पुलिस उप महानिरीक्षक—सुरक्षा	1	पुलिस उपायुक्त, प्रशासन-शहर, हैदराबाद	1
पुलिस उप महानिरीक्षक—एस.आई.बी.	1	पुलिस उपायुक्त, हैदराबाद पूर्वी क्षेत्र	1
पुलिस उप महानिरीक्षक—मानवाधिकार	1	पुलिस उपायुक्त, हैदराबाद उत्तरी क्षेत्र	1
पुलिस उप महानिरीक्षक—अग्निशमन सेवाएँ	1	पुलिस उपायुक्त, हैदराबाद पश्चिमी क्षेत्र	1
पुलिस उप महानिरीक्षक—संगठन	1	पुलिस उपायुक्त, हैदराबाद दक्षिणी क्षेत्र	1
पुलिस उप महानिरीक्षक—आन्ध्र प्रदेश विशेष पुलिस बटालियन	2	पुलिस उपायुक्त, विशेष शाखा शहर	1
पुलिस उप महानिरीक्षक—आसूचना	1	पुलिस उपायुक्त, यातायात	1
पुलिस उप महानिरीक्षक—सी.आई.डी.-I और II	2	पुलिस उपायुक्त, अपराध	1
पुलिस उप महानिरीक्षक—सी.आई.डी.-III और पी. सी. आर. और सामाजिक न्याय	1	पुलिस उपायुक्त, सी.ए.आर. मुख्यालय	1
पुलिस उप महानिरीक्षक—ग्रेहाउन्ड्स	1	पुलिस अधीक्षक—आदिलाबाद	1
संयुक्त निदेशक, आन्ध्र प्रदेश पुलिस अकादमी	1	पुलिस अधीक्षक—कुड्डापा	1
अपर निदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	1	पुलिस अधीक्षक—कृष्णा	1
पुलिस आयुक्त, विजयवाड़ा शहर	1	पुलिस अधीक्षक—मेडक	1
संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून व व्यवस्था	1	पुलिस अधीक्षक—निजामाबाद	1
संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध और एस.आई.टी.	1	पुलिस अधीक्षक—श्रीकाकुलम	1
संयुक्त पुलिस आयुक्त, यातायात/सुरक्षा	1	पुलिस अधीक्षक—वारंगल	1
		पुलिस अधीक्षक—अनन्तपुर	1

पुलिस अधीक्षक—ईस्ट गोदावरी	1
पुलिस अधीक्षक—वैस्ट गोदावरी	1
पुलिस अधीक्षक—करीमनगर	1
पुलिस अधीक्षक—कुरनूल	1
पुलिस अधीक्षक—नालगोंडा	1
पुलिस अधीक्षक—प्रकाशम	1
पुलिस अधीक्षक—विशाखापटनम	1
पुलिस अधीक्षक—चित्तूर	1
पुलिस अधीक्षक—गुन्टूर	1
पुलिस अधीक्षक—खम्माम	1
पुलिस अधीक्षक—महबूबनगर	1
पुलिस अधीक्षक—नेल्लोर	1
पुलिस अधीक्षक—रंगा रेड्डी	1
पुलिस अधीक्षक—विजयनगरम्	1
कमांडेंट, एस.ए.आर., सी.पी.एल.	1
कमांडेंट, आन्ध्र प्रदेश पुलिस बटालियन	4
कुल	113
2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व (उपर्युक्त मद 1 का 40%) की दर से	45
3. राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व (उपर्युक्त मद 1 का 25%) की दर से	28
4. प्रशिक्षण रिजर्व (उपर्युक्त मद 1 का 3.5%) की दर से	04
5. भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 9 के अन्तर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1, 2, 3 तथा 4 के 33.3% से अधिक नहीं	63
6. छूट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 16.5% की दर से	19
7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6)	146
सीधी भर्ती के पद	146
पदोन्नति वाले पद	63
कुल प्राधिकृत संख्या	209

[सं० 11052/3/2002-अ.भा.से. (II) क]

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

टिप्पणी 1 : इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, भारतीय पुलिस सेवा के आन्ध्र प्रदेश संवर्ग की कुल प्राधिकृत संख्या 194 थी।

टिप्पणी 2 : मुख्य विनियम दिनांक 22-10-1955 की एस. आर. ओ. संख्या 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे तथा भारतीय पुलिस सेवा के आन्ध्र प्रदेश संवर्ग के संबंध में बाद में इन्हें निम्नलिखित सा.का.नि. संख्या द्वारा संशोधित किया गया :—

क्रम सं.	सा.का.नि. संख्या	दिनांक
1.	856 अ	30-10-76
2.	1536	12-11-77
3.	580 अ	19-10-79
4.	396	18-4-81
5.	623 अ	21-10-82
6.	344 अ	20-4-83
7.	787	28-7-84
8.	999	31-12-88
9.	193	25-3-89
10.	100	20-2-93
11.	446	11-9-93
12.	385	30-7-94
13.	320 अ	31-3-95
14.	187	12-4-97
15.	208 अ	24-4-98

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 5th November, 2003

G.S.R. 422.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (LXI of 1951) read with sub-rules (1) and (2) of Rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Andhra Pradesh hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely :—

1. (i) These rules may be called the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Third Amendment Regulations, 2003.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, under the

heading "Andhra Pradesh" for the entries occurring thereunder, the following shall be substituted namely :—

Andhra Pradesh

1. Senior Posts under the State Government 113

Director General & Inspector General of Police	1
Director General of Police, Anti Corruption Bureau	1
Additional Director General of Police—Administration	1
Additional Director General of Police (Intelligence)	1
Additional Director General of Police (Law & Order)	1
Additional Director General of Police, CID	1
Additional Director General of Police—A.P. Special Police	1
Commissioner of Police—Hyderabad	1
Inspector General of Police—Headquarters & Legal Services	1
Inspector General of Police—Law & Order	1
Inspector General of Police—CID	1
Inspector General of Police—Intelligence	1
Inspector General of Police—Coordination & Traffic	1
Inspector General of Police—Provisioning & Logistic	1
Inspector General of Police—A.P. Special Police	1
Inspector General of Police, Security	1
Inspector General of Police—Training	1
Inspector General of Police—Greyhounds	1
Inspector General of Police—Home Guards	1
Inspector General of Police—Welfare & Sports	1
Inspector General of Police—Police Transport Organisation	1
Inspector General of Police—Special Protection Force	1
Inspector General of Police—PCR Cell, CID	1
Director, A.P. Police Academy	1
Director, Anti Corruption Bureau	1
Director, SCRB	1
Addl. Commissioner of Police (Traffic)	1
Addl. Commissioner of Police (Security)	1
Deputy Inspector General of Police—Security	1
Deputy Inspector General of Police—S.I.B.	1
Deputy Inspector General of Police—Human Rights	1
Deputy Inspector General of Police—Fire Services	1
Deputy Inspector General of Police—Organisation	1
Deputy Inspector General of Police—A.P. Special Police Battalions	2

Deputy Inspector General of Police—Intelligence	1
Deputy Inspector General of Police—CID I & II	2
Deputy Inspector General of Police—CID III and PCR & Social Justice	1
Deputy Inspector General of Police—Greyhounds	1
Joint Director, A.P. Police Academy	1
Addl. Director, Anti Corruption Bureau	1
Commissioner of Police—Vijayawada City	1
Joint Commissioner of Police, Law & Order	1
Joint Commissioner of Police, Crime & SIT	1
Joint Commissioner of Police, Traffic/Security	1
Deputy Inspector General of Police—Vishakhapatnam Range	1
Deputy Inspector General of Police—Eluru Range	1
Deputy Inspector General of Police—Guntur Range	1
Deputy Inspector General of Police—Warangal Range	1
Deputy Inspector General of Police—Hyderabad Range	1
Deputy Inspector General of Police—Nizamabad Range	1
Deputy Inspector General of Police—Kurnool Range	1
Deputy Inspector General of Police—Anantapur Range	1
Commissioner of Police—Vishakhapatnam City	1
Assistant Inspector General of Police—Law & Order	1
Superintendent of Police—Intelligence I, II, III & IV	4
Superintendent of Police—CID I, II, III, IV & V	5
Superintendent of Police, SIB	1
Superintendent of Police—Security	2
Superintendent of Police—Women Protection Cell, CID	1
Superintendent of Police—Railways	2
Superintendent of Police—Railways (Guntakal)	1
Joint Director, Anti Corruption Bureau	2
Principal—Police Training College	1
Deputy Director, A.P. Police Academy	1
Group Commander—Greyhounds	1
Deputy Commissioner of Police—Administration City, Hyderabad	1
Deputy Commissioner of Police—Hyderabad, East Zone	1
Deputy Commissioner of Police—Hyderabad, North Zone	1

Deputy Commissioner of Police—Hyderabad, West Zone	1	6. Leave Reserve and Junior Posts Reserve @16.5% of Item 1 above	19
Deputy Commissioner of Police—Hyderabad, South Zone	1	7. Posts to be filled up by Direct Recruitment (items 1 + 2 + 3 + 4 + 6 – 5)	146
Deputy Commissioner of Police—Special Branch, City	1	Direct Recruitment Posts	146
Deputy Commissioner of Police—Traffic	1	Promotion Posts	63
Deputy Commissioner of Police—Crime	1	TOTAL AUTHORISED STRENGTH	209
Deputy Commissioner of Police—CAR Hqrs	1	[No. 11052/3/2003-AIS(II)-A] G. C. PANDEY, Under Secy.	
Superintendent of Police—Adilabad	1	Note 1 : Prior to the issue of this notification, the total authorised strength of the Andhra Pradesh (IPS) Cadre was 194.	
Superintendent of Police—Cuddapah	1	Note 2 : The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3350, dated 22-10-1955. Subsequently they were amended in respect of the Indian Police Service vide following GSR numbers and dates in respect of Andhra Pradesh cadre :—	
Superintendent of Police—Krishna	1	S. No.	GSR Nos.
Superintendent of Police—Medak	1		Date
Superintendent of Police—Nizamabad	1	1	856E
Superintendent of Police—Srikakulam	1	2	1536
Superintendent of Police—Warangal	1	3	580E
Superintendent of Police—Anantpur	1	4	396
Superintendent of Police—East Godavari	1	5	623E
Superintendent of Police—West Godavari	1	6	344E
Superintendent of Police—Karimnagar	1	7	787
Superintendent of Police—Kurnool	1	8	999
Superintendent of Police—Nalgonda	1	9	193
Superintendent of Police—Prakasam	1	10	100
Superintendent of Police—Vishakhapatnam	1	11	446
Superintendent of Police—Chittoor	1	12	385
Superintendent of Police—Guntur	1	13	320E
Superintendent of Police—Khammam	1	14	187
Superintendent of Police—Mahaboobnagar	1	15	208E
Superintendent of Police—Nellore	1		
Superintendent of Police—Ranga Reddy	1		
Superintendent of Police—Vizianagaram	1		
Commandant, SAR, CPL	1		
Commandants—AP Special Police Battalions	4		
TOTAL	113		
2. Central Deputation Reserve @ 40% of Item 1 above	45		
3. State Deputation Reserve @ 25% of Item 1 above	28		
4. Training Reserve @ 3.5% of Item 1 above	04		
5. Posts to be filled by promotion under Rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33.3% of Item 1, 2, 3 & 4 above.	63		

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2003

सा.का.नि. 423. — भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली 1954 के नियम 11 के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार आन्ध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियमावली, 2003 है ।

(ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. (1) “तालिका की अनुसूची-III-क-में राज्य सरकार के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के समय वेतनमान से ऊपर के पदों में,” प्रथम कॉलम की “आन्ध्र प्रदेश” प्रविष्टि और दूसरे तथा तीसरे कॉलमों में तदनुसूची प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

आन्ध्र प्रदेश

(रुपए)

पुलिस, महानिदेशक तथा महानिरीक्षक,	24,050-650-26,000
पुलिस, महानिदेशक—भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो	24,050-650-26,000
अपर पुलिस, महानिदेशक—प्रशासन	22,400-525-24,500
अपर पुलिस, महानिदेशक—(आसूचना)	22,400-525-24,500
अपर पुलिस, महानिदेशक—(कानून तथा व्यवस्था)	22,400-525-24,500
अपर पुलिस, महानिदेशक—सी.आई.डी.	22,400-525-24,500
अपर पुलिस, महानिदेशक—आ.प्र. विशेष पुलिस	22,400-525-24,500
पुलिस आयुक्त—हैदराबाद	22,400-525-24,500
पुलिस महानिरीक्षक—मुख्यालय और कानूनी सेवाएं	18,400-500-22,400
पुलिस महानिरीक्षक—कानून और व्यवस्था	18,400-500-22,400
पुलिस महानिरीक्षक—सी.आई.डी.	18,400-500-22,400
पुलिस महानिरीक्षक—आसूचना	18,400-500-22,400
पुलिस महानिरीक्षक—समन्वय एवं यातायात	18,400-500-22,400
पुलिस महानिरीक्षक—भण्डारण और संचार तंत्र	18,400-500-22,400
पुलिस महानिरीक्षक—आन्ध्र प्रदेश विशेष पुलिस	18,400-500-22,400
पुलिस महानिरीक्षक—सुरक्षा	18,400-500-22,400
पुलिस महानिरीक्षक—प्रशिक्षण	18,400-500-22,400
पुलिस महानिरीक्षक—ग्रेहाउन्ड्स	18,400-500-22,400
पुलिस महानिरीक्षक—होम गार्ड	18,400-500-22,400
पुलिस महानिरीक्षक—कल्याण और क्रीड़ा	18,400-500-22,400
पुलिस महानिरीक्षक—पुलिस परिवहन संगठन	18,400-500-22,400
पुलिस महानिरीक्षक—विशेष सुरक्षा बल	18,400-500-22,400
पुलिस महानिरीक्षक—पी.सी.आर., सैल, सी.आई.डी.	18,400-500-22,400

(रुपए)

निदेशक, आन्ध्र प्रदेश पुलिस अकादमी	18,400-500-22,400
निदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो	18,400-500-22,400
निदेशक, एस.सी.आर.बी.	18,400-500-22,400
अपर पुलिस आयुक्त (यातायात)	18,400-500-22,400
अपर पुलिस आयुक्त (सुरक्षा)	18,400-500-22,400
पुलिस उप महानिरीक्षक—सुरक्षा	16,400-450-20,000
पुलिस उप महानिरीक्षक—एस.आई.बी.	16,400-450-20,000
पुलिस उप महानिरीक्षक—मानवाधिकार	16,400-450-20,000
पुलिस उप महानिरीक्षक—अग्निशमन सेवाएं	16,400-450-20,000
पुलिस उप महानिरीक्षक—संगठन	16,400-450-20,000
पुलिस उप महानिरीक्षक—आन्ध्र प्रदेश विशेष पुलिस बटालियन	16,400-450-20,000
पुलिस उप महानिरीक्षक—आसूचना	16,400-450-20,000
पुलिस उप महानिरीक्षक—सी.आई.डी. I और II	16,400-450-20,000
पुलिस उप महानिरीक्षक—सी.आई.डी. III और पी.सी.आर. और सामाजिक न्याय	16,400-450-20,000
पुलिस उप महानिरीक्षक—ग्रेहाउन्ड्स	16,400-450-20,000
संयुक्त निदेशक, आन्ध्र प्रदेश पुलिस अकादमी	16,400-450-20,000
अपर निदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो	16,400-450-20,000
पुलिस आयुक्त, विजयवाड़ा शहर	16,400-450-20,000
संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून व व्यवस्था	16,400-450-20,000
संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध और एस.आई.टी.	16,400-450-20,000
संयुक्त पुलिस आयुक्त, यातायात/सुरक्षा	16,400-450-20,000
पुलिस उप महानिरीक्षक—विशाखापटनम रेंज	16,400-450-20,000
पुलिस उप महानिरीक्षक—एलूरु रेंज	16,400-450-20,000
पुलिस उप महानिरीक्षक—गुंटूर रेंज	16,400-450-20,000
पुलिस उप महानिरीक्षक—वारंगल रेंज	16,400-450-20,000
पुलिस उप महानिरीक्षक—हैदराबाद रेंज	16,400-450-20,000
पुलिस उप महानिरीक्षक—निजामाबाद रेंज	16,400-450-20,000
पुलिस उप महानिरीक्षक—कुरनूल रेंज	16,400-450-20,000
पुलिस उप महानिरीक्षक—अनन्तपुर रेंज	16,400-450-20,000
पुलिस आयुक्त, विशाखापटनम सिटी	16,400-450-20,000

(II) "अनुसूची-III-ख में, राज्य सरकार के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ समय वेतनमान में (समय वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित) वेतन लेने वाले पदों में", तालिका के पहले कॉलम में आने वाली आन्ध्र प्रदेश प्रविष्टि के लिए और दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुसूची प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

सहायक पुलिस महानिरीक्षक—कानून व व्यवस्था

पुलिस अधीक्षक—आसूचना I, II, III, IV

पुलिस अधीक्षक—सी.आई.डी. I, II, III, IV और V

पुलिस अधीक्षक—एस.आई.बी.

पुलिस अधीक्षक—सुरक्षा

पुलिस अधीक्षक—महिला सुरक्षा सैल, सी.आई.डी.

पुलिस अधीक्षक—रेलवे

पुलिस अधीक्षक—रेलवे (गुंटाकल)

संयुक्त निदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

प्रधानाचार्य—पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज

उप निदेशक, आन्ध्र प्रदेश पुलिस अकादमी

ग्रुप कमान्डर—ग्रेहाउन्ड्स

पुलिस उपायुक्त, प्रशासन—शहर, हैदराबाद

पुलिस उपायुक्त, हैदराबाद पूर्वी क्षेत्र

पुलिस उपायुक्त, हैदराबाद उत्तरी क्षेत्र

पुलिस उपायुक्त, हैदराबाद पश्चिमी क्षेत्र

पुलिस उपायुक्त, हैदराबाद दक्षिणी क्षेत्र

पुलिस उपायुक्त, विशेष शाखा शहर

पुलिस उपायुक्त, यातायात

पुलिस उपायुक्त, अपराध

पुलिस उपायुक्त, सी.ए.आर. मुख्यालय

पुलिस अधीक्षक—आदिलाबाद

पुलिस अधीक्षक—कुड्डापा

पुलिस अधीक्षक—कृष्णा

पुलिस अधीक्षक—मेडक

पुलिस अधीक्षक—निजामाबाद

पुलिस अधीक्षक—श्रीकाकुलम

पुलिस अधीक्षक—वारंगल

पुलिस अधीक्षक—अनन्तपुर

पुलिस अधीक्षक—ईस्ट गोदावरी

पुलिस अधीक्षक—वैस्ट गोदावरी

पुलिस अधीक्षक—करीमनगर

पुलिस अधीक्षक—कुरनूल

पुलिस अधीक्षक—नालगोंडा

पुलिस अधीक्षक—प्रकाशम

पुलिस अधीक्षक—विशाखापटनम

पुलिस अधीक्षक—चित्तूर

पुलिस अधीक्षक—गुन्टूर

पुलिस अधीक्षक—खम्माम

पुलिस अधीक्षक—महबूबनगर

पुलिस अधीक्षक—नेल्लोर

पुलिस अधीक्षक—रंगा रेड्डी

पुलिस अधीक्षक—विजयानगरम्

कमांडेंट, एस.ए.आर., सी.पी.एल.

कमांडेंट, आन्ध्र प्रदेश पुलिस बटालियन

[सं० 11052/3/2003-अ.भा.से. (II) ख]

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

टिप्पणी : मुख्य नियम भारत के राजपत्र सा.का.नि. संख्या 158 दिनांक 14 सितम्बर 1954 द्वारा प्रकाशित किए गए थे । बाद में ये नियम निम्नलिखित सा.का.नि. संख्या के द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के आन्ध्र प्रदेश संवर्ग के लिए संशोधित किए गए थे ।

क्रम सं.	सा.का.नि. संख्या	दिनांक
1.	857अ	30-10-1976
2.	1537	12-11-1977
3.	581अ	19-10-1979
4.	397	18-4-1981
5.	345अ	20-04-1983
7.	786	23-07-1984
8.	1000	31-12-1988
9.	99	20-02-1993
10.	187	12-4-1997
11.	188	12-4-1997
12.	209अ	24-4-1998

New Delhi, the 5th November, 2003

G.S.R. 423.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (LXI of 1951) read with Rule 11 of the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government, in

consultation with the Government of Andhra Pradesh hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, namely :—

1. (i) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) Third Amendment Rules, 2003.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In "Schedule III-A"—Posts carrying pay above the time scale in the Indian Police Service under the State Government" in the Table, for the entry "Andhra Pradesh" occurring in the first column and the corresponding entries in the second and third columns, the following shall be substituted, namely :—

Andhra Pradesh

	(Rupees)		(Rupees)
Director General & Inspector General of Police	24,050-650-26000	Inspector General of Police—Welfare & Sports	18,400-500-22,400
Director General of Police, Anti Corruption Bureau	24,050-650-26000	Inspector General of Police—Police Transport Organisation	18,400-500-22,400
Additional Director General of Police—Administration	22,400-525-24500	Inspector General of Police—Special Protection Force	18,400-500-22,400
Additional Director General of Police (Intelligence)	22,400-525-24500	Inspector General of Police—PCR Cell, CID	18,400-500-22,400
Additional Director General of Police (Law & Order)	22,400-525-24500	Director, A.P. Police Academy	18,400-500-22,400
Additional Director General of Police, CID	22,400-525-24500	Director, Anti Corruption Bureau	18,400-500-22,400
Additional Director General of Police—A.P. Special Police	22,400-525-24500	Director, SCRB	18,400-500-22,400
Commissioner of Police—Hyderabad	22,400-525-24500	Addl. Commissioner of Police (Traffic)	18,400-500-22,400
Inspector General of Police—Headquarters & Legal Service	18,400-500-22,400	Addl. Commissioner of Police (Security)	18,400-500-22,400
Inspector General of Police—Law & Order	18,400-500-22,400	Deputy Inspector General of Police—Security	16,400-450-20,000
Inspector General of Police—CID	18,400-500-22,400	Deputy Inspector General of Police—S.I.B.	16,400-450-20,000
Inspector General of Police—Intelligence	18,400-500-22,400	Deputy Inspector General of Police—Human Rights	16,400-450-20,000
Inspector General of Police—Coordination & Traffic	18,400-500-22,400	Deputy Inspector General of Police—Fire Services	16,400-450-20,000
Inspector General of Police—Provisioning & Logistic	18,400-500-22,400	Deputy Inspector General of Police—Organisation	16,400-450-20,000
Inspector General of Police—A.P. Special Police	18,400-500-22,400	Deputy Inspector General of Police—A.P. Special Police Battalions	16,400-450-20,000
Inspector General of Police, Security	18,400-500-22,400	Deputy Inspector General of Police—Intelligence	16,400-450-20,000
Inspector General of Police—Training	18,400-500-22,400	Deputy Inspector General of Police—CID I & II	16,400-450-20,000
Inspector General of Police—Greyhounds	18,400-500-22,400	Deputy Inspector General of Police—CID III and PCR & Social Justice	16,400-450-20,000
Inspector General of Police—Home Guards	18,400-500-22,400	Deputy Inspector General of Police—Greyhounds	16,400-450-20,000
		Joint Director, A.P. Police Academy	16,400-450-20,000
		Addl. Director, Anti Corruption Bureau	16,400-450-20,000
		Commissioner of Police—Vijayawada City	16,400-450-20,000
		Joint Commissioner of Police, Law & Order	16,400-450-20,000
		Joint Commissioner of Police, Crime & SIT	16,400-450-20,000
		Joint Commissioner of Police, Traffic/Security	16,400-450-20,000
		Deputy Inspector General of Police—Vishakhapatnam Range	16,400-450-20,000

	(Rupees)
Deputy Inspector General of Police— Eluru Range	16,400-450-20,000
Deputy Inspector General of Police— Guntur Range	16,400-450-20,000
Deputy Inspector General of Police— Warangal Range	16,400-450-20,000
Deputy Inspector General of Police— Hyderabad Range	16,400-450-20,000
Deputy Inspector General of Police— Nizamabad Range	16,400-450-20,000
Deputy Inspector General of Police— Kurnool Range	16,400-450-20,000
Deputy Inspector General of Police— Anantapur Range	16,400-450-20,000
Commissioner of Police— Vishakhapatnam City	16,400-450-20,000

II—In “Schedule III-B—Posts carrying pay in the Senior Scale of the Indian Police Service under the State Government (including posts carrying Special Pay in addition to pay in time scale)” in the Table, for the entry “Andhra Pradesh” occurring in the first column and the corresponding entries in the second column, the following shall be substituted, namely :—

Assistant Inspector General of Police—Law & Order
Superintendent of Police—Intelligence I, II, III & IV
Superintendent of Police—CID I, II, III, IV & V
Superintendent of Police, SIB
Superintendent of Police—Security
Superintendent of Police—Women Protection Cell, CID
Superintendent of Police—Railways
Superintendent of Police—Railways (Guntakal)
Joint Director, Anti Corruption Bureau
Principal—Police Training College
Deputy Director, A.P. Police Academy
Group Commander—Greyhounds
Deputy Commissioner of Police—Administration— City, Hyderabad
Deputy Commissioner of Police—Hyderabad, East Zone
Deputy Commissioner of Police—Hyderabad, North Zone
Deputy Commissioner of Police—Hyderabad, West Zone
Deputy Commissioner of Police—Hyderabad, South Zone
Deputy Commissioner of Police—Special Branch, City
Deputy Commissioner of Police—Traffic

Deputy Commissioner of Police—Crime
Deputy Commissioner of Police—CAR Hqrs
Superintendent of Police—Adilabad
Superintendent of Police—Cuddapah
Superintendent of Police—Krishna
Superintendent of Police—Medak
Superintendent of Police—Nizamabad
Superintendent of Police—Srikakulam
Superintendent of Police—Warangal
Superintendent of Police—Anantapur
Superintendent of Police—East Godavari
Superintendent of Police—West Godavari
Superintendent of Police—Karimnagar
Superintendent of Police—Kurnool
Superintendent of Police—Nalgonda
Superintendent of Police—Prakasam
Superintendent of Police—Vishakhapatnam
Superintendent of Police—Chittoor
Superintendent of Police—Guntur
Superintendent of Police—Khammam
Superintendent of Police—Mahaboobnagar
Superintendent of Police—Nellore
Superintendent of Police—Ranga Reddy
Superintendent of Police—Vizianagaram
Commandant, SAR, CPL
Commandants—AP Special Police Battalions

[No. 11052/3/2003-AIS(II)-B]
G. C. PANDEY, Under Secy.

Note : The Principal Rules were published vide Gazette of India GSR No. 158 dated 14th November, 1954. These were subsequently amended for Andhra Pradesh cadre of IPS vide GSR Nos. :—

S.No.	GSR Nos.	Date
1	857E	30-10-76
2	1537	12-11-77
3	581E	19-10-1979
4	397	18-4-1981
5	345E	20-4-1983
6	786	23-7-1984
7	1000	31-12-1988
8	99	20-2-1993
9	187	12-4-1997
10	188	12-4-1997
11	209E	24-4-1998

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2003

सा.का.नि. 424.—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप नियम (1) और (2) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार जम्मू तथा कश्मीर सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) सातवाँ संशोधन विनियमावली, 2003 है।

(ii) ये विनियम भारत के राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में “जम्मू तथा कश्मीर” शीर्षक के नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

जम्मू तथा कश्मीर

राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद	73
पुलिस, महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक	1
पुलिस, महानिदेशक—कारागार	1
पुलिस, अपर महानिदेशक—कानून एवं व्यवस्था/मुख्यालय	1
पुलिस, अपर महानिदेशक—आसूचना/सुरक्षा	1
पुलिस, अपर महानिदेशक—सशस्त्र पुलिस	1
पुलिस, अपर महानिदेशक—होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा	1
पुलिस महानिरीक्षक—मुख्यालय	1
पुलिस महानिरीक्षक—यातायात	1
पुलिस महानिरीक्षक—सी.आई.डी.	1
पुलिस महानिरीक्षक—सशस्त्र पुलिस	1
पुलिस महानिरीक्षक—सुरक्षा	1
पुलिस महानिरीक्षक—अपराध तथा रेलवे	1
पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक—एस.के. पुलिस अकादमी	1
पुलिस महानिरीक्षक—आधुनिकीकरण	1
पुलिस महानिरीक्षक—पुलिस आवास	1
पुलिस महानिरीक्षक—कश्मीर जोन	1
पुलिस महानिरीक्षक—जम्मू जोन	1
पुलिस उप महानिरीक्षक—सी.आई.डी.	2
पुलिस उप महानिरीक्षक—कार्मिक, पुलिस मुख्यालय	1
पुलिस उप महानिरीक्षक—प्रशासन, पुलिस मुख्यालय	1

पुलिस उप महानिरीक्षक—होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा	1
पुलिस उप महानिरीक्षक—सशस्त्र पुलिस	2
पुलिस उप महानिरीक्षक—अपराध तथा रेलवे	1
पुलिस उप महानिरीक्षक—सुरक्षा	1
पुलिस उप महानिरीक्षक—यातायात	1
पुलिस उप महानिरीक्षक/निदेशक, दूरसंचार	1
पुलिस उप महानिरीक्षक—राजौरी—पुंछ	1
पुलिस उप महानिरीक्षक—बारामुला—कुपवारा	1
पुलिस उप महानिरीक्षक—कश्मीर	1
पुलिस उप महानिरीक्षक—जम्मू	1
पुलिस उप महानिरीक्षक—ऊधमपुर—डोडा	1
पुलिस सहायक महानिरीक्षक—कार्मिक	1
पुलिस सहायक महानिरीक्षक—कल्याण	1
पुलिस सहायक महानिरीक्षक—यातायात	1
पुलिस अधीक्षक—यातायात, कश्मीर	1
पुलिस अधीक्षक—सुरक्षा	1
पुलिस अधीक्षक—अपराध तथा रेलवे	1
पुलिस अधीक्षक—सी.आई.डी., विशेष शाखा	2
पुलिस अधीक्षक—सी.आई.डी., सी.आई. कश्मीर	1
पुलिस अधीक्षक—सी.आई.डी., सी.आई. जम्मू	1
पुलिस अधीक्षक—सी.आई.डी. मुख्यालय	3
पुलिस अधीक्षक—अमन्तनाग	1
पुलिस अधीक्षक—बारामुला	1
पुलिस अधीक्षक—बड़गम	1
पुलिस अधीक्षक—डोडा	1
पुलिस अधीक्षक—जम्मू	1
पुलिस अधीक्षक—कारगिल	1
पुलिस अधीक्षक—कटुवा	1
पुलिस अधीक्षक—कुषवाड़ा	1
पुलिस अधीक्षक—लेह	1
पुलिस अधीक्षक—पुंछ	1
पुलिस अधीक्षक—पुलवामा	1
पुलिस अधीक्षक—राजौरी	1
पुलिस अधीक्षक—श्रीनगर	1
पुलिस अधीक्षक—ऊधम नगर	1

पुलिस अधीक्षक—कुलगाम	1	के संबंध में बाद में इन्हें निम्नलिखित सा.का.नि. संख्या द्वारा संशोधित किया गया :—		
पुलिस अधीक्षक—गंदेबल	1	क्रम	सा.का.नि.	दिनांक
पुलिस अधीक्षक—अवन्तिपोरा	1	सं.	संख्या	
पुलिस अधीक्षक—हंडारवाड़ा	1	1.	597	16.3.86
पुलिस अधीक्षक—रियासी	1	2.	586	19.10.91
पुलिस अधीक्षक—रामबन	1	3.	320अ	31.3.95
कमांडेंट सशस्त्र पुलिस	5	4.	346	4.10.97
पुलिस अपर अधीक्षक, जम्मू	1	5.	740अ	31.11.97
पुलिस अपर अधीक्षक, श्रीनगर	1	6.	560अ	4.9.98
कुल	73	New Delhi, the 5th November, 2003		
2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिज़र्व (उपर्युक्त मद 1 का 40%) की दर से	29	G.S.R. 424. —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (LXI of 1951) read with sub-rules (1) and (2) of Rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Jammu & Kashmir hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely :— 1. (i) These rules may be called the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Seventh Amendment Regulations, 2003. (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. In the Schedule to the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, under the heading "Jammu & Kashmir" for the entries occurring thereunder, the following shall be substituted namely :— Jammu & Kashmir 1. Senior Posts under the State Government 73 Director General of Police & Inspector General of Police 1 Director General of Police—Prisons 1 Additional Director General of Police—Law & Order/ Headquarters 1 Additional Director General of Police—Intelligence/ Security 1 Additional Director General of Police—Armed Police 1 Additional Director General of Police—Home Guards & Civil Defence 1 Inspector General of Police—Headquarters 1 Inspector General of Police—Traffic 1 Inspector General of Police—CID 1 Inspector General of Police—Armed Police 1 Inspector General of Police—Security 1 Inspector General of Police—Crime & Railways 1 Inspector General of Police/Director—S.K. Police Academy 1		
3. राज्य प्रतिनियुक्ति रिज़र्व (उपर्युक्त मद 1 का 25%) की दर से	18			
4. प्रशिक्षण रिज़र्व (उपर्युक्त मद 1 का 3.5%) की दर से	03			
5. भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 9 के अन्तर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1, 2, 3 तथा 4 के 33.3% से अधिक नहीं	61			
6. छुट्टी रिज़र्व और कनिष्ठ पद रिज़र्व उपर्युक्त मद 1 के 16.5% की दर से	12			
7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1 + 2 + 3 + 4 + 6 - 5)	74			
सीधी भर्ती के पद	74			
पदोन्नति वाले पद	61			
कुल प्राधिकृत संख्या	135			
[सं० 11052/4/2003-अ.भा.से. (II) क]				
जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव				
टिप्पणी 1 : इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, भारतीय पुलिस सेवा के जम्मू तथा कश्मीर संवर्ग की कुल प्राधिकृत संख्या 120 थी ।				
टिप्पणी 2 : मुख्य विनियम दिनांक 22-10-1955 की एस.आर.ओ. संख्या 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे तथा भारतीय पुलिस सेवा के जम्मू तथा कश्मीर संवर्ग				

Inspector General of Police—Modernisation	1	Superintendent of Police—Pulwama	1
Inspector General of Police—Police Housing	1	Superintendent of Police—Rajouri	1
Inspector General of Police—Kashmir Zone	1	Superintendent of Police—Srinagar	1
Inspector General of Police—Jammu Zone	1	Superintendent of Police—Udhampur	1
Deputy Inspector General of Police—CID	2	Superintendent of Police—Kulgam	1
Deputy Inspector General of Police—Personnel, PHQ	1	Superintendent of Police—Ganderbal	1
Deputy Inspector General of Police—Administration, PHQ	1	Superintendent of Police—Awantipora	1
Deputy Inspector General of Police—Home Guard and Civil Defence	1	Superintendent of Police—Handarawara	1
Deputy Inspector General of Police—Armed Police	2	Superintendent of Police—Reasi	1
Deputy Inspector General of Police—Crime & Railways	1	Superintendent of Police—Ramban	1
Deputy Inspector General of Police—Security	1	Commandants of Armed Police	5
Deputy Inspector General of Police—Traffic	1	Addl. Superintendent of Police, Jammu	1
Deputy Inspector General of Police/Director, Telecom	1	Addl. Superintendent of Police, Srinagar	1
Deputy Inspector General of Police—Rajouri-Poonch	1	TOTAL	73
Deputy Inspector General of Police—Baramulla-Kupwara	1	2. Central Deputation Reserve @ 40% of Item 1 above	29
Deputy Inspector General of Police—Kashmir	1	3. State Deputation Reserve @ 25% of Item 1 above	18
Deputy Inspector General of Police—Jammu	1	4. Training Reserve @ 3.5% of Item 1 above	03
Deputy Inspector General of Police—Udhampur-Doda	1	5. Posts to be filled by promotion under Rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 50% of Item 1, 2, 3, & 4 above	61
Assistant Inspector General of Police—Personnel	1	6. Leave Reserve and Junior Posts Reserve @ 16.5% of Item 1 above	12
Assistant Inspector General of Police—Welfare	1	7. Posts to be filled up by Direct Recruitment (Item 1 + 2 + 3 + 4 + 6 - 5)	74
Assistant Inspector General of Police—Traffic	1	Direct Recruitment Posts	74
Superintendent of Police—Traffic, Kashmir	1	Promotion Posts	61
Superintendent of Police—Security	1	Total Authorised Strength	135
Superintendent of Police—Crime & Railways	1	[No. 11052/4/2003-AIS(II)-A] G.C. PANDEY, Under Secy.	
Superintendent of Police—CID Special Branch	2		
Superintendent of Police—CID CI Kashmir	1	Note 1 : Prior to the issue of this notification, the total authorised strength of the Jammu & Kashmir (IPS) Cadre was 120.	
Superintendent of Police—CID CI Jammu	1		
Superintendent of Police—CID Headquarters	3	Note 2 : The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide SRO no. 3350, dated 22-10-1955. Subsequently they were amended in respect of the Indian Police Service vide following	
Superintendent of Police—Anantnag	1		
Superintendent of Police—Baramulla	1		
Superintendent of Police—Budgam	1		
Superintendent of Police—Doda	1		
Superintendent of Police—Jammu	1		
Superintendent of Police—Kargil	1		
Superintendent of Police—Kathua	1		
Superintendent of Police—Kupwara	1		
Superintendent of Police—Leh	1		
Superintendent of Police—Poonch	1		

GSR numbers and dates in respect of Jammu & Kashmir cadre :—

S.No.	GSR Nos.	Date
1	597	16.3.86
2	586	19-10-91
3	320E	31-3-95
4	346	4-10-97
5	740E	31-12-97
6	560E	4-9-98

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2003

सा.का.नि. 425.— भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली 1954 के नियम 11 के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार जम्मू तथा कश्मीर सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) सातवाँ संशोधन नियमावली, 2003 है ।

(ii) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. (I) "तालिका की अनुसूची-III-क-में राज्य सरकार के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के समय वेतनमान से ऊपर के पदों में," प्रथम कॉलम की "जम्मू तथा कश्मीर" प्रविष्टि और दूसरे तथा तीसरे कॉलमों में तदनुसूची प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

जम्मू तथा कश्मीर

(रुपए)

पुलिस, महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक	24,050-650-26,000
पुलिस, महानिदेशक—कारागार	24,050-650-26,000
पुलिस, अपर महानिदेशक—कानून एवं व्यवस्था/मुख्यालय	22,400-525-24,500
पुलिस, अपर महानिदेशक—आसूचना/सुरक्षा	22,400-525-24,500
पुलिस, अपर महानिदेशक—सशस्त्र पुलिस	22,400-525-24,500
पुलिस, अपर महानिदेशक—होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा	22,400-525-24,500
पुलिस, महानिरीक्षक—मुख्यालय	18,400-500-22,400
पुलिस, महानिरीक्षक—यातायात	18,400-500-22,400
पुलिस, महानिरीक्षक—सी.आई.डी.	18,400-500-22,400
पुलिस, महानिरीक्षक—सशस्त्र पुलिस	18,400-500-22,400

(रुपए)

पुलिस, महानिरीक्षक—सुरक्षा	18,400-500-22,400
पुलिस, महानिरीक्षक—अपराध तथा रेलवे	18,400-500-22,400
पुलिस, महानिरीक्षक/निदेशक—एस.के. पुलिस अकादमी	18,400-500-22,400
पुलिस, महानिरीक्षक—आधुनिकीकरण	18,400-500-22,400
पुलिस, महानिरीक्षक—पुलिस आवास	18,400-500-22,400
पुलिस, महानिरीक्षक—कश्मीर जोन	18,400-500-22,400
पुलिस, महानिरीक्षक—जम्मू जोन	18,400-500-22,400
पुलिस, उप महानिरीक्षक—सी.आई.डी.	16,400-450-20,000
पुलिस, उप महानिरीक्षक—कार्मिक, पुलिस मुख्यालय	16,400-450-20,000
पुलिस, उप महानिरीक्षक—प्रशासन, पुलिस मुख्यालय	16,400-450-20,000
पुलिस, उप महानिरीक्षक—होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा	16,400-450-20,000
पुलिस, उप महानिरीक्षक—सशस्त्र पुलिस	16,400-450-20,000
पुलिस, उप महानिरीक्षक—अपराध तथा रेलवे	16,400-450-20,000
पुलिस, उप महानिरीक्षक—सुरक्षा	16,400-450-20,000
पुलिस, उप महानिरीक्षक—यातायात	16,400-450-20,000
पुलिस, उप महानिरीक्षक/निदेशक, दूरसंचार	16,400-450-20,000
पुलिस, उप महानिरीक्षक—राजौरी-पुंछ	16,400-450-20,000
पुलिस, उप महानिरीक्षक—बारामुला-कुपवारा	16,400-450-20,000
पुलिस, उप महानिरीक्षक—कश्मीर	16,400-450-20,000
पुलिस, उप महानिरीक्षक—जम्मू	16,400-450-20,000
पुलिस, उप महानिरीक्षक—ऊधमपुर-डोडा	16,400-450-20,000

(II) "अनुसूची-III-ख में, राज्य सरकार के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ समय वेतनमान में (समय वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित) वेतन लेने वाले पदों में," तालिका के पहले कॉलम में आने वाली जम्मू तथा कश्मीर प्रविष्टि के लिए और दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुसूची प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

पुलिस सहायक महानिरीक्षक—कार्मिक
पुलिस सहायक महानिरीक्षक—कल्याण
पुलिस सहायक महानिरीक्षक—यातायात
पुलिस अधीक्षक—यातायात, कश्मीर
पुलिस अधीक्षक—सुरक्षा
पुलिस अधीक्षक—अपराध तथा रेलवे
पुलिस अधीक्षक—सी.आई.डी., विशेष शाखा

पुलिस अधीक्षक—सी.आई.डी., सी.आई., कश्मीर	क्रम सं.	सा.का.नि. संख्या	दिनांक																										
पुलिस अधीक्षक—सी.आई.डी., सी.आई., जम्मू	1.	596	16.3.86																										
पुलिस अधीक्षक—सी.आई.डी. मुख्यालय	2.	585	19.10.91																										
पुलिस अधीक्षक—अनन्तनाग	3.	847	4.10.97																										
पुलिस अधीक्षक—बारामुला	4.	561अ	4.9.98																										
पुलिस अधीक्षक—बड़गम	New Delhi, the 5th November 2003																												
पुलिस अधीक्षक—डोडा	<p>G.S.R. 425.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (LXI of 1951) read with Rule 11 of the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government, after consultation with the Government of Jammu & Kashmir hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, namely :—</p> <p>1. (i) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) Seventh Amendment Rules, 2003.</p> <p>(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.</p> <p>2. (I) In “Schedule III-A—Posts carrying pay above the time scale in the Indian Police Service under the State Government” in the Table, for the entry “Jammu & Kashmir” occurring in the first column and the corresponding entries in the second and third columns, the following shall be substituted namely :—</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: left;">Jammu & Kashmir</td> <td style="text-align: right;">(Rupees)</td> </tr> <tr> <td>Director General of Police & Inspector General of Police</td> <td style="text-align: right;">24050-650-26000</td> </tr> <tr> <td>Director General of Police—Prisons</td> <td style="text-align: right;">24050-650-26000</td> </tr> <tr> <td>Additional Director General of Police—Law & Order/Headquarters</td> <td style="text-align: right;">22400-525-24500</td> </tr> <tr> <td>Additional Director General of Police—Intelligence/Security</td> <td style="text-align: right;">22400-525-24500</td> </tr> <tr> <td>Additional Director General of Police—Armed Police</td> <td style="text-align: right;">22400-525-24500</td> </tr> <tr> <td>Additional Director General of Police—Home Guards & Civil Defence</td> <td style="text-align: right;">22400-525-24500</td> </tr> <tr> <td>Inspector General of Police—Headquarters</td> <td style="text-align: right;">18400-500-22400</td> </tr> <tr> <td>Inspector General of Police—Traffic</td> <td style="text-align: right;">18400-500-22400</td> </tr> <tr> <td>Inspector General of Police—CID</td> <td style="text-align: right;">18400-500-22400</td> </tr> <tr> <td>Inspector General of Police—Armed Police</td> <td style="text-align: right;">18400-500-22400</td> </tr> <tr> <td>Inspector General of Police—Security</td> <td style="text-align: right;">18400-500-22400</td> </tr> <tr> <td>Inspector General of Police—Crime & Railways</td> <td style="text-align: right;">18400-500-22400</td> </tr> </table>			Jammu & Kashmir	(Rupees)	Director General of Police & Inspector General of Police	24050-650-26000	Director General of Police—Prisons	24050-650-26000	Additional Director General of Police—Law & Order/Headquarters	22400-525-24500	Additional Director General of Police—Intelligence/Security	22400-525-24500	Additional Director General of Police—Armed Police	22400-525-24500	Additional Director General of Police—Home Guards & Civil Defence	22400-525-24500	Inspector General of Police—Headquarters	18400-500-22400	Inspector General of Police—Traffic	18400-500-22400	Inspector General of Police—CID	18400-500-22400	Inspector General of Police—Armed Police	18400-500-22400	Inspector General of Police—Security	18400-500-22400	Inspector General of Police—Crime & Railways	18400-500-22400
Jammu & Kashmir	(Rupees)																												
Director General of Police & Inspector General of Police	24050-650-26000																												
Director General of Police—Prisons	24050-650-26000																												
Additional Director General of Police—Law & Order/Headquarters	22400-525-24500																												
Additional Director General of Police—Intelligence/Security	22400-525-24500																												
Additional Director General of Police—Armed Police	22400-525-24500																												
Additional Director General of Police—Home Guards & Civil Defence	22400-525-24500																												
Inspector General of Police—Headquarters	18400-500-22400																												
Inspector General of Police—Traffic	18400-500-22400																												
Inspector General of Police—CID	18400-500-22400																												
Inspector General of Police—Armed Police	18400-500-22400																												
Inspector General of Police—Security	18400-500-22400																												
Inspector General of Police—Crime & Railways	18400-500-22400																												
पुलिस अधीक्षक—जम्मू																													
पुलिस अधीक्षक—कारगिल																													
पुलिस अधीक्षक—कठुवा																													
पुलिस अधीक्षक—कुपवाड़ा																													
पुलिस अधीक्षक—लेह																													
पुलिस अधीक्षक—पुंछ																													
पुलिस अधीक्षक—पुलवामा																													
पुलिस अधीक्षक—राजौरी																													
पुलिस अधीक्षक—श्रीनगर																													
पुलिस अधीक्षक—रुधमपुर																													
पुलिस अधीक्षक—कुलगाम																													
पुलिस अधीक्षक—गंदेरबल																													
पुलिस अधीक्षक—अवन्तिपोरा																													
पुलिस अधीक्षक—हंडारवाड़ा																													
पुलिस अधीक्षक—रियासी																													
पुलिस अधीक्षक—रामबन																													
कमांडेंट सशस्त्र पुलिस																													
पुलिस अपर अधीक्षक, जम्मू																													
पुलिस अपर अधीक्षक, श्रीनगर																													

[सं० 11052/4/2003-अ.भा.से. (II) ख]
जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

टिप्पणी : मुख्य विनियम दिनांक 22-10-1955 की एस्.आर.ओ. संख्या 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे तथा भारतीय पुलिस सेवा के जम्मू तथा कश्मीर संवर्ग के संबंध में, बाद में इन्हें निम्नलिखित सा.का.नि. संख्या द्वारा संशोधित किया गया :—

	(Rupees)	
Inspector General of Police/Director—S.K. Police Academy	18400-500-22400	Assistant Inspector General of Police—Traffic
Inspector General of Police—Modernisation	18400-500-22400	Superintendent of Police—Traffic, Kashmir
Inspector General of Police—Police Housing	18400-500-22400	Superintendent of Police—Security
Inspector General of Police—Kashmir Zone	18400-500-22400	Superintendent of Police—Crime & Railways
Inspector General of Police—Jammu Zone	18400-500-22400	Superintendent of Police—CID, Special Branch
Deputy Inspector General of Police—CID	16400-450-20000	Superintendent of Police—CID CI, Kashmir
Deputy Inspector General of Police—Personnel, PHQ	16400-450-20000	Superintendent of Police—CID CI, Jammu
Deputy Inspector General of Police—Administration, PHQ	16400-450-20000	Superintendent of Police—CID, Headquarters
Deputy Inspector General of Police—Home Guards and Civil Defence	16400-450-20000	Superintendent of Police—Anantnag
Deputy Inspector General of Police—Armed Police	16400-450-20000	Superintendent of Police—Baramulla
Deputy Inspector General of Police—Crime & Railways	16400-450-20000	Superintendent of Police—Budgam
Deputy Inspector General of Police—Security	16400-450-20000	Superintendent of Police—Doda
Deputy Inspector General of Police—Traffic	16400-450-20000	Superintendent of Police—Jammu
Deputy Inspector General of Police/Director, Telecom	16400-450-20000	Superintendent of Police—Kargil
Deputy Inspector General of Police—Rajouri-Poonch	16400-450-20000	Superintendent of Police—Kathua
Deputy Inspector General of Police—Baramulla—Kupwara	16400-450-20000	Superintendent of Police—Kupwara
Deputy Inspector General of Police—Kashmir	16400-450-20000	Superintendent of Police—Leh
Deputy Inspector General of Police—Jammu	16400-450-20000	Superintendent of Police—Poonch
Deputy Inspector General of Police—Udhampur-Doda	16400-450-20000	Superintendent of Police—Pulwama
		Superintendent of Police—Rajouri
		Superintendent of Police—Srinagar
		Superintendent of Police—Udhampur
		Superintendent of Police—Kulgam
		Superintendent of Police—Ganderbal
		Superintendent of Police—Awantipora
		Superintendent of Police—Handarawara
		Superintendent of Police—Reasi
		Superintendent of Police—Ramban
		Commandants of Armed Police
		Addl. Superintendent of Police, Jammu
		Addl. Superintendent of Police, Srinagar

II. In "Schedule III-B—Posts carrying pay in the Senior Scale of the Indian Police Service under the State Government (including posts carrying Special Pay in addition to pay in time scale)" in the Table, for the entry "Jammu & Kashmir" occurring in the first column and the corresponding entries in the second column, the following shall be substituted, namely :—

Assistant Inspector General of Police—Personnel
Assistant Inspector General of Police—Welfare

[No. 11052/4/2003-AIS(II)-BJ]
G.C. PANDEY, Under Secy.

Note : The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3350, dated 22-10-1955. Subsequently they were amended in respect of the Indian Police Service vide following GSR numbers and dates in respect of Jammu & Kashmir cadre :—

S.No.	GSR Nos.	Date		
1.	596	16.3.86	पुलिस महानिरीक्षक—प्रवर्तन शाखा, पश्चिम बंगाल	1
2.	585	19-10-91	पुलिस महानिरीक्षक—संगठन, पश्चिम बंगाल	1
3.	347	4-10-97	पुलिस महानिरीक्षक—रेल, पश्चिम बंगाल	1
4.	561E	4-9-98	पुलिस महानिरीक्षक—दूर संचार, पश्चिम बंगाल	1

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2003

सा.का.नि. 426. — भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली 1954 के नियम 4 के उप नियम (1) और (2) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) चतुर्थ संशोधन विनियमावली, 2003 है।

(ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में “पश्चिम बंगाल” शीर्षक के नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

पश्चिम बंगाल

राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद	150		
पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक, पश्चिम बंगाल	1	पुलिस महानिरीक्षक—(आसूचना) सीमा, पश्चिम बंगाल	1
कमांडेंट जनरल, होम गार्ड, पश्चिम बंगाल	1	पुलिस महानिरीक्षक—आसूचना शाखा, उत्तरी बंगाल, प. बंगाल	1
पुलिस आयुक्त—कोलकाता	1	पुलिस महानिरीक्षक—कल्याण, पश्चिम बंगाल	1
अपर पुलिस महानिदेशक—प्रशासन, पश्चिम बंगाल	1	पुलिस महानिरीक्षक—प्रशिक्षण, पश्चिम बंगाल	1
अपर पुलिस महानिदेशक—आयोजना, पश्चिम बंगाल	1	पुलिस महानिरीक्षक—कानून और व्यवस्था, प. बंगाल	1
अपर पुलिस महानिदेशक—सशस्त्र पुलिस, पश्चिम बंगाल	1	पुलिस महानिरीक्षक—सतर्कता-आयोग, पश्चिम बंगाल	1
प्रबंध निदेशक, पुलिस आवास निगम, पश्चिम बंगाल	1	पुलिस महानिरीक्षक—प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, प. बंगाल	1
अपर पुलिस महानिदेशक—रेलवे, पश्चिम बंगाल	1	पुलिस महानिरीक्षक—सशस्त्र पुलिस, उत्तरी बंगाल, सिलीगुड़ी	1
अपर पुलिस महानिदेशक—प्रवर्तन शाखा, पश्चिम बंगाल	1	संयुक्त पुलिस आयुक्त—सशस्त्र पुलिस, कोलकाता	1
अपर पुलिस महानिदेशक—आपराधिक जांच विभाग, प. बंगाल	1	संयुक्त पुलिस आयुक्त—संगठन, कोलकाता	1
अपर पुलिस महानिदेशक—राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, प. बंगाल	1	संयुक्त पुलिस आयुक्त—प्रशासन, कोलकाता	1
अपर पुलिस महानिदेशक—आसूचना शाखा, पश्चिम बंगाल	1	संयुक्त पुलिस आयुक्त—यातायात, कोलकाता	1
पुलिस महानिरीक्षक—सशस्त्र पुलिस, कोलकाता	1	उप पुलिस महानिरीक्षक—मुख्यालय, पश्चिम बंगाल	1
पुलिस महानिरीक्षक—मुख्यालय, पश्चिम बंगाल	1	उप पुलिस महानिरीक्षक—प्रशासन, पश्चिम बंगाल	1
पुलिस महानिरीक्षक—आपराधिक जांच विभाग-I, प. बंगाल	1	उप पुलिस महानिरीक्षक—संगठन, पश्चिम बंगाल	1
पुलिस महानिरीक्षक—आपराधिक जांच विभाग-II, प. बंगाल	1	उप पुलिस महानिरीक्षक—आई.पी.एस. प्रकोष्ठ, प. बंगाल	1
पुलिस महानिरीक्षक—आसूचना शाखा, पश्चिम बंगाल	1	उप पुलिस महानिरीक्षक—आयोजन तथा कल्याण, प. बंगाल	1
		उप पुलिस महानिरीक्षक—सतर्कता, पश्चिम बंगाल	1
		उप पुलिस महानिरीक्षक—रेलवे, पश्चिम बंगाल	1
		उप पुलिस महानिरीक्षक—यातायात, पश्चिम बंगाल	1
		उप पुलिस महानिरीक्षक—प्रेसीडेंसी रेंज, पश्चिम बंगाल	1
		उप पुलिस महानिरीक्षक—बर्दवान रेंज, पश्चिम बंगाल	1
		उप पुलिस महानिरीक्षक—मिदनापुर रेंज, पश्चिम बंगाल	1

उप पुलिस महानिरीक्षक—मुर्शिदाबाद रेंज, पश्चिम बंगाल	1	पुलिस अधीक्षक—पुरुलिया	1
उप पुलिस महानिरीक्षक—मालदा रेंज, पश्चिम बंगाल	1	पुलिस अधीक्षक—जलपाईगुड़ी	1
उप पुलिस महानिरीक्षक—जलपाईगुड़ी रेंज, पश्चिम बंगाल	1	पुलिस अधीक्षक—कूच-बिहार	1
उप पुलिस महानिरीक्षक—आसूचना शाखा, पश्चिम बंगाल	1	पुलिस अधीक्षक—दार्जिलिंग	1
उप पुलिस महानिरीक्षक—आसूचना शाखा, सीमा, पश्चिम बंगाल	1	पुलिस अधीक्षक—मालदा	1
उप पुलिस महानिरीक्षक—सुरक्षा, आसूचना शाखा, पश्चिम बंगाल	1	पुलिस अधीक्षक—दक्षिण दिनाजपुर	1
उप पुलिस महानिरीक्षक—आपराधिक जाँच विभाग, प. बंगाल	1	पुलिस अधीक्षक—उत्तरी 24 परगना	1
उप पुलिस महानिरीक्षक—संचालन, आपराधिक जाँच विभाग, पश्चिम बंगाल	1	पुलिस अधीक्षक—उत्तरी दिनाजपुर	1
उप पुलिस महानिरीक्षक—आपराधिक जाँच विभाग विशेष, पश्चिम बंगाल	1	पुलिस अधीक्षक—पूर्वी मेदिनीपुर	1
उप पुलिस महानिरीक्षक—अभियोजना, पश्चिम बंगाल	1	विशेष पुलिस अधीक्षक—आसूचना शाखा, पश्चिम बंगाल	3
उप पुलिस महानिरीक्षक—सशस्त्र पुलिस, बैरकपुर, प. बंगाल	1	विशेष पुलिस अधीक्षक—आपराधिक जाँच विभाग, प. बंगाल	3
उप पुलिस महानिरीक्षक—सशस्त्र पुलिस, दुर्गापुर, प. बंगाल	1	विशेष पुलिस अधीक्षक—आसूचना शाखा, सिलीगुड़ी, प. बंगाल	1
उप पुलिस महानिरीक्षक—सशस्त्र पुलिस, सिलीगुड़ी, प. बंगाल	1	पुलिस अधीक्षक—रेल पुलिस, हावड़ा	1
उप पुलिस महानिरीक्षक—सशस्त्र पुलिस, ई. एफ.आर. बटालियन्स, पश्चिम बंगाल	1	पुलिस अधीक्षक—रेल पुलिस, सियालदाह	1
उप पुलिस महानिरीक्षक—प्रवर्तन शाखा, पश्चिम बंगाल	1	पुलिस अधीक्षक—रेल पुलिस, सिलीगुड़ी	1
उप पुलिस महानिरीक्षक—प्रशिक्षण-सह-प्राचार्य, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, बैरकपुर, पश्चिम बंगाल	1	पुलिस अधीक्षक—रेल पुलिस, खड़गपुर	1
उप पुलिस महानिरीक्षक—होम गार्ड, पश्चिम बंगाल	1	कमांडेंट—पूर्वी सीमांत राइफल्स, प्रथम वाहिनी	1
उप पुलिस महानिरीक्षक—राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, प. बंगाल	1	कमांडेंट—पूर्वी सीमांत राइफल्स, द्वितीय वाहिनी	1
उप पुलिस महानिरीक्षक—आधुनिकीकरण/समन्वय, प. बंगाल	1	कमांडेंट—पूर्वी सीमांत राइफल्स, तृतीय वाहिनी	1
उप पुलिस महानिरीक्षक—दार्जिलिंग रेंज, पश्चिम बंगाल	1	कमांडेंट—राज्य सशस्त्र पुलिस, प्रथम वाहिनी, पश्चिम बंगाल	1
उप पुलिस महानिरीक्षक—औद्योगिक शिकायत, पश्चिम बंगाल	1	कमांडेंट—राज्य सशस्त्र पुलिस, द्वितीय वाहिनी, पश्चिम बंगाल	1
उप पुलिस महानिरीक्षक—अन्वेषण ब्यूरो, वित्त (टी.) विभाग	1	कमांडेंट—राज्य सशस्त्र पुलिस, तृतीय वाहिनी, पश्चिम बंगाल	1
पुलिस अधीक्षक—हावड़ा	1	कमांडेंट—राज्य सशस्त्र पुलिस, चतुर्थ वाहिनी, पश्चिम बंगाल	1
पुलिस अधीक्षक—नादिया	1	पुलिस उपायुक्त—मुख्यालय, कोलकाता	1
पुलिस अधीक्षक—दक्षिणी 24 परगना	1	पुलिस उपायुक्त—यातायात, कोलकाता	1
पुलिस अधीक्षक—मुर्शिदाबाद	1	पुलिस उपायुक्त—प्रवर्तन शाखा, कोलकाता	1
पुलिस अधीक्षक—बर्दवान	1	पुलिस उपायुक्त—जासूसी विभाग-I, कोलकाता	1
पुलिस अधीक्षक—बीरभूम	1	पुलिस उपायुक्त—जासूसी विभाग-II, कोलकाता	1
पुलिस अधीक्षक—हुगली	1	पुलिस उपायुक्त—विशेष शाखा-I, कोलकाता	1
पुलिस अधीक्षक—बाँकुड़ा	1	पुलिस उपायुक्त—केन्द्रीय प्रभाग, कोलकाता	1
पुलिस अधीक्षक—पश्चिम मोदिनीपुर	1	पुलिस उपायुक्त—पूर्वी उपनगरी प्रभाग, कोलकाता	1
		पुलिस उपायुक्त—दक्षिणी प्रभाग, कोलकाता	1
		पुलिस उपायुक्त—सुरक्षा नियंत्रण (I), कोलकाता	1
		पुलिस उपायुक्त—बंदरगाह प्रभाग, कोलकाता	1
		पुलिस उपायुक्त—आरक्षी बल, कोलकाता	1

पुलिस उपायुक्त—उत्तरी प्रभाग, कोलकाता	1	3. राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व	38
पुलिस उपायुक्त—बेतार, कोलकाता	1	(उपर्युक्त मद 1 का 25%) की दर से	
पुलिस उपायुक्त—कोलकाता सशस्त्र पुलिस, प्रथम वाहिनी, कोलकाता	1	4. प्रशिक्षण रिजर्व	05
		(उपर्युक्त मद 1 का 3.5%) की दर से	
पुलिस उपायुक्त—कोलकाता सशस्त्र पुलिस, द्वितीय वाहिनी, कोलकाता	1	5. भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 9 के अन्तर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1, 2, 3 तथा 4 के 33.3% से अधिक नहीं	84
पुलिस उपायुक्त—कोलकाता सशस्त्र पुलिस, तृतीय वाहिनी, कोलकाता	1	6. छुट्टी रिजर्व, कनिष्ठ रजर्व उपर्युक्त मद 1 के 16.5% की दर से	25
पुलिस उपायुक्त—कोलकाता सशस्त्र पुलिस, चतुर्थ वाहिनी, कोलकाता	1	7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6)	194
पुलिस उपायुक्त—कोलकाता सशस्त्र पुलिस, पंचम वाहिनी, कोलकाता	1		-----
पुलिस उपायुक्त—डी.डी. (विशेष), कोलकाता	1	सीधी भर्ती के पद	194
अपर पुलिस अधीक्षक—मुख्यालय, दार्जिलिंग	1	पदोन्नति पद	84
अपर पुलिस अधीक्षक—बारासात, उत्तरी 24 परगना	1		-----
अपर पुलिस अधीक्षक—मुख्यालय, हावड़ा	1	कुल प्राधिकृत संख्या	278
अपर पुलिस अधीक्षक—हुगली	1	[सं० 11052/5/2003-अ.भा.से. (II) क]	
अपर पुलिस अधीक्षक—नादिया	1	जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव	
अपर पुलिस अधीक्षक—आसनसोल	1	टिप्पणी 1 : इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, भारतीय पुलिस सेवा के पश्चिम बंगाल संवर्ग की कुल प्राधिकृत संख्या 259 थी।	
अपर पुलिस अधीक्षक—मुर्शिदाबाद	1	टिप्पणी 2 : मुख्य विनियम दिनांक 22-10-1955 की एस.आर.ओ. संख्या 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे तथा भारतीय पुलिस सेवा के पश्चिम बंगाल संवर्ग के संबंध में बाद में इन्हें निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं द्वारा संशोधित किया गया :—	
अपर पुलिस अधीक्षक—पुरुलिया	1		
अपर पुलिस अधीक्षक—खड़गपुर	1		
अपर पुलिस अधीक्षक—जलपाईगुड़ी	1		
अपर पुलिस अधीक्षक—मुख्यालय, दक्षिणी 24 परगना	1	क्रम सं.	सा.का.नि. संख्या
अपर पुलिस अधीक्षक—सिलीगुड़ी	1		दिनांक
अपर पुलिस अधीक्षक—बीरभूम	1	1.	752अ. 04.08.76
अपर पुलिस अधीक्षक—बाँकुड़ा	1	2.	527अ. 08.09.80
अपर पुलिस अधीक्षक—मालदा	1	3.	971 11.12.82
अपर पुलिस अधीक्षक—उत्तर दिनाजपुर	1	4.	344अ. 20.04.83
अपर पुलिस अधीक्षक—दक्षिण दिनाजपुर	1	5.	678 17.09.83
अपर पुलिस अधीक्षक—कूच-बिहार	1	6.	610 29.06.85
सहाय पुलिस महानिरीक्षक	1	7.	1140 14.12.85
कुल	150	8.	682अ. 14.02.87
2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व	60	9.	654 16.11.91
(उपर्युक्त मद 1 का 40%) की दर से		10.	320अ. 31.03.95
		11.	87अ. 21.02.97

New Delhi, the 5th November 2003

G.S.R. 426.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (LXI of 1951) read with sub-rules (1) and (2) of Rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of West Bengal hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely :—

1. (i) These rules may be called the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Fourth Amendment Regulations, 2003.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, under the heading “West Bengal” for the entries occurring thereunder, the following shall be substituted namely :—

West Bengal

1. Senior Posts under the State Government 150

Director General & Inspector General of Police W.B.	1
Commandant General, Home Guards, W.B.	1
Commissioner of Police—Kolkata	1
Additional Director General of Police—Administration, W.B.	1
Additional Director General of Police—Planning, W.B.	1
Additional Director General of Police—Armed Police, West Bengal.	1
Managing Director Police Housing Corp., W.B.	1
Additional Director General of Police—Railways, W.B.	1
Additional Director General of Police—Enforcement Branch, W.B.	1
Additional Director General of Police—CID, W.B.	1
Additional Director General of Police—State Crime Records Bureau, W.B.	1
Additional Director General of Police—Intelligence Branch, W.B.	1
Inspector General of Police—Armed Police, Kolkata	1
Inspector General of Police—Headquarters, W.B.	1
Inspector General of Police—CID—I, W.B.	1
Inspector General of Police—CID—II, W.B.	1
Inspector General of Police—Intelligence Branch, W.B.	1
Inspector General of Police—Enforcement Branch, W.B.	1
Inspector General of Police—Organisation, W.B.	1
Inspector General of Police—Railways, W.B.	1

Inspector General of Police—Telecommunication, W.B.	1
Inspector General of Police—North Bengal Region	1
Inspector General of Police—South Bengal Region	1
Inspector General of Police—Western region	1
Inspector General of Police—Traffic, W.B.	1
Additional Commissioner of Police—I, Kolkata	1
Additional Commissioner of Police—II, Kolkata	1
Additional Commissioner of Police—III, Kolkata	1
Additional Commissioner of Police—IV, Kolkata	1
Inspector General of Police—(Intelligence) Border, West Bengal	1
Inspector General of Police—Intelligence Branch, North Bengal, W.B.	1
Inspector General of Police—Welfare, W.B.	1
Inspector General of Police—Training, W.B.	1
Inspector General of Police—Law & Order, W.B.	1
Inspector General of Police—Vigilance Commission, W.B.	1
Inspector General of Police—Administration PHQ, W.B.	1
Inspector General of Police—Armed Police, North Bengal, Siliguri	1
Joint Commissioner of Police—Armed Police, Kolkata	1
Joint Commissioner of Police—Organisation, Kolkata	1
Joint Commissioner of Police—Administration, Kolkata	1
Joint Commissioner of Police—Traffic, Kolkata	1
Deputy Inspector General of Police—Headquarters, W.B.	1
Deputy Inspector General of Police—Administration, W.B.	1
Deputy Inspector General of Police—Organisation, W.B.	1
Deputy Inspector General of Police—IPS Cell, W.B.	1
Deputy Inspector General of Police—Planning & Welfare, W.B.	1
Deputy Inspector General of Police—Vigilance, W.B.	1
Deputy Inspector General of Police—Railways, W.B.	1
Deputy Inspector General of Police—Traffic, W.B.	1
Deputy Inspector General of Police—Presidency Range, W.B.	1
Deputy Inspector General of Police—Burgwan Range, W.B.	1
Deputy Inspector General of Police—Midnapur Range, W.B.	1
Deputy Inspector General of Police—Murshidabad Range, W.B.	1
Deputy Inspector General of Police—Malda Range, W.B.	1

Deputy Inspector General of Police—Jalpaiguri Range, W.B.	1	Superintendent of Police—Bankura	1
Deputy Inspector General of Police—Intelligence Branch, W.B.	1	Superintendent of Police—Paschim Medinipur	1
Deputy Inspector General of Police—Intelligence Branch, Border, W.B.	1	Superintendent of Police—Purulia	1
Deputy Inspector General of Police—Security, Intelligence Branch, W.B.	1	Superintendent of Police—Jalpaiguri	1
Deputy Inspector General of Police—CID, W.B.	1	Superintendent of Police—Cooch-Behar	1
Deputy Inspector General of Police—Operation, CID, W.B.	1	Superintendent of Police—Darjeeling	1
Deputy Inspector General of Police—CID Special, W.B.	1	Superintendent of Police—Malda	1
Deputy Inspector General of Police—Prosecution, W.B.	1	Superintendent of Police—Dakshin Dinajpur	1
Deputy Inspector General of Police—Armed Police, Barrackpore, W.B.	1	Superintendent of Police—North 24 Parganas	1
Deputy Inspector General of Police—Armed Police, Durgapur, W.B.	1	Superintendent of Police—Uttar Dinajpur	1
Deputy Inspector General of Police—Armed Police, Siliguri, W.B.	1	Superintendent of Police—Purba Medinipur	1
Deputy Inspector General of Police—Armed Police, EFR Bns., W.B.	1	Spl. Superintendent of Police—Intelligence Branch, W.B.	3
Deputy Inspector General of Police—Enforcement, Branch, W.B.	1	Spl. Superintendent of Police—CID, W.B.	3
Deputy Inspector General of Police, Training-Cum-Principal, Police Training College, Barrackpore, W.B.	1	Spl. Superintendent of Police—Intelligence Branch, Siliguri, W.B.	1
Deputy Inspector General of Police, Home Guards, W.B.	1	Superintendent of Police—Railway Police, Howrah	1
Deputy Inspector General of Police & Controller of Civil Defence, W.B.	1	Superintendent of Police—Railway Police, Sealdah	1
Deputy Inspector General of Police, State Crime Records Bureau, W.B.	1	Superintendent of Police—Railway Police, Siliguri	1
Deputy Inspector General of Police, Modernisation/Coordination, W.B.	1	Superintendent of Police—Railway Police, Kharagpur	1
Deputy Inspector General of Police, Darjeeling Range, W.B.	1	Commandant, Eastern Frontier Rifles, 1st Bn.	1
Deputy Inspector General of Police, Industrial Grievances, W.B.	1	Commandant, Eastern Frontier Rifles, 2nd Bn.	1
Deputy Inspector General of Police, Bureau of Investigation Fin. (T) Deptt.	1	Commandant, Eastern Frontier Rifles, 3rd Bn.	1
Superintendent of Police—Howrah	1	Commandant, State Armed Police, 1st Bn., W.B.	1
Superintendent of Police—Nadia	1	Commandant, State Armed Police, 2nd Bn., W.B.	1
Superintendent of Police—South 24 Parganas	1	Commandant, State Armed Police, 3rd Bn., W.B.	1
Superintendent of Police—Murshidabad	1	Commandant, State Armed Police, 4th Bn., W.B.	1
Superintendent of Police—Burdwan	1	Deputy Commissioner of Police—Headquarters, Kolkata	1
Superintendent of Police—Birbhum	1	Deputy Commissioner of Police—Traffic, Kolkata	1
Superintendent of Police—Hooghly	1	Deputy Commissioner of Police—Enforcement Branch, Kolkata	1
		Deputy Commissioner of Police—Detective Deptt.-I, Kolkata	1
		Deputy Commissioner of Police—Detective Deptt.-II, Kolkata	1
		Deputy Commissioner of Police—Special Branch-I, Kolkata	1
		Deputy Commissioner of Police—Central Division, Kolkata	1
		Deputy Commissioner of Police—Eastern Suburban Division, Kolkata	1

Deputy Commissioner of Police—South Division, Kolkata	1	Addl. Superintendent of Police, Dakshin Dinajpur	1
Deputy Commissioner of Police—Security Control(I), Kolkata	1	Addl. Superintendent of Police, Cooch-Behar	1
Deputy Commissioner of Police—Port Division, Kolkata	1	Asstt. Inspector General of Police	1
Deputy Commissioner of Police—Reserve Force, Kolkata	1	TOTAL	150
Deputy Commissioner of Police—North Division, Kolkata	1	2. Central Deputation Reserve @ 40% of Item 1 above	60
Deputy Commissioner of Police—Wireless, Kolkata	1	3. State Deputation Reserve @ 25% of Item 1 above	38
Deputy Commissioner of Police—Kolkata Armed Police, 1st Bn., Kolkata	1	4. Training Reserve @ 3.5% of Item 1 above	05
Deputy Commissioner of Police—Kolkata Armed Police, 2nd Bn., Kolkata	1	5. Posts to be filled by promotion under Rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33.3% of Items 1,2,3, & 4 above	84
Deputy Commissioner of Police—Kolkata Armed Police, 3rd Bn., Kolkata	1	6. Leave Reserve and Junior Posts Reserve @ 16.5% of Item 1 above	25
Deputy Commissioner of Police—Kolkata Armed Police, 4th Bn., Kolkata	1	7. Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1 + 2 + 3 + 4 + 6 - 5)	194
Deputy Commissioner of Police—Kolkata Armed Police, 5th Bn., Kolkata	1	Direct Recruitment Posts	194
Deputy Commissioner of Police—DD (Special), Kolkata	1	Promotion Posts	84
Addl. Superintendent of Police, Headquarters, Darjeeling	1	Total Authorised Strength	278
Addl. Superintendent of Police, Barasat, North, 24 Parganas	1	[No. 11052/5/2003-AIS(II)-A] G.C. PANDEY, Under Secy.	
Addl. Superintendent of Police, Headquarters, Howrah	1	Note 1 : Prior to the issue of this notification, the total authorised strength of the West Bengal (IPS) Cadre was 259.	
Addl. Superintendent of Police, Hooghly	1	Note 2 : The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3350, dated 22-10-1955. Subsequently they were amended in respect of the Indian Police Service vide following GSR numbers and dates in respect of West Bengal cadre :—	
Addl. Superintendent of Police, Nadia	1	S.No.	GSR Nos.
Addl. Superintendent of Police, Asansol	1	1.	752E
Addl. Superintendent of Police, Murshidabad	1	2.	527E
Addl. Superintendent of Police, Purulia	1	3.	971
Addl. Superintendent of Police, Kharagpur	1	4.	344E
Addl. Superintendent of Police, Jalpaiguri	1	5.	678
Addl. Superintendent of Police, Hqrs., South 24 Parganas	1	6.	610
Addl. Superintendent of Police, Siliguri	1	7.	1140
Addl. Superintendent of Police, Birbhum	1	8.	682E
Addl. Superintendent of Police, Bankura	1	9.	654
Addl. Superintendent of Police, Malda	1	10.	320E
Addl. Superintendent of Police, Uttar Dinajpur	1	11.	87E
			Date
			4-8-1976
			8-9-1980
			11-12-1982
			20-4-1983
			17-9-1983
			29-6-1985
			14-12-1985
			14-2-1987
			16-11-1991
			31-3-1995
			21-2-1997

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2003

(रुपए)

सा.का.नि. 427. — भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 के नियम 11 के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चतुर्थ संशोधन नियमावली, 2003 है ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. (1) “अनुसूची-III क-में राज्य सरकार के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के समय वेतनमान से ऊपर के पदों में,” प्रथम कॉलम की “पश्चिम बंगाल” प्रविष्टि और दूसरे तथा तीसरे कॉलमों में तदनुसूची प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

पश्चिम बंगाल

(रुपए)

पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक, पश्चिम बंगाल	24,050-650-26,000
कमांडेंट जनरल, होम गार्ड, पश्चिम बंगाल	24,050-650-26,000
पुलिस आयुक्त—कोलकाता	22,400-525-24,500
अपर पुलिस महानिदेशक—प्रशासन, पश्चिम बंगाल	22,400-525-24,500
अपर पुलिस महानिदेशक—आयोजना, पश्चिम बंगाल	22,400-525-24,500
अपर पुलिस महानिदेशक—सशस्त्र पुलिस, पश्चिम बंगाल	22,400-525-24,500
प्रबंध निदेशक, पुलिस आवास निगम, पश्चिम बंगाल	22,400-525-24,500
अपर पुलिस महानिदेशक—रेलवे, पश्चिम बंगाल	22,400-525-24,500
अपर पुलिस महानिदेशक—प्रवर्तन शाखा, पश्चिम बंगाल	22,400-525-24,500
अपर पुलिस महानिदेशक—आपराधिक जाँच विभाग, पश्चिम बंगाल	22,400-525-24,500
अपर पुलिस महानिदेशक—राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, पश्चिम बंगाल	22,400-525-24,500

अपर पुलिस महानिदेशक—आसूचना शाखा, पश्चिम बंगाल	22,400-525-24,500
पुलिस महानिरीक्षक—सशस्त्र पुलिस, कोलकाता	18,400-500-22,400
पुलिस महानिरीक्षक—मुख्यालय, पश्चिम बंगाल	18,400-500-22,400
पुलिस महानिरीक्षक—आपराधिक जाँच विभाग-I, पश्चिम बंगाल	18,400-500-22,400
पुलिस महानिरीक्षक—आपराधिक जाँच विभाग-II, पश्चिम बंगाल	18,400-500-22,400
पुलिस महानिरीक्षक—आसूचना शाखा, पश्चिम बंगाल	18,400-500-22,400
पुलिस महानिरीक्षक—प्रवर्तन शाखा, पश्चिम बंगाल	18,400-500-22,400
पुलिस महानिरीक्षक—संगठन, पश्चिम बंगाल	18,400-500-22,400
पुलिस महानिरीक्षक—रेल, पश्चिम बंगाल	18,400-500-22,400
पुलिस महानिरीक्षक—दूर-संचार, पश्चिम बंगाल	18,400-500-22,400
पुलिस महानिरीक्षक—उत्तरी बंगाल क्षेत्र	18,400-500-22,400
पुलिस महानिरीक्षक—दक्षिणी बंगाल क्षेत्र	18,400-500-22,400
पुलिस महानिरीक्षक—पश्चिम क्षेत्र	18,400-500-22,400
पुलिस महानिरीक्षक—यातायात, पश्चिम बंगाल	18,400-500-22,400
अपर पुलिस आयुक्त-I, कोलकाता	18,400-500-22,400
अपर पुलिस आयुक्त-II, कोलकाता	18,400-500-22,400
अपर पुलिस आयुक्त-III, कोलकाता	18,400-500-22,400
अपर पुलिस आयुक्त-IV, कोलकाता	18,400-500-22,400
पुलिस महानिरीक्षक—(आसूचना) सीमा, पश्चिम बंगाल	18,400-500-22,400
पुलिस महानिरीक्षक—आसूचना शाखा, उत्तरी बंगाल, पश्चिम बंगाल	18,400-500-22,400
पुलिस महानिरीक्षक—कल्याण, पश्चिम बंगाल	18,400-500-22,400
पुलिस महानिरीक्षक—प्रशिक्षण, पश्चिम बंगाल	18,400-500-22,400

(रुपए)		(रुपए)	
पुलिस महानिरीक्षक—कानून और व्यवस्था, पश्चिम बंगाल	18,400-500-22,400	उप पुलिस महानिरीक्षक, मालदा रेंज, पश्चिम बंगाल	16,400-450-20,000
पुलिस महानिरीक्षक—सतर्कता आयोग, पश्चिम बंगाल	18,400-500-22,400	उप पुलिस महानिरीक्षक, जलपाईगुड़ी रेंज, पश्चिम बंगाल	16,400-450-20,000
पुलिस महानिरीक्षक—प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, पश्चिम बंगाल	18,400-500-22,400	उप पुलिस महानिरीक्षक, आसूचना शाखा, पश्चिम बंगाल	16,400-450-20,000
पुलिस महानिरीक्षक—सशस्त्र पुलिस, उत्तरी बंगाल, सिलीगुड़ी	18,400-500-22,400	उप पुलिस महानिरीक्षक, आसूचना शाखा, सीमा, पश्चिम बंगाल	16,400-450-20,000
संयुक्त पुलिस आयुक्त, सशस्त्र पुलिस, कोलकाता	16,400-450-20,000	उप पुलिस महानिरीक्षक, सुरक्षा, आसूचना शाखा, पश्चिम बंगाल	16,400-450-20,000
संयुक्त पुलिस आयुक्त, संगठन, कोलकाता	16,400-450-20,000	उप पुलिस महानिरीक्षक, आपराधिक जाँच विभाग, पश्चिम बंगाल	16,400-450-20,000
संयुक्त पुलिस आयुक्त, प्रशासन, कोलकाता	16,400-450-20,000	उप पुलिस महानिरीक्षक, संचालन, आपराधिक जाँच विभाग, पश्चिम बंगाल	16,400-450-20,000
संयुक्त पुलिस आयुक्त, यातायात, कोलकाता	16,400-450-20,000	उप पुलिस महानिरीक्षक, आपराधिक जाँच विभाग विशेष, पश्चिम बंगाल	16,400-450-20,000
उप पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय, पश्चिम बंगाल	16,400-450-20,000	उप पुलिस महानिरीक्षक, अभियोजन, पश्चिम बंगाल	16,400-450-20,000
उप पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पश्चिम बंगाल	16,400-450-20,000	उप पुलिस महानिरीक्षक, सशस्त्र पुलिस, बैरकपुर, पश्चिम बंगाल	16,400-450-20,000
उप पुलिस महानिरीक्षक, संगठन, पश्चिम बंगाल	16,400-450-20,000	उप पुलिस महानिरीक्षक, सशस्त्र पुलिस, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल	16,400-450-20,000
उप पुलिस महानिरीक्षक, आई पी एस, प्रकोष्ठ, पश्चिम बंगाल	16,400-450-20,000	उप पुलिस महानिरीक्षक, सशस्त्र पुलिस, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल	16,400-450-20,000
उप पुलिस महानिरीक्षक, आयोजना तथा कल्याण, पश्चिम बंगाल	16,400-450-20,000	उप पुलिस महानिरीक्षक, सशस्त्र पुलिस, ई. एफ. आर बटालियन्स, पश्चिम बंगाल	16,400-450-20,000
उप पुलिस महानिरीक्षक, सतर्कता, पश्चिम बंगाल	16,400-450-20,000	उप पुलिस महानिरीक्षक, प्रवर्तन शाखा, पश्चिम बंगाल	16,400-450-20,000
उप पुलिस महानिरीक्षक, रेलवे, पश्चिम बंगाल	16,400-450-20,000	उप पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण सह-प्राचार्य, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, बैरकपुर, पश्चिम बंगाल	16,400-450-20,000
उप पुलिस महानिरीक्षक, यातायात, पश्चिम बंगाल	16,400-450-20,000	उप पुलिस महानिरीक्षक, होम गार्ड, पश्चिम बंगाल	16,400-450-20,000
उप पुलिस महानिरीक्षक, प्रैज़ीडेंसी रेंज, पश्चिम बंगाल	16,400-450-20,000	उप पुलिस महानिरीक्षक और सिविल सुरक्षा नियंत्रक, पश्चिम बंगाल	16,400-450-20,000
उप पुलिस महानिरीक्षक, बर्दवान रेंज, पश्चिम बंगाल	16,400-450-20,000	उप पुलिस महानिरीक्षक, राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, पश्चिम बंगाल	16,400-450-20,000
उप पुलिस महानिरीक्षक, मिदनापुर रेंज, पश्चिम बंगाल	16,400-450-20,000		
उप पुलिस महानिरीक्षक, मुर्शिदाबाद रेंज, पश्चिम बंगाल	16,400-450-20,000		

(रुपए)	विशेष पुलिस अधीक्षक—आसूचना शाखा, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल
उप पुलिस महानिरीक्षक, आधुनिकीकरण/ 16,400-450-20,000 समन्वय, पश्चिम बंगाल	पुलिस अधीक्षक—रेल पुलिस, हावड़ा
उप पुलिस महानिरीक्षक, दार्जिलिंग रेंज, 16,400-450-20,000 पश्चिम बंगाल	पुलिस अधीक्षक—रेल पुलिस, सियालदाह
उप पुलिस महानिरीक्षक, औद्योगिक 16,400-450-20,000 शिकायत, पश्चिम बंगाल	पुलिस अधीक्षक—रेल पुलिस, सिलीगुड़ी
उप पुलिस महानिरीक्षक, अन्वेषण ब्यूरो, 16,400-450-20,000 वित्त (टी.) विभाग, पश्चिम बंगाल	पुलिस अधीक्षक—रेल पुलिस, खड़गपुर
(II) “अनुसूची-III-ख में—राज्य सरकार के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में (समय वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित)” वेतन वाले पदों में, तालिका के पहले कॉलम में आने वाली “पश्चिम बंगाल” प्रविष्टि के लिए और दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुरूपी प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—	कमांडेंट, पूर्वी सीमांत राइफल, प्रथम वाहिनी
पुलिस अधीक्षक—हावड़ा	कमांडेंट, पूर्वी सीमांत राइफल, द्वितीय वाहिनी
पुलिस अधीक्षक—नादिया	कमांडेंट, पूर्वी सीमांत राइफल, तृतीय वाहिनी
पुलिस अधीक्षक—दक्षिणी 24 परगना	कमांडेंट, राज्य सशस्त्र पुलिस, प्रथम वाहिनी, पश्चिम बंगाल
पुलिस अधीक्षक—मुर्शिदाबाद	कमांडेंट, राज्य सशस्त्र पुलिस, द्वितीय वाहिनी, पश्चिम बंगाल
पुलिस अधीक्षक—बुर्दवान	कमांडेंट, राज्य सशस्त्र पुलिस, तृतीय वाहिनी, पश्चिम बंगाल
पुलिस अधीक्षक—बीरभूम	कमांडेंट, राज्य सशस्त्र पुलिस, चतुर्थ वाहिनी, पश्चिम बंगाल
पुलिस अधीक्षक—हुगली	पुलिस उपायुक्त—मुख्यालय, कोलकाता
पुलिस अधीक्षक—बाँकुड़ा	पुलिस उपायुक्त—मातायात, कोलकाता
पुलिस अधीक्षक—पश्चिम मेदिनीपुर	पुलिस उपायुक्त—प्रवर्तन शाखा, कोलकाता
पुलिस अधीक्षक—पुरुलिया	पुलिस उपायुक्त—आसूची विभाग-I, कोलकाता
पुलिस अधीक्षक—जलपाईगुड़ी	पुलिस उपायुक्त—आसूची विभाग-II, कोलकाता
पुलिस अधीक्षक—कूच-बिहार	पुलिस उपायुक्त—विशेष शाखा-I, कोलकाता
पुलिस अधीक्षक—दार्जिलिंग	पुलिस उपायुक्त—कैन्द्रीय प्रभाग, कोलकाता
पुलिस अधीक्षक—मालदा	पुलिस उपायुक्त—पूर्वी उपनगरी प्रभाग, कोलकाता
पुलिस अधीक्षक—दक्षिण दिनाजपुर	पुलिस उपायुक्त—दक्षिणी प्रभाग, कोलकाता
पुलिस अधीक्षक—उत्तरी 24 परगना	पुलिस उपायुक्त—सुरक्षा नियंत्रण (I), कोलकाता
पुलिस अधीक्षक—उत्तरी दिनाजपुर	पुलिस उपायुक्त—बंदरगाह प्रभाग, कोलकाता
पुलिस अधीक्षक—पूर्वी मेदिनीपुर	पुलिस उपायुक्त—आरक्षी बल, कोलकाता
विशेष पुलिस अधीक्षक—आसूचना शाखा, पश्चिम बंगाल	पुलिस उपायुक्त—उत्तरी प्रभाग, कोलकाता
विशेष पुलिस अधीक्षक—आपराधिक जाँच विभाग, पश्चिम बंगाल	पुलिस उपायुक्त—बेतार, कोलकाता
	पुलिस उपायुक्त—कोलकाता सशस्त्र पुलिस, प्रथम वाहिनी, कोलकाता
	पुलिस उपायुक्त—कोलकाता सशस्त्र पुलिस, द्वितीय वाहिनी, कोलकाता
	पुलिस उपायुक्त—कोलकाता सशस्त्र पुलिस, तृतीय वाहिनी, कोलकाता
	पुलिस उपायुक्त—कोलकाता सशस्त्र पुलिस, चतुर्थ वाहिनी, कोलकाता
	पुलिस उपायुक्त—कोलकाता सशस्त्र पुलिस, पंचम वाहिनी, कोलकाता

पुलिस उपायुक्त—डी. डी. (विशेष), कोलकाता

New Delhi, the 5th November, 2003

अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, दार्जिलिंग

अपर पुलिस अधीक्षक, बारासात, उत्तरी 24 परगना

अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, हावड़ा

अपर पुलिस अधीक्षक, हुगली

अपर पुलिस अधीक्षक, नादिया

अपर पुलिस अधीक्षक, आसनसोल

अपर पुलिस अधीक्षक, मुर्शिदाबाद

अपर पुलिस अधीक्षक, पुरूलिया

अपर पुलिस अधीक्षक, खड़गपुर

अपर पुलिस अधीक्षक, जलपाईगुड़ी

अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, दक्षिणी 24 परगना

अपर पुलिस अधीक्षक, सिलीगुड़ी

अपर पुलिस अधीक्षक, बीरभूम

अपर पुलिस अधीक्षक, बाँकुड़ा

अपर पुलिस अधीक्षक, मालदा

अपर पुलिस अधीक्षक, उत्तर दिनाजपुर

अपर पुलिस अधीक्षक, दक्षिण दिनाजपुर

अपर पुलिस अधीक्षक, कूच-बिहार

सहायक पुलिस महानिरीक्षक

[सं. 11052/5/2003-अ. भा. से. (II) ख]

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

टिप्पणी : मुख्य नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. संख्या 158 दिनांक 14-09-1954 के तहत प्रकाशित किए गए थे और बाद में ये नियम निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं के तहत भारतीय पुलिस सेवा के पश्चिम बंगाल संवर्ग के संबंध में संशोधित किए गए थे :—

क्रम सं.	सा.का.नि. संख्या	दिनांक
1.	753अ	04-08-76
2.	528अ	08-09-80
3.	679	17-09-83
4.	683अ	14-02-87
5.	655	16-11-91
6.	88अ	21-02-97

G.S.R. 427.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (LXI of 1951) read with Rule 11 of the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government, after consultation with the Government of West Bengal hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, namely :—

1. (i) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) Fourth Amendment Rules, 2003.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. (i) In "Schedule III-A—Posts carrying pay above the time scale in the Indian Police Service under the State Government" in the Table, for the entry "West Bengal" occurring in the first column and the corresponding entries in the second and third columns, the following shall be substituted, namely :—

West Bengal

(Rupees)

Director General & Inspector General of Police, W.B.	24,050-650-26,000
Commandant General, Home Guards, W.B.	24,050-650-26,000
Commissioner of Police—Kolkata	22,400-525-24,500
Additional Director General of Police—Administration, W.B.	22,400-525-24,500
Additional Director General of Police—Planning, W.B.	22,400-525-24,500
Additional Director General of Police—Armed Police, W.B.	22,400-525-24,500
Managing Director, Police Housing Corp., W.B.	22,400-525-24,500
Additional Director General of Police—Railways, W.B.	22,400-525-24,500
Additional Director General of Police—Enforcement Branch, W.B.	22,400-525-24,500
Additional Director General of Police—CID, W.B.	22,400-525-24,500
Additional Director General of Police—State Crime Records Bureau, W.B.	22,400-525-24,500
Additional Director General of Police—Intelligence Branch, W.B.	22,400-525-24,500

	(Rupees)		(Rupees)
Inspector General of Police— Armed Police, Kolkata	18,400-500-22,400	Inspector General of Police— Law & Order, W.B.	18,400-500-22,400
Inspector General of Police— Headquarters, W.B.	18,400-500-22,400	Inspector General of Police— Vigilance Commission, W.B.	18,400-500-22,400
Inspector General of Police— CID—I, W.B.	18,400-500-22,400	Inspector General of Police— Administration PHQ, W.B.	18,400-500-22,400
Inspector General of Police— CID—II, W.B.	18,400-500-22,400	Inspector General of Police— Armed Police, North Bengal, Siliguri	18,400-500-22,400
Inspector General of Police— Intelligence Branch, W.B.	18,400-500-22,400	Joint Commissioner of Police— Armed Police, Kolkata	16,400-450-20,000
Inspector General of Police— Enforcement Branch, W.B.	18,400-500-22,400	Joint Commissioner of Police— Organisation, Kolkata	16,400-450-20,000
Inspector General of Police— Organisation, W.B.	18,400-500-22,400	Joint Commissioner of Police— Administration, Kolkata	16,400-450-20,000
Inspector General of Police— Railways, W.B.	18,400-500-22,400	Joint Commissioner of Police— Traffic, Kolkata	16,400-450-20,000
Inspector General of Police— Telecommunication, W.B.	18,400-500-22,400	Deputy Inspector General of Police— Headquarters, W.B.	16,400-450-20,000
Inspector General of Police— North Bengal Region	18,400-500-22,400	Deputy Inspector General of Police— Administration, W.B.	16,400-450-20,000
Inspector General of Police— South Bengal Region	18,400-500-22,400	Deputy Inspector General of Police— Organisation, W.B.	16,400-450-20,000
Inspector General of Police— Western Region	18,400-500-22,400	Deputy Inspector General of Police— IPS Cell, W.B.	16,400-450-20,000
Inspector General of Police— Traffic, W.B.	18,400-500-22,400	Deputy Inspector General of Police— Planning & Welfare, W.B.	16,400-450-20,000
Addl. Commissioner of Police— I, Kolkata	18,400-500-22,400	Deputy Inspector General of Police— Vigilance, W.B.	16,400-450-20,000
Addl. Commissioner of Police— II, Kolkata	18,400-500-22,400	Deputy Inspector General of Police— Railways, W.B.	16,400-450-20,000
Addl. Commissioner of Police— III, Kolkata	18,400-500-22,400	Deputy Inspector General of Police— Traffic, W.B.	16,400-450-20,000
Addl. Commissioner of Police— IV, Kolkata	18,400-500-22,400	Deputy Inspector General of Police— Presidency Range, W.B.	16,400-450-20,000
Inspector General of Police— (Intelligence) Border, W.B.	18,400-500-22,400	Deputy Inspector General of Police— Burdwan Range, W.B.	16,400-450-20,000
Inspector General of Police— Intelligence Branch, North Bengal, W.B.	18,400-500-22,400	Deputy Inspector General of Police— Midnapur Range, W.B.	16,400-450-20,000
Inspector General of Police— Welfare, W.B.	18,400-500-22,400	Deputy Inspector General of Police— Murshidabad Range, W.B.	16,400-450-20,000
Inspector General of Police— Training, W.B.	18,400-500-22,400	Deputy Inspector General of Police— Malda Range, W.B.	16,400-450-20,000
		Deputy Inspector General of Police— Jalpaiguri Range, W.B.	16,400-450-20,000

	(Rupees)	II—In “Schedule III-B—Posts carrying pay in the Senior Scale of the Indian Police Service under the State Government (including posts carrying Special Pay in addition to pay in time scale)” in the Table, for the entry “West Bengal” occurring in the first column and the corresponding entries in the second column, the following shall be substituted, namely :—
Deputy Inspector General of Police— Intelligence Branch, W.B.	16,400-450-20,000	Superintendent of Police—Howra
Deputy Inspector General of Police— Intelligence Branch, Border, W.B.	16,400-450-20,000	Superintendent of Police—Nadia
Deputy Inspector General of Police— Security Intelligence Branch, W.B.	16,400-450-20,000	Superintendent of Police—South 24 Parganas
Deputy Inspector General of Police— CID, W.B.	16,400-450-20,000	Superintendent of Police—Murshidabad
Deputy Inspector General of Police— CID, Operation, W.B.	16,400-450-20,000	Superintendent of Police—Burdwan
Deputy Inspector General of Police— CID Special, W.B.	16,400-450-20,000	Superintendent of Police—Birbhum
Deputy Inspector General of Police— Prosecution, W.B.	16,400-450-20,000	Superintendent of Police—Hooghly
Deputy Inspector General of Police— Armed Police, Barrackpore, W.B.	16,400-450-20,000	Superintendent of Police—Bankura
Deputy Inspector General of Police— Armed Police, Durgapur, W.B.	16,400-450-20,000	Superintendent of Police—Paschim Medinipur
Deputy Inspector General of Police— Armed Police Siliguri, W.B.	16,400-450-20,000	Superintendent of Police—Purulia
Deputy Inspector General of Police— Armed Police EFR Bns., W.B.	16,400-450-20,000	Superintendent of Police—Jalpaiguri
Deputy Inspector General of Police— Enforcement, Branch, W.B.	16,400-450-20,000	Superintendent of Police—Cooch-Behar
Deputy Inspector General of Police— Training-Cum-Principal, Police Training College, Barrackpore, W.B.	16,400-450-20,000	Superintendent of Police—Darjeeling
Deputy Inspector General of Police— Home Guards, W.B.	16,400-450-20,000	Superintendent of Police—Malda
Deputy Inspector General of Police & Controller of Civil Defence, W.B.	16,400-450-20,000	Superintendent of Police—Dakshin Dinajpur
Deputy Inspector General of Police— State Crime Records Bureau, W.B.	16,400-450-20,000	Superintendent of Police—North 24 Parganas
Deputy Inspector General of Police— Modernisation/Coordination, W.B.	16,400-450-20,000	Superintendent of Police—Uttar Dinajpur
Deputy Inspector General of Police— Darjeeling Range, W.B.	16,400-450-20,000	Superintendent of Police—Purba Medinipur
Deputy Inspector General of Police— Industrial Grievances, W.B.	16,400-450-20,000	Spl. Superintendent of Police—Intelligence Branch, W.B.
Deputy Inspector General of Police— Bureau of Investigation Fin. (T) Deptt., W.B.	16,400-450-20,000	Spl. Superintendent of Police—CID, W.B.
		Spl. Superintendent of Police—Intelligence Branch, Siliguri, W.B.
		Superintendent of Police—Railway Police, Howrah
		Superintendent of Police—Railway Police, Sealdah
		Superintendent of Police—Railway Police, Siliguri
		Superintendent of Police—Railway Police, Kharagpur
		Commandant, Eastern Frontier Rifles, 1st Bn.
		Commandant, Eastern Frontier Rifles, 2nd Bn.
		Commandant, Eastern Frontier Rifles, 3rd Bn.
		Commandant, State Armed Police, 1st Bn., W.B.

Commandant, State Armed Police, 2nd Bn., W.B.	Addl. Superintendent of Police, Headquarters, Howrah																					
Commandant, State Armed Police, 3rd Bn., W.B.	Addl. Superintendent of Police, Hooghly																					
Commandant, State Armed Police, 4th Bn., W.B.	Addl. Superintendent of Police, Nadia																					
Deputy Commissioner of Police—Headquarters, Kolkata	Addl. Superintendent of Police, Asansol																					
Deputy Commissioner of Police—Traffic, Kolkata	Addl. Superintendent of Police, Murshidabad																					
Deputy Commissioner of Police—Enforcement Branch, Kolkata	Addl. Superintendent of Police, Purulia																					
Deputy Commissioner of Police—Detective Deptt.-I, Kolkata	Addl. Superintendent of Police, Kharagpur																					
Deputy Commissioner of Police—Detective Deptt.-II, Kolkata	Addl. Superintendent of Police, Jalpaiguri																					
Deputy Commissioner of Police—Special Branch-I, Kolkata	Addl. Superintendent of Police, Hqrs. South 24 Parganas																					
Deputy Commissioner of Police—Central Division, Kolkata	Addl. Superintendent of Police, Siliguri																					
Deputy Commissioner of Police—Eastern Suburban Division, Kolkata	Addl. Superintendent of Police, Birbhum																					
Deputy Commissioner of Police—South Division, Kolkata	Addl. Superintendent of Police, Bankura																					
Deputy Commissioner of Police—Security Control (I), Kolkata	Addl. Superintendent of Police, Malda																					
Deputy Commissioner of Police—Port Division, Kolkata	Addl. Superintendent of Police, Uttar Dinajpur																					
Deputy Commissioner of Police—Reserve Force, Kolkata	Addl. Superintendent of Police, Dakshin Dinajpur																					
Deputy Commissioner of Police—North Division, Kolkata	Addl. Superintendent of Police, Cooch-Behar																					
Deputy Commissioner of Police—Wireless, Kolkata	Asst. Inspector General of Police																					
Deputy Commissioner of Police—Kolkata Armed Police, 1st Bn., Kolkata	[No. 11052/5/2003-AIS(II)-B] G. C. PANDEY, Under Secy.																					
Deputy Commissioner of Police—Kolkata Armed Police, 2nd Bn., Kolkata	Note : The Principal Rules were published vide Gazette of India GSR No. 158 dated 14-09-1954. These were subsequently amended for West Bengal Cadre of IPS vide GSR Nos. :—																					
Deputy Commissioner of Police—Kolkata Armed Police, 3rd Bn., Kolkata	<table><tr><th>S.No.</th><th>GSR Nos.</th><th>Date</th></tr><tr><td>1.</td><td>753E</td><td>4-8-1976</td></tr><tr><td>2.</td><td>528 E</td><td>8-9-1980</td></tr><tr><td>3.</td><td>679</td><td>17-9-1983</td></tr><tr><td>4.</td><td>683E</td><td>14-2-1987</td></tr><tr><td>5.</td><td>655</td><td>16-11-1991</td></tr><tr><td>6.</td><td>88E</td><td>21-2-1997</td></tr></table>	S.No.	GSR Nos.	Date	1.	753E	4-8-1976	2.	528 E	8-9-1980	3.	679	17-9-1983	4.	683E	14-2-1987	5.	655	16-11-1991	6.	88E	21-2-1997
S.No.	GSR Nos.	Date																				
1.	753E	4-8-1976																				
2.	528 E	8-9-1980																				
3.	679	17-9-1983																				
4.	683E	14-2-1987																				
5.	655	16-11-1991																				
6.	88E	21-2-1997																				
Deputy Commissioner of Police—Kolkata Armed Police, 4th Bn., Kolkata																						
Deputy Commissioner of Police—Kolkata Armed Police, 5th Bn., Kolkata																						
Deputy Commissioner of Police—DD (Special), Kolkata																						
Addl. Superintendent of Police, Headquarters, Darjeeling																						
Addl. Superintendent of Police, Barasat, North 24 Parganas																						

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2003

सा.का.नि. 428.— भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली 1954 के नियम 4 के उप नियम (1) और (2) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियन्त्रण) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन विनियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियन्त्रण) छटा संशोधन विनियमावली, 2003 है ।

(ii) ये विनियम भारत के राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियन्त्रण) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "महाराष्ट्र" शीर्षक के नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

महाराष्ट्र

1. राज्य सरकार के अंतर्गत वरिष्ठ पद	128
पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक, महाराष्ट्र	1
महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो,— महाराष्ट्र	1
पुलिस, अपर महानिदेशक—कानून और व्यवस्था (महाराष्ट्र)	1
पुलिस आयुक्त, नागपुर	1
पुलिस आयुक्त, बृहन मुम्बई	1
पुलिस, अपर महानिदेशक—सी. आई. डी., महाराष्ट्र	1
पुलिस, अपर महानिदेशक—एस. आई. डी.	1
पुलिस आयुक्त, थाणे शहर	1
पुलिस आयुक्त, पुणे शहर	1
पुलिस, अपर महानिदेशक, प्रशिक्षण, महाराष्ट्र	1
पुलिस संयुक्त आयुक्त (अपराध) बृहन मुम्बई	1
पुलिस महानिरीक्षक, रेलवे	1
पुलिस महानिरीक्षक, थाणे रेंज	1
पुलिस महानिरीक्षक, कोल्हापुर रेंज	1
पुलिस महानिरीक्षक, नासिक रेंज	1
पुलिस महानिरीक्षक, नागपुर रेंज	1
पुलिस महानिरीक्षक, अमरावती रेंज	1
पुलिस महानिरीक्षक, औरंगाबाद रेंज	1
पुलिस महानिरीक्षक—नांदेड़ रेंज	1

पुलिस संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), मुम्बई	1
निदेशक, महाराष्ट्र पुलिस अकादमी, नासिक	1
पुलिस संयुक्त आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), बृहन मुम्बई	1
पुलिस आयुक्त, नवी मुम्बई	1
विशेष पुलिस महानिरीक्षक—(पी एंड सी), महाराष्ट्र	1
विशेष पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), महाराष्ट्र	1
पुलिस संयुक्त आयुक्त, थाणे सिटी	1
पुलिस संयुक्त आयुक्त, पुणे सिटी	1
पुलिस संयुक्त आयुक्त, नागपुर सिटी	1
विशेष पुलिस महानिरीक्षक—सी. आई. डी., पुणे	1
विशेष पुलिस महानिरीक्षक—राज्य रिजर्व पुलिस बल, महाराष्ट्र	1
विशेष पुलिस महानिरीक्षक—एच. एस. पी., महाराष्ट्र	1
पुलिस आयुक्त, नासिक सिटी	1
पुलिस अपर आयुक्त, उत्तरी क्षेत्र, मुम्बई	1
पुलिस अपर आयुक्त, दक्षिणी क्षेत्र, मुम्बई	1
पुलिस अपर आयुक्त, यादगाव, मुम्बई	1
पुलिस उप महानिरीक्षक—सीआईडी, पुणे	1
पुलिस उप महानिरीक्षक—राज्य रिजर्व पुलिस बल, पुणे	1
पुलिस अपर आयुक्त, उत्तरी-दक्षिणी क्षेत्र, मुम्बई	1
पुलिस अपर आयुक्त, केन्द्रीय क्षेत्र, मुम्बई	1
पुलिस अपर आयुक्त, (अपराध), मुम्बई	1
पुलिस अपर आयुक्त, भ्रष्टाचार, मुम्बई	1
पुलिस आयुक्त—शोलापुर	1
पुलिस उप महानिरीक्षक—राज्य रिजर्व पुलिस बल, नागपुर	1
पुलिस अपर आयुक्त/पुलिस उप महानिरीक्षक— भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो	2
पुलिस उप महानिरीक्षक—महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार निरोध	1
पुलिस अपर आयुक्त, एस बी (आई)	1
पुलिस उप महानिरीक्षक (स्था.), महाराष्ट्र	1
पुलिस उप महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था), महाराष्ट्र	1
पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, मुम्बई	1

उप महानिदेशक, महाराष्ट्र पुलिस अकादमी, नासिक	1	पुलिस अधीक्षक, उस्मानाबाद	1
पुलिस उप महानिरीक्षक—राज्य रिजर्व पुलिस बल, मुम्बई	1	पुलिस अधीक्षक, मांढेड़	1
पुलिस अपर आयुक्त, संरक्षण तथा सुरक्षा, मुम्बई	1	पुलिस अधीक्षक, लातूर	1
पुलिस आयुक्त, रेलवे, मुम्बई क्षेत्र	1	पुलिस अधीक्षक, परभाणी	1
पुलिस आयुक्त, अमरावती सिटी	1	पुलिस अधीक्षक, नागपुर ग्रामीण	1
पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन)	1	पुलिस अधीक्षक, भण्डारा	1
पुलिस अपर आयुक्त, अपराध, थाणे सिटी	1	पुलिस अधीक्षक, चन्द्रपुर	1
पुलिस अपर आयुक्त, अपराध, औरंगाबाद सिटी	1	पुलिस अधीक्षक, गोंडचिरोली	1
पुलिस उपायुक्त-जोन I-X, बृहन मुम्बई	10	पुलिस अधीक्षक, चर्धा	1
पुलिस उपायुक्त-स्वापक औषधि प्रकोष्ठ	1	पुलिस अधीक्षक, अमरावती ग्रामीण	1
पुलिस उपायुक्त-जोन I-IV, थाणे सिटी	4	पुलिस अधीक्षक, अकोला	1
पुलिस उपायुक्त-जोन I-III, पुणे, सिटी	3	पुलिस अधीक्षक, यवतमाल	1
पुलिस उपायुक्त-जोन, विशेष शाख, पुणे सिटी	1	पुलिस अधीक्षक, बुलढाना	1
पुलिस उपायुक्त-जोन I से III, नागपुर सिटी	3	पुलिस अधीक्षक, नादुरबार	1
पुलिस उपायुक्त-विशेष शाखा, नागपुर सिटी	1	पुलिस अधीक्षक, हिंगोली	1
पुलिस उपायुक्त, रेलवे, मुम्बई	1	पुलिस अधीक्षक, वासिम	1
पुलिस अधीक्षक, रेलवे पुणे तथा नागपुर	2	पुलिस अधीक्षक, गोंडिया	1
पुलिस अधीक्षक, रायगढ़	1	कमांडेंट, राज्य रिजर्व पुलिस बल, ग्रेड I, II पुणे, IV नागपुर, VIII मुम्बई तथा XI नवी मुम्बई	5
पुलिस अधीक्षक, थाणे ग्रामीण	1	पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), मुम्बई	1
पुलिस अधीक्षक, रत्नागिरी	1	पुलिस उपायुक्त, विशेष शाखा-I, मुम्बई	1
पुलिस अधीक्षक, सिंधु दुर्ग	1	पुलिस उपायुक्त, यातायात, मुम्बई	1
पुलिस अधीक्षक, नासिक ग्रामीण	1	पुलिस उपायुक्त, आर्थिक अपराध विंग, मुम्बई	1
पुलिस अधीक्षक, अहमद नगर	1	पुलिस अधीक्षक, एस आई डी (प्रशासन), महाराष्ट्र	1
पुलिस अधीक्षक, जलगांव	1	पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, नवी मुम्बई सिटी	1
पुलिस अधीक्षक, धुले	1	कुल	128
पुलिस अधीक्षक, कोल्हापुर	1	2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व (उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत) की दर से	51
पुलिस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण	1	3. राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व (उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत) की दर से	32
पुलिस अधीक्षक, सतारा	1	4. प्रशिक्षण रिजर्व (उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत) की दर से	04
पुलिस अधीक्षक, सांगली	1	5. भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 9 के अन्तर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1, 2, 3 तथा 4 के 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं	71
पुलिस अधीक्षक, शोलापुर ग्रामीण	1		
पुलिस अधीक्षक, जालना	1		
पुलिस अधीक्षक, बीड	1		

6. छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत की दर से	21
7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6)	165
सीधी भर्ती के पद	165
पदोन्नति वाले पद	71
कुल प्राधिकृत संख्या	236

[सं० 11052/9/2003-अ.भा.से. (II) क]

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

टिप्पणी 1 : इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, भारतीय पुलिस सेवा के महाराष्ट्र संवर्ग की कुल प्राधिकृत संख्या 205 थी।

टिप्पणी 2 : मुख्य विनियम दिनांक 22-10-1955 की एस.आर.ओ. संख्या 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे तथा भारतीय पुलिस सेवा के महाराष्ट्र संवर्ग के संबंध में बाद में इन्हें निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं द्वारा संशोधित किया गया :—

क्रम सं.	सा.का.नि. संख्या	दिनांक
1	2	3
1.	340अ	15-05-76
2.	1534	12-11-77
3.	654अ	30-11-79
4.	344अ	20-04-83
5.	197	25-02-84
6.	34	25-01-92
7.	237	23-05-92
8.	507	16-10-93
9.	320अ	31-03-95
10.	740अ	31-12-97
11.	484अ	7-08-98

New Delhi, the 5th November, 2003

G.S.R. 428.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (LXI of 1951) read with sub-rules (1) and (2) of Rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Maharashtra hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely :—

1. (i) These regulations may be called the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Sixth Amendment Regulations, 2003.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, under the heading "Maharashtra" for the entries occurring, thereunder, the following shall be substituted namely :—

Maharashtra**1. Senior Posts under the State Government 128**

Director General & Inspector General of Police, Maharashtra 1

Director General of Police—Anti Corruption Bureau, Maharashtra 1

Additional Director General of Police (Law & Order), Maharashtra 1

Commissioner of Police, Nagpur 1

Commissioner of Police, Brihan Mumbai 1

Additional Director General of Police—CID, Maharashtra 1

Additional Director General of Police (SID), Maharashtra 1

Commissioner of Police, Thane City 1

Commissioner of Police, Pune City 1

Additional Director General of Police, Training, Maharashtra 1

Joint Commissioner of Police (Crime), Brihan, Mumbai 1

Inspector General of Police—Railways. 1

Inspector General of Police—Thane Range. 1

Inspector General of Police—Kohlapur Range 1

Inspector General of Police—Nasik Range 1

Inspector General of Police—Nagpur Range 1

Inspector General of Police—Amravati Range 1

Inspector General of Police—Aurangabad Range 1

Inspector General of Police—Nanded Range 1

Joint Commissioner of Police (Administration), Mumbai	1	Additional Commissioner of Police, SB(I)	1
Director, Maharashtra Police Academy, Nasik	1	Deputy Inspector General of Police (Estt.), Maharashtra	1
Joint Commissioner of Police (Law & Order), Brihan Mumbai	1	Deputy Inspector General of Police— (Law & Order), Maharashtra	1
Commissioner of Police, Navi Mumbai	1	Deputy Inspector General of Police— Training, Mumbai	1
Spl. Inspector General of Police (P & C), Maharashtra	1	Deputy Director, Maharashtra Police Academy, Nasik	1
Spl. Inspector General of Police (Administraion), Maharashtra	1	Deputy Inspector General of Police— State Reserve Police Force, Mumbai	1
Joint Commissioner of Police, Thane City	1	Additional Commissioner of Police, Protection & Security, Mumbai	1
Joint Commissioner of Police, Pune City	1	Commissioner of Police, Railways, Mumbai Region	1
Joint Commissioner of Police, Nagpur City	1	Commissioner of Police, Amravati City	1
Spl. Inspector General of Police, CID, Pune	1	Deputy Inspector General of Police (Administration)	1
Spl. Inspector General of Police, State Reserve Police Force, Maharashtra	1	Additional Commissioner of Police, Crime, Thane City	1
Spl. Inspector General of Police, HSP, Maharashtra	1	Commissioner of Police, Aurangabad City	1
Commissioner of Police, Nasik City	1	Deputy Commissioner of Police— Zone I-X, Brihan Mumbai	10
Additional Commissioner of Police, North Region, Mumbai	1	Deputy Commissioner of Police— Narcotics Cell	1
Additional Commissioner of Police, South Region, Mumbai	1	Deputy Commissioner of Police— Zone I to IV, Thane City	4
Additional Commissioner of Police, Traffic, Mumbai	1	Deputy Commissioner of Police—Zone I to III, Pune City	3
Deputy Inspector General of Police— CID, Pune	1	Deputy Commissioner of Police— Zone Special Branch, Pune City	1
Deputy Inspector General of Police— State Reserve Police Force, Pune	1	Deputy Commissioner of Police— Zone I to III, Nagpur City	3
Additional Commissioner of Police, North-West Region, Mumbai	1	Deputy Commissioner of Police—Special Branch, Nagpur City	1
Additional Commissioner of Police, Central Region, Mumbai	1	Deputy Commissioner of Police, Railways, Mumbai	1
Additional Commissioner of Police (Crime), Mumbai	1	Superintendent of Police, Railways, Pune & Nagpur	2
Additional Commissioner of Police, Armed, Mumbai	1	Superintendent of Police—Raigarh	1
Commissioner of Police—Solapur	1	Superintendent of Police—Thane Rural	1
Deputy Inspector General of Police— State Reserve Police Force, Nagpur	1	Superintendent of Police—Ratnagiri	1
Additional Commissioner of Police/ Deputy Inspector General of Police— Anti-Corruption Bureau	2	Superintendent of Police—Sindhudurg	1
Deputy Inspector General of Police— Prevention of Atrocities against Women	1	Superintendent of Police—Nasik Rural	1
		Superintendent of Police—Ahmednagar	1
		Superintendent of Police—Jalgaon	1
		Superintendent of Police—Dhule	1

Superintendent of Police—Kolhapur	1	2. Central Deputation Reserve @ 40% of Item 1 above	51
Superintendent of Police—Pune Rural	1	3. State Deputation Reserve @ 25% of Item 1 above	32
Superintendent of Police—Satara	1	4. Training Reserve @ 3.5% of Item 1 above	04
Superintendent of Police—Sangli	1	5. Posts to be filled by promotion under Rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33.3% of Items 1, 2, 3 & 4 above.	71
Superintendent of Police—Solapur Rural	1	6. Leave Reserve and Junior Posts Reserve @ 16.5% of Item 1 above	21
Superintendent of Police—Aurangabad Rural	1	7. Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1 + 2 + 3 + 4 + 6 - 5)	166
Superintendent of Police—Jalna	1	Direct Recruitment Posts	165
Superintendent of Police—Beed	1	Promotion Posts	71
Superintendent of Police—Osmanabad	1	TOTAL AUTHORISED STRENGTH	236
Superintendent of Police—Nanded	1	[No. 11052/9/2003-AIS(II)-A] G.C. PANDEY, Under Secy.	
Superintendent of Police—Latur	1	Note 1 : Prior to the issue of this notification, the total authorised strength of the Maharashtra (IPS) Cadre was 205.	
Superintendent of Police—Parbhani	1	Note 2 : The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide SRO no. 3350, dated 22-10-1955. Subsequently they were amended in respect of the Indian Police Service vide following GSR numbers and dates in respect of Maharashtra cadre :—	
Superintendent of Police—Nagpur Rural	1		
Superintendent of Police—Bhandara	1		
Superintendent of Police—Chandrapur	1		
Superintendent of Police—Gadchiroli	1		
Superintendent of Police—Wardha	1		
Superintendent of Police—Amravati Rural	1		
Superintendent of Police—Akola	1		
Superintendent of Police—Yavatmal	1		
Superintendent of Police—Buldhana	1		
Superintendent of Police—Nandurbar	1		
Superintendent of Police—Hingoli	1		
Superintendent of Police—Washim	1		
Superintendent of Police—Gondia	1		
Commandant, State Reserve Police Force, Gr. I, II Pune, IV Nagpur, VIII Mumbai & XI Navi Mumbai	5		
Deputy Commissioner of Police (Headquarters), Mumbai	1		
Deputy Commissioner of Police, Special Branch-I, Mumbai	1		
Deputy Commissioner of Police, Traffic, Mumbai	1		
Deputy Commissioner of Police, Economic Offence Wing, Mumbai	1		
Superintendent of Police, SID, (Administration), Maharashtra	1		
Deputy Commissioner of Police, Headquarter, Navi Mumbai City	1		
TOTAL	128		

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2003

सा.का.नि. 429.— भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली 1954 के नियम 11 के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से

भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियमावली, 2003 है ।

(ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. (1) “तालिका की अनुसूची-III-क-में राज्य सरकार के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के समय वेतनमान से ऊपर के पदों में,” प्रथम कॉलम की “महाराष्ट्र” प्रविष्टि और दूसरे तथा तीसरे कॉलमों में तदनुकूली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

महाराष्ट्र

(रुपए)

पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र	24,050-650-26,000
पुलिस महानिदेशक—भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो, महाराष्ट्र	24,050-650-26,000
पुलिस अपर महानिदेशक—(कानून और व्यवस्था), महाराष्ट्र	22,400-525-24,500
पुलिस आयुक्त, नागपुर	22,400-525-24,500
पुलिस आयुक्त, बृहन मुम्बई	22,400-525-24,500
पुलिस अपर महानिदेशक—सी. आई. डी., महाराष्ट्र	22,400-525-24,500
पुलिस अपर महानिदेशक—एस. आई. डी., महाराष्ट्र	22,400-525-24,500
पुलिस आयुक्त, थाणे शहर	22,400-525-24,500
पुलिस आयुक्त, पुणे शहर	22,400-525-24,500
पुलिस अपर महानिदेशक, प्रशिक्षण महाराष्ट्र	22,400-525-24,500
पुलिस संयुक्त आयुक्त (अपराध), बृहन मुम्बई	18,400-500-22,400
पुलिस महानिरीक्षक—रेलवे	18,400-500-22,400
पुलिस महानिरीक्षक—थाणे रेंज	18,400-500-22,400
पुलिस महानिरीक्षक—कोल्हापुर रेंज	18,400-500-22,400
पुलिस महानिरीक्षक—नासिक रेंज	18,400-500-22,400
पुलिस महानिरीक्षक—नागपुर रेंज	18,400-500-22,400
पुलिस महानिरीक्षक—अमरावती रेंज	18,400-500-22,400
पुलिस महानिरीक्षक—औरंगाबाद रेंज	18,400-500-22,400

(रुपए)

पुलिस महानिरीक्षक—नांदेड़ रेंज	18,400-500-22,400
पुलिस संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), मुम्बई	18,400-500-22,400
निदेशक, महाराष्ट्र पुलिस अकादमी, नासिक	18,400-500-22,400
पुलिस संयुक्त आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), बृहन मुम्बई	18,400-500-22,400
पुलिस आयुक्त, नवी मुम्बई	18,400-500-22,400
विशेष पुलिस महानिरीक्षक—(पी. एंड सी.), महाराष्ट्र	18,400-500-22,400
विशेष पुलिस महानिरीक्षक—(प्रशासन), महाराष्ट्र	18,400-500-22,400
पुलिस संयुक्त आयुक्त, थाणे सिटी	18,400-500-22,400
पुलिस संयुक्त आयुक्त, पुणे सिटी	18,400-500-22,400
पुलिस संयुक्त आयुक्त, नागपुर सिटी	18,400-500-22,400
विशेष पुलिस महानिरीक्षक—सी. आई. डी., पुणे	18,400-500-22,400
विशेष पुलिस महानिरीक्षक—राज्य रिजर्व पुलिस बल, महाराष्ट्र	18,400-500-22,400
विशेष पुलिस महानिरीक्षक—एच. एस. पी., महाराष्ट्र	18,400-500-22,400
पुलिस आयुक्त, नासिक सिटी	16,400-450-20,000
पुलिस अपर आयुक्त, उत्तरी क्षेत्र, मुम्बई	16,400-450-20,000
पुलिस अपर आयुक्त, दक्षिणी क्षेत्र, मुम्बई	16,400-450-20,000
पुलिस अपर आयुक्त, यातायात, मुम्बई	16,400-450-20,000
पुलिस, उप महानिरीक्षक—सी.आई.डी., पुणे	16,400-450-20,000
पुलिस, उप महानिरीक्षक—राज्य रिजर्व पुलिस बल, पुणे	16,400-450-20,000
पुलिस अपर आयुक्त, उत्तरी, दक्षिणी क्षेत्र, मुम्बई	16,400-450-20,000
पुलिस अपर आयुक्त, केन्द्रीय क्षेत्र, मुम्बई	16,400-450-20,000
पुलिस अपर आयुक्त, (अपराध), मुम्बई	16,400-450-20,000

(रूपए)		पुलिस उपायुक्त—जोन I से III, नागपुर सिटी
पुलिस अपर आयुक्त, सशस्त्र, मुम्बई	16,400-450-20,000	पुलिस उपायुक्त—विशेष शाखा, नागपुर सिटी
पुलिस आयुक्त—शोलापुर	16,400-450-20,000	पुलिस उपायुक्त, रेलवे, मुम्बई
पुलिस उप महानिरीक्षक—राज्य रिजर्व पुलिस बल, नागपुर	16,400-450-20,000	पुलिस अधीक्षक, रेलवे पुणे तथा नागपुर
पुलिस अपर आयुक्त/पुलिस उप महानिरीक्षक—भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो	16,400-450-20,000	पुलिस अधीक्षक, रायगढ़
पुलिस उप महानिरीक्षक—महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार निरोध	16,400-450-20,000	पुलिस अधीक्षक, थाणे ग्रामीण
पुलिस अपर आयुक्त, एस बी (आई)	16,400-450-20,000	पुलिस अधीक्षक, रत्नागिरि
पुलिस उप महानिरीक्षक (स्था.), महाराष्ट्र	16,400-450-20,000	पुलिस अधीक्षक, सिंधु दुर्ग
पुलिस उप महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था), महाराष्ट्र	16,400-450-20,000	पुलिस अधीक्षक, नासिक ग्रामीण
पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, मुम्बई	16,400-450-20,000	पुलिस अधीक्षक, अहमद नगर
उप महानिदेशक, महाराष्ट्र पुलिस अकादमी, नासिक	16,400-450-20,000	पुलिस अधीक्षक, जलगांव
पुलिस उप महानिरीक्षक—राज्य रिजर्व पुलिस बल, मुम्बई	16,400-450-20,000	पुलिस अधीक्षक, धुले
पुलिस अपर आयुक्त, संरक्षण तथा सुरक्षा, मुम्बई	16,400-450-20,000	पुलिस अधीक्षक, कोल्हापुर
पुलिस आयुक्त, रेलवे, मुम्बई क्षेत्र	16,400-450-20,000	पुलिस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण
पुलिस आयुक्त, अमरावती सिटी	16,400-450-20,000	पुलिस अधीक्षक, सतारा
पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन)	16,400-450-20,000	पुलिस अधीक्षक, सांगली
पुलिस अपर आयुक्त, अपराध, थाणे सिटी	16,400-450-20,000	पुलिस अधीक्षक, शोलापुर ग्रामीण
पुलिस अपर आयुक्त, अपराध, औरंगाबाद सिटी	16,400-450-20,000	पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद ग्रामीण
(II) “अनुसूची-III-ख में, राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में (समय वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित) वेतन वाले पदों में”, तालिका के पहले कॉलम में आने वाली “महाराष्ट्र” प्रविष्टि के लिए और दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुरूपी प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—		पुलिस अधीक्षक, जालना
पुलिस उपायुक्त—जोन I-X, बृहन मुम्बई		पुलिस अधीक्षक, बीड
पुलिस उपायुक्त—स्वायत्त औषधि प्रकोष्ठ		पुलिस अधीक्षक, उस्मानाबाद
पुलिस उपायुक्त—जोन I-IV, थाणे सिटी		पुलिस अधीक्षक, नांदेड़
पुलिस उपायुक्त—जोन I-III, पुणे मुम्बई		पुलिस अधीक्षक, लातूर
पुलिस उपायुक्त—जोन, विशेष शाखा, पुणे सिटी		पुलिस अधीक्षक, परभाणी
		पुलिस अधीक्षक, नागपुर ग्रामीण
		पुलिस अधीक्षक, भण्डारा
		पुलिस अधीक्षक, चन्द्रपुर
		पुलिस अधीक्षक, गाडचिरोली
		पुलिस अधीक्षक, वर्धा
		पुलिस अधीक्षक, अमरावती ग्रामीण
		पुलिस अधीक्षक, अकोला
		पुलिस अधीक्षक, यवतमाल
		पुलिस अधीक्षक, बुलढाना
		पुलिस अधीक्षक, नादुरबार

पुलिस अधीक्षक, हिंगोली

पुलिस अधीक्षक, वासिम

पुलिस अधीक्षक, गोडिया

कमांडेंट, राज्य रिजर्व पुलिस बल, ग्रेड I, II

पुणे, IV नागपुर, VIII मुम्बई तथा XI नवी मुम्बई

पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), मुम्बई

पुलिस उपायुक्त विशेष शाखा-I, मुम्बई

पुलिस उपायुक्त, यातायात, मुम्बई

पुलिस उपायुक्त, आर्थिक अपराध विंग, मुम्बई

पुलिस अधीक्षक, एस आई डी (प्रशासन), महाराष्ट्र

पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, नवी मुम्बई सिटी

[सं० 11052/9/2003-अ.भा.से. (II) ख]

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

टिप्पणी 1 : मुख्य नियम भारत के राजपत्र में सा. का. नि. संख्या 158 दिनांक 14-09-1954 के तहत प्रकाशित किए गए थे और बाद में निम्नलिखित सा. का. नि. संख्याओं के तहत भारतीय पुलिस सेवा के महाराष्ट्र संवर्ग के संबंध में संशोधित किए गए थे :—

क्रम सं.	सा.का.नि. संख्या	दिनांक
1.	341अ	15-05-76
2.	1535	12-11-77
3.	655अ	30-11-79
4.	345अ	20-04-83
5.	198	25-02-84
6.	33	25-01-92
7.	236	23-05-92
8.	503	16-10-93
9.	485अ	07-08-98

New Delhi, the 5th November, 2003

G.S.R. 429.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (LXI of 1951) read with Rule 11 of the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government, after consultation with the Government of Maharashtra hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, namely :—

1. (i) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) Sixth Amendment Rules, 2003.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. (1) In "Schedule III-A—Posts carrying pay above the time scale in the Indian Police Service under the State Government" in the Table, for the entry "Maharashtra" occurring in the first column and the corresponding entries in the second and third columns, the following shall be substituted namely :—

Maharashtra

(Rupees)

Director General & Inspector General of Police, Maharashtra	24050-650-26000
Director General of Police—Anti Corruption Bureau, Maharashtra	24050-650-26000
Additional Director General of Police—(Law & Order), Maharashtra	22400-525-24500
Commissioner of Police, Nagpur	22400-525-24500
Commissioner of Police, Brihan Mumbai	24050-650-26000
Additional Director General of Police—CID, Maharashtra	22400-525-24500
Additional Director General of Police—SID, Maharashtra	22400-525-24500
Commissioner of Police, Thane City	22400-525-24500
Commissioner of Police, Pune City	22400-525-24500
Additional Director General of Police, Training, Maharashtra	22400-525-24500
Joint Commissioner of Police (Crime), Brihan, Mumbai	18400-500-22400
Inspector General of Police—Railways	18400-500-22400
Inspector General of Police—Thane Range	18400-500-22400
Inspector General of Police—Kohlapur Range	18400-500-22400
Inspector General of Police—Nasik Range	18400-500-22400
Inspector General of Police—Nagpur Range	18400-500-22400
Inspector General of Police—Amravati Range	18400-500-22400
Inspector General of Police—Aurangabad Range	18400-500-22400
Inspector General of Police—Nanded Range	18400-500-22400

	(Rupees)		(Rupees)
Joint Commissioner of Police (Administration), Mumbai	18400-500-22400	Deputy Inspector General of Police—State Reserve Police Force, Nagpur	16400-450-20000
Director, Maharashtra Police Academy, Nasik	18400-500-22400	Additional Commissioner of Police/ Deputy Inspector General of Police—Anti-Corruption Bureau	16400-450-20000
Joint Commissioner of Police (Law & Order), Brihan Mumbai	18400-500-22400	Deputy Inspector General of Police—Prevention of Atrocities against Women	16400-450-20000
Commissioner of Police, Navi Mumbai	18400-500-22400	Additional Commissioner of Police, SB(I)	16400-450-20000
Spl. Inspector General of Police (P & C), Maharashtra	18400-500-22400	Deputy Inspector General of Police (Estt.), Maharashtra	16400-450-20000
Spl. Inspector General of Police (Administration), Maharashtra	18400-500-22400	Deputy Inspector General of Police—(Law & Order), Maharashtra	16400-450-20000
Joint Commissioner of Police, Thane City	18400-500-22400	Deputy Inspector General of Police—Training, Mumbai	16400-450-20000
Joint Commissioner of Police, Pune City	18400-500-22400	Deputy Director, Maharashtra Police Academy, Nasik	16400-450-20000
Joint Commissioner of Police, Nagpur City	18400-500-22400	Deputy Inspector General of Police—State Reserve Police Force, Mumbai	16400-450-20000
Spl. Inspector General of Police CID, Pune	18400-500-22400	Additional Commissioner of Police, Protection & Security, Mumbai	16400-450-20000
Spl. Inspector General of Police, State Reserve Police Force, Maharashtra	18400-500-22400	Commissioner of Police, Railways, Mumbai Region	16400-450-20000
Spl. Inspector General of Police, HSP, Maharashtra	18400-500-22400	Commissioner of Police, Amravati City	16400-450-20000
Commissioner of Police, Nasik City	16400-450-20000	Deputy Inspector General of Police (Administration)	16400-450-20000
Additional Commissioner of Police, North Region, Mumbai	16400-450-20000	Additional Commissioner of Police, Crime, Thane City	16400-450-20000
Additional Commissioner of Police, South Region, Mumbai	16400-450-20000	Commissioner of Police, Aurangabad City	16400-450-20000
Additional Commissioner of Police, Traffic, Mumbai	16400-450-20000		
Deputy Inspector General of Police, CID, Pune	16400-450-20000		
Deputy Inspector General of Police, State Reserve Police Force, Pune	16400-450-20000		
Additional Commissioner of Police, North-West Region, Mumbai	16400-450-20000		
Additional Commissioner of Police, Central Region, Mumbai	16400-450-20000		
Additional Commissioner of Police (Crime), Mumbai	16400-450-20000		
Additional Commissioner of Police, Armed, Mumbai	16400-450-20000		
Commissioner of Police—Solapur	16400-450-20000		

II. In "Schedule III-B—Posts carrying pay in the Senior Scale of the Indian Police Service under the State Government (including posts carrying Special Pay in addition to pay in time scale)" in the Table, for the entry "Maharashtra" occurring in the first column and the corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely :—

Deputy Commissioner of Police—Zone I-X, Brihan, Mumbai
Deputy Commissioner of Police—Narcotics Cell
Deputy Commissioner of Police—Zone I to IV, Thane City
Deputy Commissioner of Police—Zone I to III, Pune City

Deputy Commissioner of Police—Zone Special Branch, Pune City

Deputy Commissioner of Police—Zone I to III, Nagpur City

Deputy Commissioner of Police—Special Branch, Nagpur City

Deputy Commissioner of Police—Railways, Mumbai

Superintendent of Police—Railways, Pune & Nagpur

Superintendent of Police—Raigadh

Superintendent of Police—Thane Rural

Superintendent of Police—Ratnagiri

Superintendent of Police—Sindhudurg

Superintendent of Police—Nasik Rural

Superintendent of Police—Ahmednagar

Superintendent of Police—Jalgaon

Superintendent of Police—Dhule

Superintendent of Police—Kolhapur

Superintendent of Police—Pune Rural

Superintendent of Police—Satara

Superintendent of Police—Sangli

Superintendent of Police—Solapur Rural

Superintendent of Police—Aurangabad Rural

Superintendent of Police—Jalna

Superintendent of Police—Beed

Superintendent of Police—Osmanabad

Superintendent of Police—Nanded

Superintendent of Police—Latur

Superintendent of Police—Parbhani

Superintendent of Police—Nagpur Rural

Superintendent of Police—Bhandara

Superintendent of Police—Chandrapur

Superintendent of Police—Gadchiroli

Superintendent of Police—Wardha

Superintendent of Police—Amravati Rural

Superintendent of Police—Akola

Superintendent of Police—Yavatmal

Superintendent of Police—Buldhana

Superintendent of Police—Nandurbar

Superintendent of Police—Hingoli

Superintendent of Police—Washim

Superintendent of Police—Gondia

Commandant, State Reserve Police Force, Gr. I, II, Pune, IV Nagpur, VIII Mumbai & XI Navi Mumbai

Deputy Commissioner of Police (Headquarters), Mumbai

Deputy Commissioner of Police Special Branch-I, Mumbai

Deputy Commissioner of Police, Traffic, Mumbai

Deputy Commissioner of Police, Economic Offence Wing, Mumbai

Superintendent of Police, SID, (Administration), Maharashtra

Deputy Commissioner of Police, Headquarter, Navi Mumbai City

[No. 11052/9/2003-AIS(II)-B]

G.C. PANDEY, Under Secy.

Note : The Principal Rules were published vide Gazette of India GSR No. 158 dated 14-9-1954. These were subsequently amended for Maharashtra cadre of IPS vide GSR Nos. :—

S.No.	GSR Nos.	Date
1.	341 E	15-5-76
2.	1535	12-11-77
3.	655 E	30-11-79
4.	345 E	20-4-83
5.	198	25-2-84
6.	33	25-1-92
7.	236	23-5-92
8.	503	16-10-93
9.	485 E	7-8-98

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2003

सा.का.नि. 430.— भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली 1954 के नियम 4 के उप नियम (1) और (2) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मणिपुर-त्रिपुरा सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन विनियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) आठवां संशोधन विनियमावली, 2003 है।

(ii) ये विनियम भारत के राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "मणिपुर-त्रिपुरा" शीर्षक के

नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

मणिपुर-त्रिपुरा

राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद	38	पुलिस महानिरीक्षक—कानून एवं व्यवस्था	1
मणिपुर सरकार के अधीन वरिष्ठ पद		पुलिस उप महानिरीक्षक—सशस्त्र पुलिस	2
पुलिस महानिदेशक तथा महानिरीक्षक	1	पुलिस उप महानिरीक्षक—मुख्यालय	1
पुलिस अपर महानिदेशक—सशस्त्र पुलिस	1	पुलिस उप महानिरीक्षक—आपराधिक जाँच विभाग	1
पुलिस अपर महानिदेशक—आसूचना/मानवाधिकार/प्रशिक्षण/होम गार्ड	1	पुलिस उप महानिरीक्षक—(रेंज)	1
पुलिस महानिरीक्षक—कानून तथा व्यवस्था-I	1	पुलिस उप महानिरीक्षक—होम गार्ड	1
पुलिस महानिरीक्षक—प्रशासन	1	पुलिस उप महानिरीक्षक—प्रशिक्षण	1
पुलिस महानिरीक्षक—आसूचना	1	पुलिस सहायक महानिरीक्षक—मुख्यालय	1
पुलिस महानिरीक्षक—कानून तथा व्यवस्था-II	1	पुलिस सहायक महानिरीक्षक—संचालन	1
पुलिस महानिरीक्षक—प्रशिक्षण तथा मानवाधिकार	1	पुलिस अधीक्षक—जिला (दक्षिण त्रिपुरा, पश्चिम त्रिपुरा, उत्तरी त्रिपुरा तथा ढलाई)	4
पुलिस उप महानिरीक्षक—सशस्त्र पुलिस-I	1	पुलिस अधीक्षक—विशेष शाखा	1
पुलिस उप महानिरीक्षक—सशस्त्र पुलिस-II	1	पुलिस अधीक्षक—सतर्कता	1
पुलिस उप महानिरीक्षक—मुख्यालय/प्रशासन	1	पुलिस अधीक्षक—मोबाइल टास्क फोर्स	1
पुलिस उप महानिरीक्षक—रेंज-I	1	पुलिस अधीक्षक—आपराधिक जाँच विभाग	1
पुलिस उप महानिरीक्षक—रेंज-II	1	पुलिस अधीक्षक—प्रवर्तन	1
पुलिस उप महानिरीक्षक—रेंज-III	1	पुलिस अधीक्षक—प्रापण	1
पुलिस उप महानिरीक्षक—रेंज-IV	1	पुलिस अधीक्षक—संचालन	1
पुलिस उप महानिरीक्षक—आसूचना निदेशक (एम. पी. टी. सी.)	1	कमांडेंट, होम गार्ड	1
पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक/पुलिस-अधीक्षक—जिला	9	प्रधानाचार्य, पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज	1
पुलिस अधीक्षक—सी. आई. डी. (विशेष शाखा)	1	पुलिस अपर अधीक्षक—विशेष शाखा	1
पुलिस अधीक्षक—सी. आई. डी. (अपराध शाखा)	1	पुलिस अपर अधीक्षक—ग्रामीण	1
पुलिस अधीक्षक—(सीमा मामले)	1		
कमाण्डेंट (सशस्त्र पुलिस बटालियन)	7	कुल (संयुक्त संवर्ग)	66
पुलिस, अपर अधीक्षक	2	2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व (उपर्युक्त मद 1 का 40%) की दर से	26
त्रिपुरा सरकार के अधीन वरिष्ठ पद	28	3. राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व (उपर्युक्त मद 1 का 25%) की दर से	16
पुलिस महानिदेशक तथा महानिरीक्षक	1	4. प्रशिक्षण रिजर्व (उपर्युक्त मद 1 का 3.5%) की दर से	02
पुलिस अपर महानिदेशक	1	5. भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 9 के अन्तर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1, 2, 3 तथा 4 के 33.3% से अधिक नहीं	36
पुलिस महानिरीक्षक—प्रशासन	1		

6. छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 16.5% की दर से	11
7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6)	85
सीधी भर्ती के पद	85
पदोन्नति वाले पद	36
कुल प्राधिकृत संख्या	121

[सं० 11052/10/2003-अ.भा.से. (II) क]

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

टिप्पणी 1 : इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, भारतीय पुलिस सेवा के मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग की कुल प्राधिकृत संख्या 120 थी।

टिप्पणी 2 : मुख्य विनियम दिनांक 22-10-1955 की एस.आर.ओ. संख्या 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे तथा भारतीय पुलिस सेवा के मणिपुर-त्रिपुरा के संवर्ग के संबंध में बाद में इन्हें निम्नलिखित सा.का.नि. संख्या द्वारा संशोधित किया गया :—

क्रम सं.	सा.का.नि. संख्या	दिनांक
1.	1182	3-11-73
2.	928	17-12-76
3.	369	10-3-79
4.	698अ	17-12-80
5.	730	8-10-83
6.	489	27-6-87
7.	446	4-6-88
8.	729	17-9-88
9.	699	21-12-91
10.	320अ	31-3-95
11.	309	16-08-97
12.	740अ	31-12-97
13.	194अ	20-4-98

New Delhi, the 5th November, 2003

G.S.R. 430.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (LXI of 1951) read with sub-rules (1) and (2) of Rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Manipur-Tripura hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely :—

1. (i) These regulations may be called the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Eighth Amendment Regulations, 2003.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, under the heading "Manipur-Tripura" for the entries occurring thereunder, the following shall be substituted namely :—

Manipur-Tripura

1. Senior Posts under the State Government

Senior Posts under the Government of Manipur	38
Director General & Inspector General of Police.	1
Additional Director General of Police— Armed Police	1
Additional Director General of Police— Intelligence/Human Right/Training/Home Guards	1
Inspector General of Police—Law & Order—I	1
Inspector General of Police—Administration	1
Inspector General of Police—Intelligence	1
Inspector General of Police—Law & Order-II	1
Inspector General of Police—Training and Human Right	1
Deputy Inspector General of Police— Armed Police-I	1
Deputy Inspector General of Police— Armed Police-II	1
Deputy Inspector General of Police— Headquarter/Administration	1
Deputy Inspector General of Police—Range-I	1
Deputy Inspector General of Police—Range-II	1
Deputy Inspector General of Police—Range-III	1
Deputy Inspector General of Police—Range-IV	1
Deputy Inspector General of Police— Intelligence	1
Director (MPTC)	1
Senior Superintendent of Police/ Superintendent of Police—Districts	9

Superintendent of Police— CID (Special Branch)	1	Addl. Superintendent of Police— Rural	1
Superintendent of Police— CID (Crime Branch)	1	TOTAL (Joint Cadre)	66
Superintendent of Police— (Border Affairs)	1	2. Central Deputation Reserve @ 40% of Item 1 above	26
Commandant (AP Bns.)	7	3. State Deputation Reserve @ 25% of Item 1 above	16
Additional Superintendent of Police	2	4. Training Reserve @ 3.5% of Item 1 above	2
Senior Posts under the Government of Tripura	28	5. Posts to be filled by promotion under Rule 9 of the Indian Police Service (Recruit- ment) Rules, 1954 not exceeding 33% of Item 1.2.3. & 4 above	36
Director General & Inspector General of Police	1	6. Leave Reserve and Junior Posts Reserve @ 16.5% of Item 1 above	11
Additional Director General of Police	1	7. Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1 + 2 + 3 + 4 + 6 - 5)	85
Inspector General of Police—Administration	1	Direct Recruitment Posts	85
Inspector General of Police— Law & Order	1	Promotion Posts	36
Deputy Inspector General of Police— (A.P.)	2	Total Authorised Strength	121
Deputy Inspector General of Police— (H.Q.)	1	[No. 11052/10/2003-AIS(II)-A] G.C. PANDEY, Under Secy.	
Deputy Inspector General of Police— (CID)	1	Note 1 : Prior to the issue of this notification, the total authorised strength of the Manipur -Tripura (IPS) Cadre was 120.	
Deputy Inspector General of Police— (Range)	1	Note 2 : The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide SRO no. 3350, dated 22-10-1955. Subsequently they were amended in respect of the Indian Police Service vide following GSR numbers and dates in respect of Manipur-Tripura-cadre :—	
Deputy Inspector General of Police— (Home Guards)	1		
Deputy Inspector General of Police— Training	1		
Asstt. Inspector General of Police— Headquarters	1		
Asstt. Inspector General of Police— Operations	1		
Superintendent of Police— Districts (South Tripura, West Tripura, North Tripura and Dhalai)	4		
Superintendent of Police—Special Branch	1		
Superintendent of Police—Vigilance	1		
Superintendent of Police—Mobile Task Force	1		
Superintendent of Police—CID	1		
Superintendent of Police—Enforcement	1		
Superintendent of Police—Procurement	1		
Superintendent of Police—Operations	1		
Commandant, Home Guards	1		
Principal, Police Training College	1		
Addl. Superintendent of Police— Special Branch	1		

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2003

सा.का.नि. 431.— भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली 1954 के नियम 11 के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मणिपुर-त्रिपुरा सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) आठवाँ संशोधन नियमावली, 2003 है ।

(ii) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. “अनुसूची-III-क में “राज्य सरकार के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के समय वेतनमान से ऊपर के पदों में”, तालिका के प्रथम कॉलम की “मणिपुर-त्रिपुरा” प्रविष्टि और दूसरे तथा तीसरे कॉलमों में तदनुसूची प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

मणिपुर-त्रिपुरा

मणिपुर सरकार

(रुपए)

पुलिस, महानिदेशक तथा महानिरीक्षक	24,050-650-26,000
पुलिस, अपर महानिदेशक—सशस्त्र पुलिस	22,400-525-24,500
पुलिस, अपर महानिदेशक—आसूचना/मानवाधिकार/प्रशिक्षण/होम गार्ड	22,400-525-24,500
पुलिस, महानिरीक्षक—कानून तथा व्यवस्था-I	18,400-500-22,400
पुलिस, महानिरीक्षक—प्रशासन	18,400-500-22,400
पुलिस, महानिरीक्षक—आसूचना	18,400-500-22,400
पुलिस, महानिरीक्षक—कानून तथा व्यवस्था-II	18,400-500-22,400
पुलिस, महानिरीक्षक—प्रशिक्षण तथा मानवाधिकार	18,400-500-22,400
पुलिस, उप महानिरीक्षक—सशस्त्र पुलिस-I	16,400-450-20,000
पुलिस, उप महानिरीक्षक—सशस्त्र पुलिस-II	16,400-450-20,000
पुलिस, उप महानिरीक्षक—मुख्यालय/प्रशासन	16,400-450-20,000
पुलिस, उप महानिरीक्षक—रैंज-I	16,400-450-20,000
पुलिस, उप महानिरीक्षक—रैंज-II	16,400-450-20,000
पुलिस, उप महानिरीक्षक—रैंज-III	16,400-450-20,000
पुलिस, उप महानिरीक्षक—रैंज-IV	16,400-450-20,000
पुलिस, उप महानिरीक्षक—आसूचना	16,400-450-20,000
निदेशक (एम.पी.टी.सी.)	16,400-450-20,000

त्रिपुरा सरकार

(रुपए)

पुलिस महानिदेशक तथा महानिरीक्षक	24,050-650-26,000
पुलिस अपर महानिदेशक	22,400-525-24,500
पुलिस महानिरीक्षक—प्रशासन	18,400-500-22,400
पुलिस महानिरीक्षक—कानून व्यवस्था	18,400-500-22,400
पुलिस उप महानिरीक्षक—सशस्त्र पुलिस	16,400-450-20,000
पुलिस उप महानिरीक्षक—मुख्यालय	16,400-450-20,000
पुलिस उप महानिरीक्षक—आपराधिक जाँच विभाग	16,400-450-20,000
पुलिस उप महानिरीक्षक—(रैंज)	16,400-450-20,000
पुलिस उप महानिरीक्षक—होम गार्ड	16,400-450-20,000
पुलिस उप महानिरीक्षक—प्रशिक्षण	16,400-450-20,000

II-अनुसूची-III-ख में, “राज्य सरकार के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ समय वेतनमान में (समय वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित) वेतन वाले पदों में”, तालिका के पहले कॉलम में आने वाली मणिपुर-त्रिपुरा प्रविष्टि के लिए और दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुसूची प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

मणिपुर सरकार

पुलिस, वरिष्ठ अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक-जिला

पुलिस अधीक्षक-सी.आई.डी. (विशेष शाखा)

पुलिस अधीक्षक-सी.आई.डी. (अपराध शाखा)

पुलिस अधीक्षक-(सीमा मामले)

कमांडेंट (सशस्त्र पुलिस बटालियन)

पुलिस, अपर अधीक्षक

त्रिपुरा सरकार

पुलिस सहायक महानिरीक्षक—मुख्यालय

पुलिस सहायक महानिरीक्षक—संचालन

पुलिस अधीक्षक—जिला (दक्षिण त्रिपुरा, पश्चिम त्रिपुरा, उत्तरी त्रिपुरा तथा दलाई)

पुलिस अधीक्षक—विशेष शाखा

पुलिस अधीक्षक—सतर्कता

पुलिस अधीक्षक—मोबाइल टास्क फोर्स

पुलिस अधीक्षक—आपराधिक जाँच विभाग

पुलिस अधीक्षक—प्रवर्तन

पुलिस अधीक्षक—प्रापण

पुलिस अधीक्षक—संचालन

कमांडेंट, होम गार्ड

प्रधानाचार्य, पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज

पुलिस अपर अधीक्षक—विशेष शाखा

पुलिस अपर अधीक्षक—ग्रामीण

[सं० 11052/10/2003-अ.भा.से. (II) क]

जी. सी. पाण्डेय, अवसर सचिव

टिप्पणी 1 : मुख्य नियम दिनांक 14-09-54 को भारत के राजपत्र में सा.का.नि. संख्या 158 में प्रकाशित किए गए थे और बाद में निम्न के तहत भारतीय पुलिस सेवा के मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग के लिए संशोधित किए गए थे :—

क्रम सं.	सा.का.नि. संख्या	दिनांक
1.	1181	3-11-73
2.	815	12-06-76
3.	901	26-06-76
4.	929अ	17-12-76
5.	370	10-03-79
6.	699अ	17-12-80
7.	731	8-10-83
8.	490	27-6-87
9.	696	3-9-88
10.	700	21-12-91
11.	310	16-08-97
12.	195अ	20-4-98

New Delhi, the 5th November, 2003

G.S.R. 431.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (LXI of 1951) read with Rules 11 of the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government, after consultation with the Government of Manipur-Tripura hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, namely :—

1. (i) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) Eighth Amendment Rules, 2003.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule III-A—Posts carrying pay above the time scale in the Indian Police Service under the State Gov-

ernment” in the Table, for the entry “Manipur-Tripura” occurring in the first column and the corresponding entries in the second and third columns, the following shall be substituted namely :—

Manipur-Tripura**Government of Manipur****(Rupees)**

Director General & Inspector General of Police	24050-650-26000
Additional Director General of Police—Armed Police	22400-525-24500
Additional Director General of Police—Intelligence/Human Right/Training/Home Guards	22400-525-24500
Inspector General of Police—Law & Order-I	18400-500-22400
Inspector General of Police—Administration	18400-500-22400
Inspector General of Police—Intelligence	18400-500-22400
Inspector General of Police—Law & Order-II	18400-500-22400
Inspector General of Police—Training and Human Right	18400-500-22400
Deputy Inspector General of Police—Armed Police-I	16400-450-20000
Deputy Inspector General of Police—Armed Police-II	16400-450-20000
Deputy Inspector General of Police—Headquarter/Administration	16400-450-20000
Deputy Inspector General of Police—Range-I	16400-450-20000
Deputy Inspector General of Police—Range-II	16400-450-20000
Deputy Inspector General of Police—Range-III	16400-450-20000
Deputy Inspector General of Police—Range-IV	16400-450-20000
Deputy Inspector General of Police—Intelligence	16400-450-20000
Director (MPTC)	16400-450-20000

Government of Tripura

Director General & Inspector General of Police	24050-650-26000
Additional Director General of Police	22400-525-24500
Inspector General of Police—Administration	18400-500-22400

Inspector General of Police— Law & Order	18400-500-22400
Deputy Inspector General of Police— (A.P.)	16400-450-20000
Deputy Inspector General of Police— (HQ)	16400-450-20000
Deputy Inspector General of Police— (CID)	16400-450-20000
Deputy Inspector General of Police— (Range)	16400-450-20000
Deputy Inspector General of Police— (Home Guards)	16400-450-20000
Deputy Inspector General of Police— Training	16400-450-20000

II—In “Schedule III-B—Posts carrying pay in the Senior Scale of the Indian Police Service under the State Government (including posts carrying Special Pay in addition to pay in time scale)” in the Table, for the entry “Manipur-Tripura” occurring in the first column and the corresponding entries in the second column, the following shall be substituted, namely :—

Government of Manipur

Senior Superintendent of Police/Superintendent of Police— Districts
Superintendent of Police—CID (Special Branch)
Superintendent of Police—CID (Crime Branch)
Superintendent of Police—(Border Affairs)
Commandant (AP Bns.)
Additional Superintendent of Police

Government of Tripura

Asstt. Inspector General of Police—Headquarters
Asstt. Inspector General of Police—Operations
Superintendent of Police—Districts (South Tripura, West Tripura, North Tripura and Dhalai)
Superintendent of Police—Special Branch
Superintendent of Police—Vigilance
Superintendent of Police—Mobile Task Force
Superintendent of Police—CID
Superintendent of Police—Enforcement
Superintendent of Police—Procurement
Superintendent of Police—Operations
Commandant, Home Guards
Principal, Police Training College
Addl. Superintendent of Police—Special Branch

[No. 11052/10/2003-AIS(II)-B]
G. C. PANDEY, Under Secy.

Note 1 : The Principal Rules were published vide Gazette of India GSR no. 158 dated 14th. September 1954. These were subsequently amended for Manipur-Tripura cadre of IPS vide GSR nos :—

S.No.	GSR Numbers	Date
1.	1181	3-11-73
2.	815	12-6-76
3.	901	26-6-76
4.	929E	17-12-76
5.	370	10-3-79
6.	699E	17-12-80
7.	731	8-10-83
8.	490	27-6-87
9.	696	3-9-88
10.	700	21-12-91
11.	310	16-8-97
12.	195E	20-4-98

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2003

सा.का.नि. 432.— भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार पंजाब सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन विनियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) पाँचवां संशोधन विनियमावली, 2003 है।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमवली, 1955 की अनुसूची में “पंजाब” शीर्षक के नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

पंजाब

1. राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद	79
पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक	1
पुलिस अपर महानिदेशक—प्रशासन, पंजाब, चंडीगढ़	1
पुलिस अपर महानिदेशक—सुरक्षा, पंजाब, चंडीगढ़	1
पुलिस अपर महानिदेशक—आसूचना, पंजाब, चंडीगढ़	1
पुलिस अपर महानिदेशक—प्रशिक्षण और निदेशक एम.आर. एस.पी.पी.ए., फिलौर,	1

पुलिस अपर महानिदेशक—सशस्त्र वाहिनियाँ	1	पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जिला प्रभारी	23
पुलिस अपर महानिदेशक—अपराध, पंजाब, चंडीगढ़	1	(जालंधर, अमृतसर, गुरदासपुर, पटियाला, लुधियाना, संगरूर, फिरोजपुर, फरीदकोट, भटिण्डा, कपूरथला, रोपड़, होशियारपुर, तरन-तारन, मजीथा, बटाला, नवा शहर, मुक्तसर, मोगा, मन्सा, बरनाला, फतेहगढ़ साहिब, खन्ना और जगरांव)	
पुलिस महानिरीक्षक—प्रशिक्षण, पंजाब, चंडीगढ़	1		
पुलिस महानिरीक्षक—कम्प्यूटर और दूरसंचार, पंजाब, चंडीगढ़	1		
पुलिस महानिरीक्षक—आई.आर.बी., पंजाब, पटियाला	1	पुलिस अधीक्षक—सिटी, अमृतसर और लुधियाना	2
पुलिस महानिरीक्षक—जोनल-I, पंजाब, पटियाला	1	पुलिस अधीक्षक—विशेष स्टाफ, अपराध, पंजाब, चंडीगढ़	1
पुलिस महानिरीक्षक—जोनल-II, पंजाब, जालंधर	1	पुलिस अधीक्षक—विशेष शाखा, आसूचना, पंजाब, चंडीगढ़	1
पुलिस महानिरीक्षक—जी.आर.पी., पंजाब, पटियाला	1	पुलिस अधीक्षक—आपराधिक जाँच विभाग, अमृतसर	1
पुलिस महानिरीक्षक—कमांडो, पी.बी., बहादुरगढ़, पटियाला	1	कमांडेंट—पंजाब सशस्त्र पुलिस वाहिनियाँ (7वीं, 27वीं, 36वीं, 75वीं, 80वीं, 82वीं)	6
पुलिस महानिरीक्षक—पंजाब सशस्त्र पुलिस (पी.ए.पी.), जालंधर कैंट	1	कमांडेंट—आई.आर.बी. (प्रथम, द्वितीय और तृतीय वाहिनियाँ)	3
पुलिस महानिरीक्षक—अपराध, पंजाब, चंडीगढ़	1	उप निदेशक—इंडोर, एम.आर.एस. पंजाब पुलिस अकादमी, फिलौर	1
पुलिस महानिरीक्षक—मुख्यालय, पंजाब, चंडीगढ़	1	ए.आई.जी.पी. भण्डारण, सी.पी.ओ. पंजाब, चण्डीगढ़	1
पुलिस महानिरीक्षक—भंडारण और आधुनिकीकरण, पंजाब, चंडीगढ़	1	पुलिस सहायक महानिरीक्षक, कार्मिक, सी.पी.ओ., पंजाब, चंडीगढ़	1
पुलिस महानिरीक्षक—सीमा, अमृतसर	1		
पुलिस महानिरीक्षक—आसूचना, पंजाब, चंडीगढ़	1		
पुलिस उप महानिरीक्षक—अपराध, पंजाब, चंडीगढ़	1	2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व (उपर्युक्त मद 1 का 40%) की दर से	31
पुलिस उप महानिरीक्षक—रेंज-जालंधर, फिरोजपुर, पटियाला, अमृतसर, लुधियाना और फरीदकोट	6	3. राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व (उपर्युक्त मद 1 का 25%) की दर से	19
पुलिस उप महानिरीक्षक—प्रशिक्षण, केन्द्रीय पुलिस कार्यालय, पंजाब, चंडीगढ़	1	4. प्रशिक्षण रिजर्व (उपर्युक्त मद 1 का 3.5%) की दर से	02
पुलिस उप महानिरीक्षक—प्रशासन, चंडीगढ़	1	5. भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 9 के अन्तर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1, 2, 3 तथा 4 के 33.3% से अधिक नहीं	43
पुलिस उप महानिरीक्षक और संयुक्त निदेशक, एम.आर.एस., पंजाब पुलिस अकादमी, फिलौर	1	6. छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 16.5% की दर से	13
पुलिस उप महानिरीक्षक और कमान्डेंट जनरल, पंजाब होमगार्ड और निदेशक नागरिक सुरक्षा, पंजाब	1	7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6)	101
पुलिस उप महानिरीक्षक—प्रशासन, सी.डी.ओ., बहादुरगढ़	1		
पुलिस उप महानिरीक्षक—प्रतिपक्ष आसूचना पंजाब, चंडीगढ़	1		
पुलिस उप महानिरीक्षक—आसूचना पंजाब, चंडीगढ़	1		
पुलिस उप महानिरीक्षक—प्रशासन, आई. आर. बी., पटियाला	1	सीधी भर्ती के पद	101
पुलिस उप महानिरीक्षक—प्रशासन—पंजाब सशस्त्र पुलिस (पी.ए.पी.), जालंधर	1	पदोन्नति वाले पद	43
पुलिस उप महानिरीक्षक—भंडारण और आधुनिकीकरण	1		
पुलिस उप महानिरीक्षक—सुरक्षा, पंजाब, चंडीगढ़	1		
पुलिस उप महानिरीक्षक—कम्प्यूटरीकरण और दूरसंचार	1		
		कुल प्राधिकृत संख्या	144

[सं० 11052/11/2003-अ.भा.से. (II) क]

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

टिप्पणी 1 : इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, भारतीय पुलिस सेवा के पंजाब संवर्ग की, कुल प्राधिकृत संख्या 144 थी ।

टिप्पणी 2 : मुख्य विनियम दिनांक 22-10-1955 की एस.आर.ओ. संख्या 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे तथा भारतीय पुलिस सेवा के पंजाब संवर्ग के संबंध में बाद में इन्हें निम्नलिखित सा.का.नि. संख्या द्वारा संशोधित किया गया :—

क्रम सं.	सा.का.नि. संख्या	दिनांक
1.	1016	22-09-73
2.	438अ.	3-07-76
3.	601अ.	25-10-80
4.	169	13-03-82
5.	833	4-10-86
6.	510	18-08-90
7.	411	19-9-92
8.	386	31-07-93
9.	387	31-07-93
10.	320अ.	31-03-95
11.	176	15-04-95
12.	740अ.	31-12-97
13.	216अ.	24-04-98

New Delhi, the 5th November, 2003

G.S.R. 432.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (LXI of 1951) read with sub-rules (1) and (2) of Rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Punjab hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely :—

1. (i) These regulations may be called the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Fifth Amendment Regulations, 2003.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Police (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, under the heading “Punjab” for the entries occurring thereunder, the following shall be substituted, namely :—

Punjab

1. Senior Posts under the State Government	79
Director General & Inspector General of Police	1

Additional Director General of Police—Administration, 1
Punjab, Chandigarh

Additional Director General of Police—Security, 1
Punjab, Chandigarh

Additional Director General of Police—Intelligence, 1
Punjab, Chandigarh

Additional Director General of Police—Training-cum-Director MRS PPA, Phillaur 1

Additional Director General of Police—Armed 1
Battalions

Additional Director General of Police—Crime, Punjab, 1
Chandigarh

Inspector General of Police/Training, Punjab, 1
Chandigarh

Inspector General of Police—Computer & Telecom- 1
munications, Punjab, Chandigarh

Inspector General of Police—IRB, Punjab, Patiala 1

Inspector General of Police—Zonal-I, Punjab, Patiala 1

Inspector General of Police—Zonal-II, Punjab, 1
Jalandhar

Inspector General of Police—GRP, Punjab, Patiala 1

Inspector General of Police—Commando, PB, 1
Bahadurgarh, Patiala

Inspector General of Police—PAP, Jalandhar Cantt. 1

Inspector General of Police—Crime, Punjab, Chandigarh 1

Inspector General of Police—Headquarters, Punjab, 1
Chandigarh

Inspector General of Police—Provisioning and 1
Modernisation, Punjab, Chandigarh

Inspector General of Police—Border, Amritsar 1

Inspector General of Police—Intelligence, Punjab, 1
Chandigarh

Deputy Inspector General of Police—Crime, Punjab, 1
Chandigarh

Deputy Inspector General of Police—Range-Jalandhar, 6
Ferozpur, Patiala, Amritsar, Ludhiana and Faridkot

Deputy Inspector General of Police—Training, Central 1
Police Office, Punjab, Chandigarh

Deputy Inspector General of Police—Administration, 1
Chandigarh

Deputy Inspector General of Police-cum-Joint 1
Director, MRS, Punjab, Police Academy, Phillaur

Deputy Inspector General of Police-cum-Commandant 1
General, Punjab Home Guards and Director, Civil
Defence, Punjab

Deputy Inspector General of Police—Administration, CDO. Bahadurgarh	1	6. Leave Reserve and Junior Posts Reserve @16.5% of Item 1 above	13
Deputy Inspector General of Police—Counter Intelligence, Punjab. Chandigarh	1	7. Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1 + 2 + 3 + 4 + 6 - 5)	101
Deputy Inspector General of Police—Intelligence, Punjab. Chandigarh	1	Direct Recruitment Posts	101
Deputy Inspector General of Police—Administration, IRB. Patiala	1	Promotion Posts	43
Deputy Inspector General of Police—Administration, PAP. Jalandhar	1	TOTAL AUTHORISED STRENGTH	144
Deputy Inspector General of Police—Provisioning and Modernisation	1	[No. 11052/11/2003-AIS(II)-A] G. C. PANDEY, Under Secy.	
Deputy Inspector General of Police—Security, Punjab, Chandigarh	1	Note 1 : Prior to the issue of this notification, the total authorised strength of the Punjab (IPS) Cadre was 144.	
Deputy Inspector General of Police—Computerisation & Telecommunications	1	Note 2 : The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3350, dated 22-10-1955. Subsequently they were amended in respect of the Indian Police Service vide following GSR numbers and dates in respect of Punjab cadre :—	
Senior Superintendent of Police/Superintendent of Police, Incharge of District (Jalandhar, Amritsar, Gurdaspur, Patiala, Ludhiana, Sangrur, Ferozepur, Faridkot, Bathinda, Kapurthala, Ropar, Hoshiarpur, Tarn Taran, Majitha, Batala, Nawan Shahar, Muktsar, Moga, Mansa, Barnala, Fatehgarh Sahib, Khanna and Jagraon)	23	S.No.	GSR Nos.
Superintendent of Police—City, Amritsar and Ludhiana	2	1	1016
Superintendent of Police—Special Staff, Crime, Punjab. Chandigarh	1	2.	438E
Superintendent of Police—Special Branch, Int. Punjab, Chandigarh	1	3.	601E
Superintendent of Police—CID, Amritsar	1	4.	169
Commandants—PAP. Bns. (7th, 27th, 36th, 75th, 80th, 82nd)	6	5.	833
Commandants-IRB (1st, 2nd and 3rd Bns)	3	6.	510
Deputy Director-Indoor, MRS, Punjab Police Academy, Phillaur	1	7.	411
AIGP, Provisioning, CPO, Punjab, Chandigarh	1	8.	386
Astt. Inspector General of Police, Personnel, CPO, Punjab. Chandigarh	1	9.	387
TOTAL	79	10.	320E
2. Central Deputation Reserve @ 40% of Item 1 above	31	11.	176
3. State Deputation Reserve @ 25% of Item 1 above	19	12.	740E
4. Training Reserve @ 3.5% of Item 1 above	02	13.	216E
5. Posts to be filled by promotion under Rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33.3% of Items 1, 2, 3 & 4 above.	43	नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2003	

सा.का.नि. 433.— भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली 1954 के नियम 11 के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार पंजाब सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पाँचवा संशोधन नियमावली, 2003 है।

(ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. “अनुसूची-III-क में राज्य सरकार के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के समय वेतनमान से ऊपर के पदों में”, प्रथम कॉलम की “पंजाब” प्रविष्टि और दूसरे तथा तीसरे कॉलमों में तदनुसूची प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

पंजाब (रुपए)	
पुलिस, महानिदेशक और महानिरीक्षक	24,050-650-26,000
पुलिस, अपर महानिदेशक—प्रशासन, पंजाब, चंडीगढ़	22,400-525-24,500
पुलिस, अपर महानिदेशक—सुरक्षा, पंजाब, चंडीगढ़	22,400-525-24,500
पुलिस, अपर महानिदेशक—आसूचना, पंजाब, चंडीगढ़	22,400-525-24,500
पुलिस, अपर महानिदेशक—प्रशिक्षण और निदेशक एम.आर.एस.पी.पी.ए., फिल्लौर	22,400-525-24,500
पुलिस, अपर महानिदेशक—सशस्त्र वाहिनियां	22,400-525-24,500
पुलिस, अपर महानिदेशक—अपराध पंजाब, चंडीगढ़	22,400-525-24,500
पुलिस, महानिरीक्षक—प्रशिक्षण, पंजाब, चंडीगढ़	18,400-500-22,400
पुलिस, महानिरीक्षक—कम्प्यूटर और दूरसंचार, पंजाब, चंडीगढ़	18,400-500-22,400
पुलिस, महानिरीक्षक—आई.आर.बी., पंजाब, पटियाला	18,400-500-22,400
पुलिस, महानिरीक्षक—जोनल-I पंजाब, पटियाला	18,400-500-22,400
पुलिस, महानिरीक्षक—जोनल-II, पंजाब, जालंधर	18,400-500-22,400
पुलिस, महानिरीक्षक—जी.आर.पी., पंजाब, पटियाला	18,400-500-22,400
पुलिस, महानिरीक्षक—कमांडो, पी.बी., बहादुरगढ़, पटियाला	18,400-500-22,400
पुलिस, महानिरीक्षक—पंजाब सशस्त्र पुलिस (पी.ए.पी.), जालंधर, कैन्ट	18,400-500-22,400
पुलिस, महानिरीक्षक—अपराध, पंजाब, चंडीगढ़	18,400-500-22,400
पुलिस, महानिरीक्षक—मुख्यालय, पंजाब, चंडीगढ़	18,400-500-22,400

(रुपए)

पुलिस, महानिरीक्षक—भंडारण और आधुनिकीकरण, पंजाब, चंडीगढ़	18,400-500-22,400
पुलिस, महानिरीक्षक—सीमा, अमृतसर	18,400-500-22,400
पुलिस, महानिरीक्षक—आसूचना, पंजाब, चंडीगढ़	18,400-500-22,400
पुलिस, उप महानिरीक्षक—अपराध, पंजाब, चंडीगढ़	16,400-450-20,000
पुलिस, उप महानिरीक्षक—रेंज—जालंधर, फिरोजपुर, पटियाला, अमृतसर, लुधियाना और फरीदकोट	16,400-450-20,000
पुलिस, उप महानिरीक्षक—प्रशिक्षण, केन्द्रीय पुलिस कार्यालय, पंजाब, चंडीगढ़	16,400-450-20,000
पुलिस, उप महानिरीक्षक—प्रशासन, चंडीगढ़	16,400-450-20,000
पुलिस, उप महानिरीक्षक और संयुक्त निदेशक, एम.आर.एस. पंजाब पुलिस अकादमी, फिल्लौर	16,400-450-20,000
पुलिस, उप महानिरीक्षक और कमान्डेन्ट जनरल, पंजाब होमगार्ड और निदेशक नागरिक सुरक्षा, पंजाब	16,400-450-20,000
पुलिस, उप महानिरीक्षक—प्रशासन, सी. डी. ओ., बहादुरगढ़	16,400-450-20,000
पुलिस, उप महानिरीक्षक—प्रतिपक्ष आसूचना पंजाब, चंडीगढ़	16,400-450-20,000
पुलिस, उप महानिरीक्षक—आसूचना पंजाब, चंडीगढ़	16,400-450-20,000
पुलिस, उप महानिरीक्षक—प्रशासन, आई.आर.बी., पटियाला	16,400-450-20,000
पुलिस, उप महानिरीक्षक—प्रशासन, पंजाब सशस्त्र पुलिस (पी.ए.पी.), जालंधर	16,400-450-20,000
पुलिस, उप महानिरीक्षक—भंडारण और आधुनिकीकरण	16,400-450-20,000
पुलिस, उप महानिरीक्षक—सुरक्षा, पंजाब, चंडीगढ़	16,400-450-20,000
पुलिस, उप महानिरीक्षक—कम्प्यूटरीकरण और दूरसंचार	16,400-450-20,000

II. “अनुसूची-III-ख में—राज्य सरकार के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में (समय वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त

विशेष वेतन वाले पदों सहित) "वेतन वाले पदों में, तालिका के पहले कॉलम में आने वाली "पंजाब" प्रविष्टि के लिए और दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुसूची प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

पुलिस, वरिष्ठ अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक—जिला प्रभारी (जालंधर, अमृतसर, गुरदासपुर, पटियाला, लुधियाना, संगरूर, फिरोजपुर, फरीदकोट, भटिन्डा, कपूरथला, रोपड़, हंसेनपुर, तरन-तारन, मजीथा, बटाला, नया शहर, मुक्तसर, मोगा, मन्सा, बरनाला, फतेहगढ़ साहिब, खन्ना और जगराव)

पुलिस अधीक्षक—सिटी, अमृतसर और लुधियाना

पुलिस अधीक्षक—विशेष स्टाफ, अपराध, पंजाब, चंडीगढ़

पुलिस अधीक्षक—विशेष शाखा, आसूचना, पंजाब, चंडीगढ़

पुलिस अधीक्षक—आपराधिक जाँच विभाग, अमृतसर

कमांडेंट—पंजाब सशस्त्र पुलिस वाहिनियाँ (7वीं, 27वीं, 36वीं, 75वीं, 80वीं, 82वीं)

कमांडेंट—आई.आर.बी. (प्रथम, द्वितीय और तृतीय वाहिनियाँ)

उप निदेशक—इंदोर, एम.आर.एस. पंजाब पुलिस अकादमी, फिल्लौर, ए.आई.जी.पी. भण्डारण, सी.पी.ओ. पंजाब, चंडीगढ़

पुलिस सहायक महानिरीक्षक, कार्मिक, सी.पी.ओ., पंजाब, चंडीगढ़

[सं० 11052/11/2003-अ.भा.से. (II) ख]

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

टिप्पणी 1 : मुख्य नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. संख्या 158 दिनांक 14-09-54 के तहत प्रकाशित किए गए थे और बाद में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं के तहत भारतीय पुलिस सेवा के पंजाब संवर्ग के संबंध में संशोधित किए गए थे :—

क्रम सं.	सा.का.नि. संख्या	दिनांक
1.	1017	22-09-73
2.	814	12-06-76
3.	439अ	03-07-76
4.	602अ	25-10-80
5.	270	13-03-82
6.	834	04-10-86
7.	509	18-8-90
8.	412	19-09-92
9.	177	15-04-95
10.	216अ	24-04-98

New Delhi, the 5th November, 2003

G.S.R. 433.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act,

1951 (LXI of 1951) read with Rule 11 of the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government, after consultation with the Government of Punjab hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, namely :—

1. (i) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) Fifth Amendment Rules, 2003.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. (I) In "Schedule III-A—Posts carrying pay above the time scale in the Indian Police Service under the State Government" in the Table, for the entry "Punjab" occurring in the first column and the corresponding entries in the second and third columns, the following shall be substituted namely :—

Punjab

(Rupees)

Director General & Inspector General of Police	24,050-650-26,000
Additional Director General of Police—Administration, Punjab, Chandigarh	22,400-525-24,500
Additional Director General of Police—Security, Punjab, Chandigarh	22,400-525-24,500
Additional Director General of Police—Intelligence, Punjab, Chandigarh	22,400-525-24,500
Additional Director General of Police—Training-cum-Director MRS PPA, Phillaur	22,400-525-24,500
Additional Director General of Police—Armed Battalions	22,400-525-24,500
Additional Director General of Police—Crime, Punjab, Chandigarh	22,400-525-24,500
Inspector General of Police—Training, Punjab, Chandigarh	18,400-500-22,400
Inspector General of Police—Computer & Telecommunications, Punjab, Chandigarh	18,400-500-22,400
Inspector General of Police—IRB, Punjab, Patiala	18,400-500-22,400
Inspector General of Police—Zonal-I, Punjab, Patiala	18,400-500-22,400
Inspector General of Police—Zonal-II, Punjab, Jalandhar	18,400-500-22,400
Inspector General of Police—GRP, Punjab, Patiala	18,400-500-22,400
Inspector General of Police—Commando, PB, Bahadurgarh, Patiala	18,400-500-22,400

	(Rupees)
Inspector General of Police— PAP, Jalandhar Cantt.	18,400-500-22,400
Inspector General of Police— Crime, Punjab, Chandigarh	18,400-500-22,400
Inspector General of Police— Headquarters, Punjab, Chandigarh	18,400-500-22,400
Inspector General of Police— Provisioning & Modernisation, Punjab, Chandigarh	18,400-500-22,400
Inspector General of Police— Border, Amritsar	18,400-500-22,400
Inspector General of Police— Intelligence, Punjab, Chandigarh	18,400-500-22,400
Deputy Inspector General of Police— Crime, Punjab, Chandigarh	16,400-450-20,000
Deputy Inspector General of Police— Range—Jalandhar, Ferozepur, Patiala, Amritsar, Ludhiana and Faridkot	16,400-450-20,000
Deputy Inspector General of Police— Training, Central Police Office, Punjab, Chandigarh	16,400-450-20,000
Deputy Inspector General of Police— Administration, Chandigarh	16,400-450-20,000
Deputy Inspector General of Police— cum-Joint Director, MRS, Punjab, Police Academy, Phillaur	16,400-450-20,000
Deputy Inspector General of Police— cum-Commandant General, Punjab Home Guards and Director, Civil Defence, Punjab	16,400-450-20,000
Deputy Inspector General of Police— Administration, CDO, Bahadurgarh	16,400-450-20,000
Deputy Inspector General of Police— Counter Intelligence, Punjab Chandigarh	16,400-450-20,000
Deputy Inspector General of Police— Intelligence, Punjab, Chandigarh	16,400-450-20,000
Deputy Inspector General of Police— Administration, IRB, Patiala	16,400-450-20,000
Deputy Inspector General of Police— Administration, PAP, Jalandhar	16,400-450-20,000
Deputy Inspector General of Police— Provisioning & Modernisation	16,400-450-20,000
Deputy Inspector General of Police— Security, Punjab, Chandigarh	16,400-450-20,000
Deputy Inspector General of Police— Computerisation & Telecommunications	16,400-450-20,000

II—In “Schedule III-B—Posts carrying pay in the Senior Scale of the Indian Police Service under the State Government (including posts carrying Special Pay in addition to pay in time scale)” in the Table, for the entry “Punjab” occurring in the first column and the corresponding entries in the second column, the following shall be substituted, namely :—

Senior Superintendent of Police/Superintendent of Police, Incharge of Districts (Jalandhar, Amritsar, Gurdaspur, Patiala, Ludhiana, Sangrur, Ferozepur, Faridkot, Bathinda, Kapurthala, Rohtak, Hoshiarpur, Tarn-Taran, Majitha, Batala, Nawan Shahar, Muktsar, Moga, Mansa, Barnala, Fatehgarh Sahib, Khanna and Jagraon).

Superintendent of Police—City, Amritsar and Ludhiana

Superintendent of Police—Special Staff, Crime, Punjab, Chandigarh

Superintendent of Police—Special Branch, Int. Punjab, Chandigarh

Superintendent of Police—CID, Amritsar

Commandants-PAP, Bns. (7th, 27th, 36th, 75th, 80th, 82nd)

Commandants-IRB (1st, 2nd and 3rd Bns)

Deputy Director-Indoor, MRS, Punjab Police Academy, Phillaur

AIGP, Provisioning, CPO, Punjab, Chandigarh

Asstt. Inspector General of Police, Personnel CPO, Punjab, Chandigarh

[No. 11052/11/2003-AIS(II)-B]
G. C. PANDEY, Under Secy.

Note 1 : The Principal rules were published vide Gazette of India GSR No. 158 dated 14-9-1954. These were subsequently amended for Punjab Cadre of IPS vide GSR Nos :—

S.No.	GSR Numbers	Date
1.	1017	22-9-73
2.	814	12-6-76
3.	439E	3-7-76
4.	602E	25-10-80
5.	270	13-3-82
6.	834	4-10-86
7.	509	18-8-90
8.	412	19-9-92
9.	177	15-4-95
10.	216E	24-4-98

योजना आयोग

(राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग)

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2003

सा. का. नि. 434. — राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग में समूह “क”, समूह “ख”, समूह “ग” और समूह “घ” पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग (समूह “क”, “ख”, “ग” और “घ” पद) भर्ती नियम 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरहता.**—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श समूह “क” और “ख” पदों पर करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1. पद का नाम	: ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी
2. पदों की संख्या	: 1* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3. वर्गीकरण	: साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह “क”, राजपत्रित अनुसचिवीय
4. वेतनमान	: 10,000-325-15,200 रु.
5. चयन अथवा अचयन पद	: लागू नहीं होता
6. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	: लागू नहीं होता
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	: लागू नहीं होता
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	: लागू नहीं होता

9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए : लागू नहीं होता
विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
10. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो : लागू नहीं होता
11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता : प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।
12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।)
केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त संस्थाओं/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/कानूनी/स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी :—
(क) (i) जो मूल कांडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
(ii) जिन्होंने मूल कांडर/विभाग में 8,000-275-13,500 रु. या समतुल्य केतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; या
(iii) जिन्होंने मूल कांडर/विभाग में 6500-200-10,500 रु. या समतुल्य केतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की है; और
(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है :—
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जन सांख्यिकी विज्ञान के साथ सांख्यिकी में मास्टर डिग्री के या सांख्यिकी के साथ अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री या समतुल्य;
(ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या किसी सरकारी विभाग में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, समाज कल्याण, शैक्षिक योजना बनाने, ग्रामीण विकास, महिला और बाल विकास और जनसंख्या स्थिरीकरण के उपग्रहों से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के सांख्यिकी कार्य, अन्वेषण या अनुसंधान का पांच वर्ष का अनुभव।
[प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी]
13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना : लागू नहीं होता
14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
2. 1 : अवर सचिव
2 : 1* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3 : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अनुसचिवीय
4 : 10,000-325-15,200 रु.
5 : लागू नहीं होता
6 : लागू नहीं होता
7 : लागू नहीं होता

- 8 : लागू नहीं होता
- 9 : लागू नहीं होता
- 10 : लागू नहीं होता
- 11 : प्रतिनियुक्ति द्वारा
- 12 : प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो :—
- (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 8,000-275-13,500 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; या
- (iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 6500-200-10,500 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की है; और
- (ख) जिनके पास किसी स्वतंत्र कार्यालय/संगठनों, प्रशासन, स्थापन, लेखा/बजट, सम्मेलन आयोजित करने, सामान्य प्रशासन और अन्य प्रकीर्ण कृत्यों में पांच वर्ष का अनुभव।
- (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी;
- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने के अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)
- 13 : लागू नहीं होता।
- 14 : प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
3. 1 : प्रधान निजी सचिव
- 2 : 1* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
- 3 : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अनुसचिवीय।
- 4 : 10,000-325-15,200 रु.
- 5 : लागू नहीं होता
- 6 : लागू नहीं होता
- 7 : लागू नहीं होता
- 8 : लागू नहीं होता
- 9 : लागू नहीं होता
- 10 : लागू नहीं होता
- 11 : प्रतिनियुक्ति द्वारा
- 12 : प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :—
- (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 6500-200-10,500 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की है; और
- (ख) आशुलिपि में जिनकी 100 शब्द प्रति मिनट (अंग्रेजी/हिन्दी) गति है।
- (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने के अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

- 13 : लागू नहीं होता
- 14 : प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
4. 1 : अनुसंधान अधिकारी
- 2 : 1* (2003) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)
- 3 : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अनुसचिवीय।
- 4 : 8000-275-13,500 रु.
- 5 : लागू नहीं होता
- 6 : लागू नहीं होता
- 7 : लागू नहीं होता
- 8 : लागू नहीं होता
- 9 : लागू नहीं होता
- 10 : लागू नहीं होता
- 11 : प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)
- 12 : प्रतिनियुक्ति : (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)
- केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/कानूनी/स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :—
- (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 6500-200-10,500 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है :
- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जन सांख्यिकी विज्ञान के साथ सांख्यिकी में मास्टर डिग्री या सांख्यिकी के साथ अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री या समतुल्य;
- (ii) जन सांख्यिकी, सांख्यिकी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनसंख्या स्थिरीकरण उपायों से संबंधित कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव।
- (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने के अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।
- 13 : लागू नहीं होता
- 14 : प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
5. 1 : निजी सचिव
- 2 : 1* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
- 3 : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अनुसचिवीय।
- 4 : 6500-200-10,500 रु.
- 5 : लागू नहीं होता
- 6 : लागू नहीं होता

7 : लागू नहीं होता

8 : लागू नहीं होता

9 : लागू नहीं होता

10 : लागू नहीं होता

11 : प्रतिनियुक्ति द्वारा

12 : प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :—

(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5500-175-9000 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है; और

(ख) आशुलिपि में जिनकी 100 शब्द प्रति मिनट (अंग्रेजी/हिन्दी) गति है।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने के अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

13 : लागू नहीं होता

14 : संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

6. 1 : सहायक

2 : 1* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

3 : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह “क”, अराजपत्रित, अनुसचिवीय।

4 : 5500-175-9000 रु.

5 : लागू नहीं होता

6 : लागू नहीं होता

7 : लागू नहीं होता

8 : लागू नहीं होता

9 : लागू नहीं होता

10 : लागू नहीं होता

11 : प्रतिनियुक्ति द्वारा

12 : प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :—

(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5000-150-8000 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 4500-125-7000 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है; या

(iv) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 4000-100-6000 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की है; और

(ख) जिनके पास प्रशासन, लेखा/बजट और सामान्य प्रशासन में तीन वर्ष का अनुभव है।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने के अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

- 13 : लागू नहीं होता
- 14 : संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
7. 1 : वैयक्तिक सहायक
- 2 : 2* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
- 3 : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", अराजपत्रित, अनुसचिवीय।
- 4 : 5500-175-9000 रु.
- 5 : लागू नहीं होता
- 6 : लागू नहीं होता
- 7 : लागू नहीं होता
- 8 : लागू नहीं होता
- 9 : लागू नहीं होता
- 10 : लागू नहीं होता
- 11 : प्रतिनियुक्ति द्वारा
- 12 : प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :—
- (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पर धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5000-150-8000 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है; या
- (iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 4500-125-7000 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है; या
- (iv) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 4000-100-6000 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की है; और
- (ख) आशुलिपि में जिनकी (अंग्रेजी/हिन्दी) 100 शब्द प्रति मिनट गति है।
- (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने के अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)
- 13 : लागू नहीं होता।
- 14 : संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
8. 1 : कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक
- 2 : 1* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
- 3 : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", अराजपत्रित, अनुसचिवीय।
- 4 : 5,000-150-8,000 रु.
- 5 : लागू नहीं होता
- 6 : लागू नहीं होता
- 7 : लागू नहीं होता
- 8 : लागू नहीं होता
- 9 : लागू नहीं होता

10 : लागू नहीं होता

11 : प्रतिनियुक्ति द्वारा

12 : प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :—

(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 4,000-100-6,000 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 3,050-75-3,950-80-4,590 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और

(ख) जिसके पास डिग्री स्तर पर हिन्दी/अंग्रेजी अनिवार्य और वैकल्पिक विषय के साथ अंग्रेजी/हिन्दी में मास्टर की डिग्री हो; या हिन्दी और अंग्रेजी मुख्य विषय सहित (इस पद में अनिवार्य और वैकल्पिक सम्मिलित है) बैचलर डिग्री। हिन्दी से अंग्रेजी और विषयों अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा/प्रमाणपत्र या केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में हिन्दी से अंग्रेजी और विषयों अनुवाद करने का दो वर्ष का अनुभव।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने के अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13 : लागू नहीं होता।

14 : संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

9. 1 : उच्च श्रेणी लिपिक

2 : 2* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

3 : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अनुसचिवीय।

4 : 4,000-100-6,000 रु.

5 : लागू नहीं होता

6 : लागू नहीं होता

7 : लागू नहीं होता

8 : लागू नहीं होता

9 : लागू नहीं होता

10 : लागू नहीं होता

11 : प्रतिनियुक्ति द्वारा

12 : प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :—

(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) ऐसा अवर श्रेणी लिपिक जिसने मूल काडर/विभाग में 3,050-75-3,950-80-4,590 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और

(ख) जिन्हें प्रशासन, स्थापन, लेखाकार्य/बजट और सामान्य प्रशासन में अनुभव है।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने के अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

- 13 : लागू नहीं होता
- 14 : संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
10. 1 : आशुलिपिक श्रेणी "घ"
- 2 : 2* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
- 3 : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अनुसचिवीय।
- 4 : 4,000-100-6,000 रु.
- 5 : लागू नहीं होता
- 6 : लागू नहीं होता
- 7 : लागू नहीं होता
- 8 : लागू नहीं होता
- 9 : लागू नहीं होता
- 10 : लागू नहीं होता
- 11 : प्रतिनियुक्ति द्वारा।
- 12 : प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :—
- (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) ऐसा अवर श्रेणी लिपिक जिसने मूल काडर/विभाग में 3,050-75-3,950-80-4,590 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और
- (ख) जिनकी अंग्रेजी आशुलिपि में 80 शब्द और टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति है; या
- जिनकी हिन्दी आशुलिपि/हिन्दी टंकण में क्रमशः 80 शब्द प्रति मिनट की गति/25 शब्द प्रति मिनट की गति है।
- वांछनीय : कम्प्यूटर प्रचालन का ज्ञान।
- (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)
- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने के अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)
- 13 : लागू नहीं होता।
- 14 : संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
11. 1 : स्टाफ कार ड्राइवर
- 2 : 1* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
- 3 : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अनुसचिवीय।
- 4 : 3,050-75-3,950-80-4,590 रु.
- 5 : लागू नहीं होता
- 6 : लागू नहीं होता
- 7 : लागू नहीं होता
- 8 : लागू नहीं होता
- 9 : लागू नहीं होता
- 10 : लागू नहीं होता

- 11 : प्रतिनियुक्ति द्वारा।
- 12 : प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :—
- (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) मोटर कार चालन में उसकी सक्षमता के निर्धारण के लिए चालन परीक्षण के आधार पर केन्द्रीय सरकार के नियमित सवार हरकारा समूह “ग” और समूह “घ” कर्मचारी; और
- (ख) किसी मान्यताप्राप्त स्कूल से 8 वीं स्तर उत्तीर्ण और जो मोटर कार के लिए विधिमाम्य चालन अनुज्ञप्ति धारक हो, मोटर यंत्र क्रिया का ज्ञान और स्टाफ कार चलाने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव है।
- (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)
- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने के अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)
- 13 : लागू नहीं होता
- 14 : संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
12. 1 : चपरासी
- 2 : 3* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
- 3 : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह “घ”, अराजपत्रित, अनुसचिवीय।
- 4 : 2,550-55-2,660-60-3200 रु.
- 5 : लागू नहीं होता
- 6 : लागू नहीं होता
- 7 : लागू नहीं होता
- 8 : लागू नहीं होता
- 9 : लागू नहीं होता
- 10 : लागू नहीं होता
- 11 : प्रतिनियुक्ति द्वारा
- 12 : प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के अधीन ऐसा नियमित चपरासी जिसे एक वर्ष का अनुभव हो।
- (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)
- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने के अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)
- 13 : लागू नहीं होता।
- 14 : संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

PLANNING COMMISSION**(National Commission on Population)**

New Delhi, the 18th November, 2003

G.S.R. 434.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group A, Group B, Group C and Group D posts in the National Commission on Population, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Commission on Population (Groups 'A', 'B', 'C' and 'D' Posts) Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.—Method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in column 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification—No person.—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1. Name of Post	: Senior Research Officer
2. Number of post(s)	: 1* (2003) *(Subject to variation dependent on workload)
3. Classification	: General Central Service Group 'A' Gazetted Ministerial
4. Scale of pay	: Rs. 10,000-325-15,200.
5. Whether selection post or non-selection post	: Not applicable
6. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	: Not applicable
7. Age limit for direct recruits	: Not applicable
8. Educational and other qualifications required for direct recruits	: Not applicable
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	: Not applicable

10. Period of probation, if any : Not applicable
11. Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of posts to be filled by various methods : Deputation including short term contract
12. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made : **Deputation (including short term contract)**
Officers under the Central/State Governments/Union territories/Universities/Recognised Research Institutions/Public Sector Undertakings/Statutory/Autonomous Organisations :—
 (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre/ Department; or
 (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 or equivalent in the parent Cadre/Department; or
 (iii) with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 or equivalent in the parent Cadre/Department; and
 (b) possessing the following educational qualification and experience :—
 (i) Master's degree in Statistics with Demography or Master's degree in Economics with Statistics from a recognized University or Institute or equivalent.
 (ii) Five years experience in statistical work or investigation or research in recognised institutions or government departments in handling projects/ schemes relating to health and family welfare, social welfare, educational planning, rural development, women and child development and population stabilisation measures.
 [Period of deputation/contract including the period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications]
13. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition : Not applicable
14. Circumstances in which Union Public Service Commissions is to be consulted in making recruitment : Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.
2. 1 : Under Secretary
 2 : 1* (2003) *(subject to variation dependent on workload)
 3 : General Central Service Group 'A' Gazetted, Ministerial
 4 : Rs. 10,000-325-15,200
 5 : Not applicable
 6 : Not applicable
 7 : Not applicable
 8 : Not applicable

9 : Not applicable

10 : Not applicable

11 : Deputation

12 : **Deputation : Officers under the Central Government :—**

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department ; or

(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 or equivalent in the parent cadre/department; or

(iii) with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 or equivalent in the parent cadre/department; and

(b) Possessing five years experience in administration, establishment, accounts/budget, organising conferences, general administration and other miscellaneous functions of an independent office/organizations.

(Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications)

13 : Not applicable

14 : Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

3. 1 : Principal Private Secretary

2 : 1* (2003) *(subject to variation dependent on workload).

3 : General Central Service Group 'A' Gazetted Ministerial

4 : Rs. 10,000-325-15,200

5 : Not applicable

6 : Not applicable

7 : Not applicable

8 : Not applicable

9 : Not applicable

10 : Not applicable

11 : Deputation

12 : **Deputation : Officers under the Central Government :—**

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department ; or

(ii) with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 or equivalent in the parent cadre/department; and

(b) Possessing speed of Stenography 100 words per minute (English/Hindi).

(Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications)

13 : Not applicable

14 : Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

4. 1 : Research Officer
 2 : 1* (2003) *(subject to variation dependent on workload).
 3 : General Central Service Group 'A' Gazetted Ministerial
 4 : Rs. 8000-275-13500
 5 : Not applicable
 6 : Not applicable
 7 : Not applicable
 8 : Not applicable
 9 : Not applicable
 10 : Not applicable
 11 : Deputation including short term contract
 12 : **Deputation** : (including short term contract)
 Officers under the Central Government/State Governments/Union territories/Universities/Recognised Research Institutions/Public Sector Undertakings/Statutory/Autonomous Organisation :—
 (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department ; or
 (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 or equivalent in the parent cadre/department; and
 (b) Possessing the following educational qualification and experience :—
 (i) Master's degree in Statistics with Demography or Master's degree in Economics with Statistics from a recognised University/Institute or equivalent.
 (ii) Three years experience in handling projects/schemes relating to demography, statistics, health and family welfare and population stabilisation measures.
 [Period of deputation/contract including the period of deputation /contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications].
 13 : Not applicable
 14 : Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.
5. 1 : Private Secretary
 2 : 1* (2003) *(subject to variation dependent on workload)
 3 : General Central Service Group 'B' Gazetted Ministerial
 4 : Rs. 6500-200-10500
 5 : Not applicable
 6 : Not applicable
 7 : Not applicable
 8 : Not applicable
 9 : Not applicable
 10 : Not applicable
 11 : Deputation

12 : **Deputation : Officers under the Central Government :—**

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department : or
- (ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 5500-175-9000 or equivalent in the parent Cadre/Department; and
- (b) possessing speed of stenography 100 words per minute (English/Hindi).

(Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).

13 : Not applicable

14 : Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

6. 1 : Assistant

2 : 1* (2003) *(subject to variation dependent on workload)

3 : General Central Service Group 'B' Non-Gazetted Ministerial

4 : Rs. 5500-175-9000

5 : Not applicable

6 : Not applicable

7 : Not applicable

8 : Not applicable

9 : Not applicable

10 : Not applicable

11 : Deputation

12 : **Deputation : Officers under the Central Government :—**

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre/Department ; or
- (ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 5000-150-8000 or equivalent in the parent Cadre/Department; or
- (iii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 4500-125-7000 or equivalent in the parent Cadre/Department; or
- (iv) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 4000-100-6000 or equivalent in the parent Cadre/Department; and
- (b) possessing three years experience in administration, establishment, accounts/budget and general administration;

(Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).

13 : Not applicable

14 : Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

7. 1 : Personal Assistant
 2 : 2* (2003) *(subject to variation dependent on workload)
 3 : General Central Service Group 'B' Non-Gazetted Ministerial
 4 : Rs.5500-175-9000
 5 : Not applicable
 6 : Not applicable
 7 : Not applicable
 8 : Not applicable
 9 : Not applicable
 10 : Not applicable
 11 : Deputation
 12 : **Deputation : Officers under the Central Government :—**
 (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre/Department ; or
 (ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 5000-150-8000 or equivalent in the parent Cadre/Department; or
 (iii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 4500-125-7000 or equivalent in the parent Cadre/Department; or
 (iv) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 4000-100-6000 or equivalent in the parent Cadre/Department; and
 (b) possessing speed of stenography 100 words per minute (English/Hindi).
 (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).
 13 : Not applicable
 14 : Consultation with Union Public Service Commission not necessary.
8. 1 : Junior Hindi Translator
 2 : 1* (2003) *(subject to variation dependent on workload).
 3 : General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Ministerial
 4 : Rs. 5000-150-8000
 5 : Not applicable
 6 : Not applicable
 7 : Not applicable
 8 : Not applicable
 9 : Not applicable
 10 : Not applicable
 11 : Deputation

12 : **Deputation : Officers under the Central Government :—**

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre/Department ; or
- (ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 4000-100-6000 or equivalent in the parent Cadre/Department; or
- (iii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 3050-75-3950-80-4590 or equivalent in the parent Cadre/Department; or
- (b) possessing Master's degree in English/Hindi with Hindi/English as compulsory and elective subject at degree level; or

Bachelor's degree with Hindi and English as main subjects (which includes the term of compulsory and elective). A recognised Diploma/Certificate course in Translation from Hindi to English and vice versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice versa in the Central Government offices.

(Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).

13 : Not applicable

14 : Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

9. 1 : Upper Division Clerk

2 : 2* (2003) *(subject to variation dependent on workload)

3 : General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Ministerial

4 : Rs. 4000-100-6000

5 : Not applicable

6 : Not applicable

7 : Not applicable

8 : Not applicable

9 : Not applicable

10 : Not applicable

11 : Deputation

12 : **Deputation : Officers under the Central Government :—**

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre/Department ; or
- (ii) Lower Division Clerks with five years in the grade rendered after appointment thereto on regular service in the scale of pay of Rs. 3050-75-3950-80-4590 or equivalent in the parent Cadre/Department; and
- (b) experience in administration, establishment, accounts/budget and general administration.

(Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).

13 : Not applicable

14 : Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

10. 1 : Stenographer Grade 'D'
- 2 : 2* (2003) *(subject to variation dependent on workload)
- 3 : General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Ministerial
- 4 : Rs. 4000-100-6000
- 5 : Not applicable
- 6 : Not applicable
- 7 : Not applicable
- 8 : Not applicable
- 9 : Not applicable
- 10 : Not applicable
- 11 : Deputation
- 12 : **Deputation : Officers under the Central Government :—**
- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre/Department ; or
- (ii) Lower Division Clerks with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 3050-75-3950-80-4590 or equivalent in the parent Cadre/Department; and
- (b) possessing speed of 80 words per minute/speed of 30 words per minute in English shorthand/English typing;
- OR
- possessing speed of 80 words per minute/speed of 25 words per minute in Hindi shorthand/Hindi typing.
- Desirable : Knowledge of computer operation
- (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).
- 13 : Not applicable
- 14 : Consultation with Union Public Service Commission not necessary.
11. 1 : Staff Car Driver
- 2 : 1* (2003) *(subject to variation dependent on workload)
- 3 : General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Ministerial
- 4 : Rs. 3050-75-3950-80-4590
- 5 : Not applicable
- 6 : Not applicable
- 7 : Not applicable
- 8 : Not applicable
- 9 : Not applicable
- 10 : Not applicable
- 11 : Deputation

12 : **Deputation : Officers under the Central Government :—**

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre/Department ; or
- (ii) Regular Despatch Riders (Group C) and Group 'D' employees of the Central Government on the basis of driving test to assess their competence to drive motor cars; and
- (b) pass in 8th Standard from any recognised school and possession of a valid driving licence for motor cars, knowledge of motor mechanism and experience of driving staff car for at least two years.

(Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).

13 : Not applicable

14 : Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

12. 1 : Peon

2 : 3* (2003) *(subject to variation dependent on workload)

3 : General Central Service Group 'D' Non-Gazetted Ministerial

4 : Rs. 2550-55-2660-60-3200

5 : Not applicable

6 : Not applicable

7 : Not applicable

8 : Not applicable

9 : Not applicable

10 : Not applicable

11 : Deputation

12 : **Deputation :**

Regular Peons under the Central Ministries or Departments with an experience of one year.

(Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).

13 : Not applicable

14 : Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-12023/5/2002-NCP]

R. K. PARMAR, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2003

सा. का. नि. 435.—संघपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की विभागीय कैन्टीन में समूह "ग" और समूह "घ" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, विभागीय कैन्टीन, समूह "ग" और समूह "घ" पद भर्ती नियम 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ I में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. उक्त अनुसूची में उल्लिखित पदों के पदधारियों जो कार्यालय आदेश सं. 12034/3/92-प्रशा. II, दिनांक 02 अप्रैल, 1992 द्वारा सरकारी सेवक घोषित किए गए थे, के इन नियमों के अधीन नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और उनके द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उच्चतर पद पर प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए गणना में ली जाएगी।

6. निरर्हता : वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1. पद का नाम	: महाप्रबंधक
2. पदों की संख्या	: 1* (2003) *अकानूनी कैन्टीन प्रवर्ग कार्य के आधार पर परिवर्तन किए जाने के अध्वधीन रहते हुए आगे इस उपबंध के साथ कि भर्ती कर्मचारिषुद पैटर्न/प्राधिकृत से अधिक नहीं होगी।
3. वर्गीकरण	: साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित अन्नसचिवीय और गैर तकनीकी
4. वेतनमान	: 5000-150-8000 रु.#

#ऐसा महाप्रबंधक जो 2क से अधिक प्रकार के कैन्टीन समूह का भार साधक है अपने वेतन के अतिरिक्त 175 रुपए निश्चित की गई मासिक राशि विशेष भत्ते के रूप में प्राप्त करने के लिए अनुज्ञेय होगा और जो 4 क से अधिक प्रकार के कैन्टीन समूहों का भारसाधक है वह 350 रुपए प्रतिमास विशेष भत्ते के रूप में प्राप्त करने के लिए अनुज्ञेय होगा।

5. चयन अथवा अचयन पद : चयन-सह-ज्येष्ठता
6. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं : नहीं
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा : लागू नहीं होता
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं : लागू नहीं होता
9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं : नहीं
10. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो : कुछ नहीं
11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता : प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेदन किया जाएगा : प्रोन्नति—ऐसा उप महाप्रबंधक या लेखाकार जिसने 4000-100-6000 रु. की श्रेणी में कम से कम 8 (आठ) वर्ष नियमित सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति : (क) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो अन्य कैन्टीन में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; या

(ख) ऐसा उप महाप्रबंधक श्रेणी-2 या लेखाकार जिसने 4000-100-6000 रु. की श्रेणी में कम से कम 8 (आठ) वर्ष नियमित सेवा की है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर से बाहर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना : समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए) जिसमें निम्न होंगे—

1. निदेशक या उप सचिव (प्र.), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय—अध्यक्ष
2. अवर सचिव (प्र.), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय—सदस्य
3. अवर सचिव (प्र.), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय—सदस्य

14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : लागू नहीं होता।

2. 1 : उप महाप्रबंधक
- 2 : 1* (2003) *अकानूनी कैन्टीन प्रवर्ग कार्य के आधार पर परिवर्तन किए जाने के अध्यक्षीन रहते हुए आगे इस उपबंध के साथ कि भर्ती कर्मचारिवृंद पैटर्न/प्राधिकृत से अधिक नहीं होगी।
- 3 : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित अनुसूचित्वीय और गैर तकनीकी
- 4 : 4000-100-6000 रु.#

#ऐसा उप महाप्रबंधक, जो 2क से अधिक प्रकार के कैन्टीन समूह का भार साधक है अपने वेतन के अतिरिक्त 150 रुपए निश्चित की गई मासिक राशि विशेष भत्ते के रूप में प्राप्त करने के लिए अनुज्ञेय होगा और जो 4 क से अधिक प्रकार के कैन्टीन समूहों का भारसाधक है वह 300 रुपए प्रतिमास विशेष भत्ते के रूप में प्राप्त करने के लिए अनुज्ञेय होगा।

- 5 : चयन-सह-ज्येष्ठता
- 6 : नहीं
- 7 : लागू नहीं होता
- 8 : लागू नहीं होता
- 9 : नहीं
- 10 : कुछ नहीं
- 11 : प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
- 12 : प्रोन्नति—ऐसा रोकड़िया या भंडारपाल जिसने 3200-85-4900 रु. की श्रेणी में कम से कम छह वर्ष नियमित सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति : (क) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो अन्य कैन्टीन में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; या (ख) ऐसा रोकड़िया या भंडारपाल जिसने 3200-85-4900 रु. की श्रेणी में कम से कम छह वर्ष नियमित सेवा की है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर से बाहर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13. : समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए) जिसमें निम्न होंगे—

1. निदेशक या उप सचिव (प्र.), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय—अध्यक्ष
2. अवर सचिव (प्र.), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय—सदस्य
3. अवर सचिव (प्र.), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय—सदस्य

- 14 : लागू नहीं होता।

3. 1 : लेखाकार

- 2 : 1* (2003) *अकानूनी कैन्टीन प्रवर्ग कार्य के आधार पर परिवर्तन किए जाने के अध्यक्षीन रहते हुए आगे इस उपबंध के साथ कि भर्ती कर्मचारिवृंद पैटर्न/प्राधिकृत से अधिक नहीं होगी।

- 3 : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अननुसचिवीय और गैर तकनीकी

- 4 : 4000-100-6000 रु. #

#ऐसा लेखाकार, जो 2क से अधिक प्रकार के कैन्टीन समूह का भार साधक है अपने वेतन के अतिरिक्त 150 रुपए निश्चित की गई मासिक राशि विशेष भत्ते के रूप में प्राप्त करने के लिए अनुज्ञेय होगा और जो 4 क से अधिक प्रकार के कैन्टीन समूहों का भारसाधक है वह 300 रुपए प्रतिमास विशेष भत्ते के रूप में प्राप्त करने के लिए अनुज्ञेय होगा।

- 5 : चयन-सह-ज्येष्ठता

- 6 : नहीं

- 7 : न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष।

टिप्पण—यदि पद डीओपी और टी की अधिसूचना सं. 15012/6/98-स्था.(डी), दिनांक 21-12-1998 के निबंधनों के अनुसार सीधी खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा की पद्धति से भरे जाने की दशा में ऊपरी आयु सीमा दो वर्ष बढ़ी हुई अर्थात् 27 वर्ष होगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।

टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

- 8 : (क) बी. कॉम और (ख) लेखा में तीन वर्ष का अनुभव
- 9 : नहीं
- 10 : सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत अधिकारियों की दशा में शून्य।
- 11 : प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
- 12 : प्रोन्नति—ऐसा रोकड़िया या भंडारपाल जिसने 3200-85-4900 रु. की श्रेणी में कम से कम छह वर्ष नियमित सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति : (क) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो अन्य कैन्टीन में नियमित आधार पर सदस्य पद धारण किए हुए हैं; या (ख) ऐसा रोकड़िया या भंडारपाल जिसने 3200-85-4900 रु. की श्रेणी में कम से कम छह वर्ष नियमित सेवा की है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर से बाहर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

- 13 : समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए) जिसमें निम्न होंगे—

1. निदेशक या उप सचिव (प्र.), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय—अध्यक्ष
2. अवर सचिव (प्र.), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय—सदस्य
3. अवर सचिव (प्र.), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय—सदस्य

- 14 : लागू नहीं होता।

4. 1 : भंडारी

- 2 : 1* (2003) *अकानूनी कैन्टीन प्रवर्ग कार्य के आधार पर परिवर्तन किए जाने के अध्यधीन रहते हुए आगे इस उपबंध के साथ कि भर्ती कर्मचारिखुद पैटर्न/प्राधिकृत से अधिक नहीं होगी।
- 3 : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अंराजपत्रित, अनुसचिवीय और गैर तकनीकी
- 4 : 3200-85-4900 रु.#

#ऐसा भंडारी, जो 2क से अधिक प्रकार के कैन्टीन समूह का भार साधक है अपने वेतन के अतिरिक्त 125 रुपए निश्चित की गई मासिक राशि विशेष भत्ते के रूप में प्राप्त करने के लिए अनुज्ञेय होगा और जो 4 क से अधिक प्रकार के कैन्टीन समूहों का भारसाधक है वह 300 रुपए प्रतिमास विशेष भत्ते के रूप में प्राप्त करने के लिए अनुज्ञेय होगा।

- 5 : चयन-सह-ज्येष्ठता
- 6 : लागू नहीं होता
- 7 : न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष

टिप्पण—यदि पद डीओपी और टी की अधिसूचना सं. 15012/6/98-स्था.(डी), दिनांक 21-12-1998 के निबंधनों के अनुसार सीधी खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा की पद्धति से भरे जाने की दशा में ऊपरी आयु सीमा दो वर्ष बढ़ी हुई अर्थात् 27 वर्ष होगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।

टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं।)

टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

- 8 : (क) बही खाता रखने या भंडार रखने में एक वर्षीय डिप्लोमा सहित मेट्रिकुलेशन या समतुल्य
(ख) तीन वर्ष का अनुभव।
- 9 : नहीं
- 10 : सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत अधिकारियों की दशा में शून्य।
- 11 : प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
- 12 : प्रोन्नति—ऐसा लिपिक जिसने 3050-75-3950-80-4590 रु. की श्रेणी में कम से कम चार वर्ष नियमित सेवा की है।
प्रतिनियुक्ति : (क) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो अन्य कैन्टीन में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; या
(ख) ऐसा लिपिक जिसने 3050-75-3950-80-4590 रु. की श्रेणी में कम से कम चार वर्ष नियमित सेवा की है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर से बाहर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)
- 13 : समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए) जिसमें निम्न होंगे—
1. निदेशक या उप सचिव (प्र.), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय—अध्यक्ष
2. अवर सचिव (प्र.), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय—सदस्य
3. अवर सचिव (प्र.), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय—सदस्य
- 14 : लागू नहीं होता।
5. 1 : रोकड़िया
2 : 1* (2003) *अकानूनी कैन्टीन प्रवर्ग कार्य के आधार पर परिवर्तन किए जाने के अध्यधीन रहते हुए आगे इस उपबंध के साथ कि भर्ती कर्मचारियों के पैटर्न/प्राधिकृत से अधिक नहीं होगी।
3 : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अननुसन्धित और गैर-तकनीकी
4 : 3200-85-4900 रु.##
##ऐसा रोकड़िया, जो 2क से अधिक प्रकार के कैन्टीन समूह का भारसाधक है अपने वेतन के अतिरिक्त 125 रुपये निश्चित की गई मासिक राशि विशेष भत्ते के रूप में प्राप्त करने के लिए अनुज्ञेय होगा और जो 4 क से अधिक प्रकार के कैन्टीन समूहों का भारसाधक है वह 250 रुपये प्रतिमास विशेष भत्ते के रूप में प्राप्त करने के लिए अनुज्ञेय होगा।
- 5 : चयन-सह-ज्येष्ठता
6 : नहीं
7 : न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष
टिप्पण—यदि पद डीओपी और टी की अधिसूचना सं. 15012/6/98-स्था. (डी), दिनांक 21-12-1998 के निबंधनों के अनुसार सीधी खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा की पद्धति से भरे जाने की दशा में ऊपरी आयु-सीमा दो वर्ष बढ़ी हुई अर्थात् 27 वर्ष होगी।
केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।
टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
- 8 : (क) बही खाता रखने या भंडार रखने में एक वर्षीय डिप्लोमा सहित मेट्रिकुलेशन या समतुल्य
(ख) तीन वर्ष का अनुभव।

- 9 : नहीं
- 10 : सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत अधिकारियों की दशा में शून्य।
- 11 : प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।
- 12 : प्रोन्नति—ऐसा लिपिक जिसने 3050-75-3950-80-4590 रु. की श्रेणी में कम से कम चार वर्ष नियमित सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति : (क) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो अन्य कैन्टीन में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; या (ख) ऐसा लिपिक जिसने 3050-75-3950-80-4590 रु. की श्रेणी में कम से कम चार वर्ष नियमित सेवा की है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर से बाहर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

- 13 : समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए) जिसमें निम्न होंगे—

1. निदेशक या उप सचिव (प्र.), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय—अध्यक्ष
2. अवर सचिव (प्र.), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय—सदस्य
3. अवर सचिव (प्र.), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय—सदस्य

- 14 : लागू नहीं होता।

6. 1 : हलवाई

- 2 : 3* (2003) *अकानूनी कैन्टीन प्रवर्ग कार्य के आधार पर परिवर्तन किए जाने के अध्यक्षीन रहते हुए आगे इस उपबंध के साथ कि भर्ती कर्मचारिवृद्ध पैटर्न/प्राधिकृत से अधिक नहीं होगी।

- 3 : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अनुसूचित और गैर-तकनीकी

- 4 : 3200-85-4900 रु.

- 5 : चयन-सह-ज्येष्ठता

- 6 : नहीं

- 7 : न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष

टिप्पण—यदि पद डीओपी और टी की अधिसूचना सं. 15012/6/98-स्था.(डी), दिनांक 21-12-1998 के निबंधनों के अनुसार सीधी खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा की पद्धति से भरे जाने की दशा में ऊपरी आयु-सीमा दो वर्ष बढ़ी हुई अर्थात् 27 वर्ष होगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।

टिप्पण : रोजगार कार्यालयों के आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

- 8 : (क) आठवीं स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य

(ख) मिठाई और नमकीन भोज्य पदार्थों को तैयार करने का दो वर्ष का अनुभव

- 9 : नहीं

- 10 : सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत अधिकारियों की दशा में शून्य

- 11 : प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

- 12 : प्रोन्नति—ऐसा रसोइया या सहायक हलवाई जिसने 3050-75-3950-80-4590 रु. की श्रेणी में कम से कम पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति : (क) केन्द्रीय सरकार के अन्य कैन्टीन से ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; या

(ख) ऐसा रसोइया या सहायक हलवाई जिसने 3050-75-3950-80-4590 रु. की श्रेणी में कम से कम पांच वर्ष नियमित सेवा की है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर से बाहर

पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13. : समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए) जिसमें निम्न होंगे—

1. निदेशक या उप सचिव (प्र.), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय—अध्यक्ष
2. अवर सचिव (प्र.), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय—सदस्य
3. अवर सचिव (प्र.), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय—सदस्य

14. : लागू नहीं होता।

7. 1 : लिपिक (कूपन, रसोई, कार्यालय और सामान्य ड्यूटी)

2 : $6 * (2003) + 3$ (रिजर्व लिपिक) *अकानूनी कैन्टीन प्रवर्ग कार्य के आधार पर परिवर्तन किए जाने के अध्यक्षीन रहते हुए आगे इस उपबंध के साथ की भर्ती कर्मचारिवृंद पैटर्न/प्राधिकृत से अधिक नहीं होगी।

3 : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अननुसूचित और गैर-तकनीकी

4 : 3050-75-3950-80-4590 रु.

5 : चयन-सह-ज्येष्ठता

6 : नहीं

7 : न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष

टिप्पण—यदि पद डीओपी और टी की अधिसूचना सं. 15012/6/98-स्था.(डी), दिनांक 21-12-1998 के निबंधनों के अनुसार सीधी खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा की पद्धति से भरे जाने की दशा में ऊपरी आयु-सीमा दो वर्ष बढ़ी हुई अर्थात् 27 वर्ष होगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।

टिप्पण : रोजगार कार्यालयों के आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8 : आवश्यक : (क) किसी मान्यताप्राप्त स्कूल से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य परीक्षा और

(ख) लेखा और भंडार के अनुरक्षण का एक वर्ष का अनुभव

9 : आयु—नहीं। शैक्षिक अर्हता—हां।

10 : सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत अधिकारियों की दशा में शून्य।

11 : (i) 50 प्रतिशत पद मैट्रिकुलेट व्यक्तियों की सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे।

(ii) 50 प्रतिशत पद केवल ऐसे बेयरा और चाय/काँफी बनाने वालों की प्रोन्नति द्वारा जो मैट्रिकुलेट हैं जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाएंगे।

12 : प्रोन्नति—ऐसा चाय या काँफी बनाने वाले या बेयरा जिसने 2610-60-3150-65-3540 रु. की श्रेणी में कम से कम छह वर्ष नियमित सेवा की है और जिसके पास मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता है।

प्रतिनियुक्ति : (क) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; या

(i) ऐसा चाय या काँफी बनाने वाला या बेयरा जिसने 2610-60-3150-65-3540 रु. की श्रेणी में कम से कम छह वर्ष नियमित सेवा की है।

(ख) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ 8 के अधीन विहित अर्हताएं और अनुभव हैं, या ऐसा रसोइया या सहायक हलवाई जिसने 3050-75-80-4590 रु. की श्रेणी में कम से कम 5 वर्ष नियमित सेवा की है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर से बाहर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13. : समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए) जिसमें निम्न होंगे—

1. निदेशक या उप सचिव (प्र.), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय—अध्यक्ष
2. अवर सचिव (प्र.), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय—सदस्य
3. अवर सचिव (प्र.), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय—सदस्य

14 : लागू नहीं होता।

8. 1 : रसोईया

2 : 3* (2003) *अकानूनी कैन्टीन प्रवर्ग कार्य के आधार पर परिवर्तन किए जाने के अध्यक्षीन रहते हुए आगे इस उपबंध के साथ की भर्ती कर्मचारिचुंद पैटर्न/प्राधिकृत से अधिक नहीं होगी।

3 : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अननुसूचित और गैर-तकनीकी

4 : 3050-75-3950-80-4590 रु.

5 : चयन-सह-ज्येष्ठता

6 : नहीं

7 : न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष

टिप्पण—यदि पद डीओपी और टी की अधिसूचना सं. 15012/6/98-स्था. (डी), दिनांक 21-12-1998 के निबंधनों के अनुसार सीधी खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा की पद्धति से भरे जाने की दशा में ऊपरी आयु-सीमा दो वर्ष बढ़ी हुई अर्थात् 27 वर्ष होगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।

टिप्पण : रोजगार कार्यालयों के आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8 : (क) किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से आठवीं स्तर उत्तीर्ण और

(ख) मिठाई और नमकीन भोज्य पदार्थों को तैयार करने का दो वर्ष का अनुभव।

(ग) इन पदों को भरने के लिए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों प्रोन्नत/प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के लिए व्यवसाय परीक्षण विहित किया जाएगा।

9 : नहीं

10 : सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत अधिकारियों की दशा में शून्य।

11 : (i) 75 प्रतिशत बेयरा और चाय/काँफी बनाने वालों को प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा।

(ii) 25 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिनके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

12. : प्रोन्नति—ऐसा चाय या काँफी बनाने वाले या बेयरा जिसने 2610-60-3150-65-3540 रु. की श्रेणी में कम से कम छह वर्ष नियमित सेवा की है और हेल्पर से हलवाई के रूप में एक वर्ष का अनुभव।

प्रतिनियुक्ति : (क) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सर्वसुख्य पद धारण किए हुए हैं; या

(ख) ऐसा चाय या काँफी बनाने वाला या बेयरा जिसने 2610-60-3150-65-3540 रु. की श्रेणी में कम से कम छह वर्ष नियमित सेवा की है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर से बाहर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13 : समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए) जिसमें निम्न होंगे—

1. निदेशक या उप सचिव (प्र.), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय—अध्यक्ष
2. अवर सचिव (प्र.), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय—सदस्य

3. अवर सचिव (प्र.), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय—सदस्य

14 : लागू नहीं होता।

9. 1 : सहायक हलवाई

2 : 3* (2003) *अकानूनी कैन्टीन प्रवर्ग कार्य के आधार पर परिवर्तन किए जाने के अध्यक्षीन रहते हुए आगे इस उपबंध के साथ कि भर्ती कर्मचारिवृंद पैटर्न/प्राधिकृत से अधिक नहीं होगी।

3 : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित अननुसूचीय और गैर-तकनीकी

4 : 3050-75-3950-80-4590 रु.

5 : चयन-सह-प्रेक्षता

6 : नहीं

7 : न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष

टिप्पण—यदि पद डीओपी और टी की अधिसूचना सं. 15012/6/98-स्था.(डी), दिनांक 21-12-1998 के निबंधनों के अनुसार सीधी खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा की पद्धति से भरे जाने की दशा में ऊपरी आयु सीमा दो वर्ष बढ़ी हुई अर्थात् 27 वर्ष होगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।

टिप्पण : रोजगार कार्यालयों के आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8 : (क) किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से आठवीं स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य और

(ख) मिठाई और नमकीन भोज्य पदार्थों को तैयार करने का एक वर्ष का अनुभव

(ग) इन पदों को भरने के लिए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों प्रोन्नत/प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के लिए व्यवसाय परीक्षण विहित किया जाएगा।

9 : नहीं

10 : सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत अधिकारियों की दशा में शून्य

11 : (i) 75 प्रतिशत बेयरा और चाय/काँफी बनाने वालों को प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा; और

(ii) 25 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा जिनके न हो सकने पर प्रतिनियुक्त सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे। सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और इस पद पर प्रोन्नत किए गए व्यक्तियों के लिए एक व्यवसाय परीक्षण विहित किया जाएगा।

12 : प्रोन्नति—ऐसा चाय या काँफी बनाने वाला हलवाई जिसने 2610-60-3150-65-3540 रु. की श्रेणी में कम से कम छह वर्ष नियमित सेवा की है और हेल्पर से हलवाई के रूप में एक वर्ष का अनुभव।

प्रतिनियुक्ति : (क) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; या

(ख) ऐसा चाय या काँफी बनाने वाला या बेयरा जिसने 2610-60-3150-65-3540 रु. की श्रेणी में कम से कम छह वर्ष नियमित सेवा की है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काहर से बाहर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13 : समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए) जिसमें निम्न होंगे—

1. निदेशक या उप सचिव (प्र.), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय—अध्यक्ष

2. अवर सचिव (प्र.), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय—सदस्य

3. अवर सचिव (प्र.), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय—सदस्य

- 14 : लागू नहीं होता।
10. 1 : चाय/काफी बनाने वाला
- 2 : 3* (2003) *अकानूनी कैन्टीन प्रवर्ग कार्य के आधार पर परिवर्तन किए जाने के अध्यक्षीन रहते हुए आगे इस उपबंध के साथ कि भर्ती कर्मचारिवृंद पैटर्न/प्राधिकृत से अधिक नहीं होगी।
- 3 : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "घ", अराजपत्रित अननुसचिवीय और गैर-तकनीकी
- 4 : 2610-60-3150-65-3540 रु.
- 5 : चयन-सह-ज्येष्ठता
- 6 : नहीं
- 7 : न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष
- टिप्पण**—यदि पद डीओपी और टी की अधिसूचना सं. 15012/6/98-स्था.(डी), दिनांक 21-12-1998 के निबंधनों के अनुसार सीधी खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा की पद्धति से भरे जाने की दशा में ऊपरी आयु-सीमा दो वर्ष बढ़ी हुई अर्थात् 27 वर्ष होगी।
- केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।
- टिप्पण** : रोजगार कार्यालयों के आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
- 8 : (क) किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से आठवीं स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य
(ख) चाय/काफी बनाने में सक्षम होना चाहिए।
- 9 : नहीं
- 10 : सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत अधिकारियों की दशा में शून्य।
- 11 : प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।
- 12 : प्रोन्नति—ऐसा वाश ब्याय या सफाई कर्मचारी जिसने 2550-55-2660-60-3200 रु. की श्रेणी में कम से कम दो वर्ष नियमित सेवा की है।
- प्रतिनियुक्ति** : (क) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; या
(ख) ऐसा वाश ब्याय या सफाई कर्मचारी जिसने 2550-55-2660-60-3200 रु. की श्रेणी में कम से कम दो वर्ष नियमित सेवा की है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर से बाहर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)
- 13 : समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए) जिसमें निम्न होंगे—
1. अवर सचिव (प्र.), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय—अध्यक्ष
 2. अनुभाग अधिकारी (प्रशा. II), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय—सदस्य
 3. अनुभाग अधिकारी (प्रशा. II), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय—सदस्य
- 14 : लागू नहीं होता।
11. 1 : बेयरा
- 2 : 21* (2003) *अकानूनी कैन्टीन प्रवर्ग कार्य के आधार पर परिवर्तन किए जाने के अध्यक्षीन रहते हुए आगे इस उपबंध के साथ कि भर्ती कर्मचारिवृंद पैटर्न/प्राधिकृत से अधिक नहीं होगी।
- 3 : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "घ", अराजपत्रित अननुसचिवीय और गैर-तकनीकी
- 4 : 2610-60-3150-65-3540 रु.

5 : चयन-सह-ज्येष्ठता

6 : नहीं

7 : न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष

टिप्पण—यदि पद डीओपी और टी की अधिसूचना सं. 15012/6/98-स्था.(डी), दिनांक 21-12-1998 के निबंधनों के अनुसार सीधी खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा की पद्धति से भरे जाने की दशा में ऊपरी आयु-सीमा दो वर्ष बढ़ी हुई अर्थात् 27 वर्ष होगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।

टिप्पण : रोजगार कार्यालयों के आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8 : (क) किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से आठवीं स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य और

(ख) बेयरा या हेल्पर के रूप में छह महीने का अनुभव।

9 : नहीं

10 : सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत अधिकारियों की दशा में शून्य

11 : (i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और

(ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

12 : प्रोन्नति—ऐसा वाश ब्वाय या सफाई कर्मचारी जिसने 2550-55-2660-60-3200 रु. की श्रेणी में कम से कम दो वर्ष नियमित सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति : (क) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; या

(ख) ऐसा वाश ब्वाय या सफाई कर्मचारी जिसने 2550-55-2660-60-3200 रु. की श्रेणी में कम से कम दो वर्ष नियमित सेवा की है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर से बाहर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13 : समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए) जिसमें निम्न होंगे—

1. अवर सचिव (प्र.), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय—अध्यक्ष

2. अनुभाग अधिकारी (प्रशा. II), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय—सदस्य

3. अनुभाग अधिकारी (प्रशा. II), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय—सदस्य

14 : लागू नहीं होता।

12. 1 : वाश ब्वाय

2 : 6* (2003) *अकानूनी कैन्टीन प्रवर्ग कार्य के आधार पर परिवर्तन किए जाने के अध्यधीन रहते हुए आगे इस उपबंध के साथ कि भर्ती कर्मचारिवृंद पैटर्न/प्राधिकृत से अधिक नहीं होगी।

3 : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "घ", अराजपत्रित अननुसचिवीय और गैर-तकनीकी

4 : 2550-55-2660-60-3200 रु.

5 : लागू नहीं होता

6 : नहीं

7 : न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष

टिप्पण—यदि पद डीओपी और टी की अधिसूचना सं. 15012/6/98-स्था.(डी), दिनांक 21-12-1998 के निबंधनों के अनुसार सीधी खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा की पद्धति से भरे जाने की दशा में ऊपरी आयु-सीमा दो वर्ष बढ़ी हुई अर्थात् 27 वर्ष होगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।

टिप्पण : रोजगार कार्यालयों के आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

- 8 : (क) किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से पांचवीं स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य
 - 9 : नहीं
 - 10 : दो वर्ष
 - 11 : सीधी भर्ती द्वारा
 - 12 : लागू नहीं होता
 - 13 : लागू नहीं होता
 - 14 : लागू नहीं होता।
13. 1 : सफाई कर्मचारी
- 2 : 3* (2003) *अकानूनी कैन्टीन प्रवर्ग कार्य के आधार पर परिवर्तन किए जाने के अध्वधीन रहते हुए आगे इस उपबंध के साथ कि भर्ती कर्मचारिवृंद पैटर्न/प्राधिकृत से अधिक नहीं होगी।
 - 3 : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "च", अराजपत्रित अननुसचिबीय और गैर-तकनीकी।
 - 4 : 2550-55-2660-60-3200 रु.
 - 5 : लागू नहीं होता
 - 6 : नहीं
 - 7 : न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष

टिप्पण—यदि पद डीओपी और टी की अधिसूचना सं. 15012/6/98-स्था.(डी), दिनांक 21-12-1998 के निबंधनों के अनुसार सीधी खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा की पद्धति से भरे जाने की दशा में ऊपरी आयु-सीमा दो वर्ष बढ़ी हुई अर्थात् 27 वर्ष होगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।

टिप्पण : रोजगार कार्यालयों के आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

- 8 : (क) किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से पांचवीं स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य
- 9 : नहीं
- 10 : दो वर्ष
- 11 : सीधी भर्ती द्वारा
- 12 : लागू नहीं होता
- 13 : लागू नहीं होता
- 14 : लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/3/2000-प्रशा. II]

एस. एल. नेगी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Expenditure)**

New Delhi, the 27th November, 2003

G.S.R. 435.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' and Group 'D' posts in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, Departmental Canteen, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Finance, Departmental Canteen, Group 'C' and Group 'D' posts Recruitment Rules, 2003.

(2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of post, classification and scale of pay.—The number of said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

5. Initial constitution.—The incumbents of the posts mentioned in the said Schedule who were declared as Government servants vide Office Order No. 12034/3/92-Ad. II dated 2nd April, 1992 shall be deemed to have been appointed under these rules and the services rendered by them on regular basis shall be taken into account for the purpose of promotion to the higher post.

6. Disqualification—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1. Name of Post	: General Manager
2. Number of post	: 1* (2003) *Subject to variation dependent on category of non-statutory canteen/workload with the further provision that recruitment will not exceed the prescribed staffing pattern/authorization.
3. Classification	: General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial and Non-Technical
4. Scale of pay	: Rs. 5000-150-8000# #General Manager having under his charge a group of more than 2A Type Canteens will in addition to his pay be allowed a fixed monthly amount as special allowance @Rs. 175 and on having a group of more than 4A Type Canteen under his charge will be allowed special allowance @Rs. 350.
5. Whether selection or non-selection post	: Selection-cum-seniority

6. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 : No
 7. Age limit for direct recruits : Not applicable
 8. Educational and other qualifications required for direct recruits : Not applicable
 9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees : No
 10. Period of probation, if any : Nil
 11. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of the posts to be filled by various method : Promotion failing which by deputation
 12. In case of recruitment by promotion/ deputation, grades from which promotion/deputation to be made : **Promotion :**
Deputy General Manager and Accountant with atleast 8 (eight) years regular service in the grade of Rs. 4000-100-6000.
On deputation :
(a) Officers of the Central Government holding analogous posts on regular basis from other Canteens, or
(b) Dy. General Manager Grade-II and Accountant with atleast 8 years regular service in the grade of Rs. 4000-100-6000.
(The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for deputation is 56 years as on closing date of receipt of applications.
 13. If a DPC exists, what is its composition : **Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) consisting of :—**
1. Director or Deputy Secretary (A), Department of Expenditure, Ministry of Finance—Chairman
2. Under Secretary (A) Department of Expenditure, Ministry of Finance—Member
3. Under Secretary (A) Department of Revenue, Ministry of Finance—Member
 14. Circumstances in which UPSC is to be consulting in making recruitment : Not applicable
2. 1 : Dy. General Manager
 - 2 : 1* (2003) *Subject to variation dependent on category of non-statutory canteen/workload with the further provision that recruitment will not exceed the prescribed staffing pattern/authorization.
 - 3 : General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial and Non-Technical
 - 4 : Rs. 4000-100-6000 #. #Dy. General Manager having under his charge a group of more than 2A Type Canteens will in addition to his pay be allowed a fixed monthly amount as special allowance @Rs. 150 and on having a group of more than 4A Type Canteen under his charge will be allowed special allowance @Rs. 300.

- 5 : Selection-cum-Seniority
- 6 : No
- 7 : Not applicable
- 8 : Not applicable
- 9 : No
- 10 : Nil
- 11 : Promotion failing which by deputation
- 12 : **Promotion :—**

Cashier or Store Keeper with at least six years regular services in the grade of Rs. 3200-85-4900.

On deputation :—

- (a) Officers of the Central Government holding analogous posts on regular basis from other Canteens, or
- (b) Cashier or Store Keeper with at least 6 years regular service in the grade of Rs. 3200-85-4900

(The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for deputation is 56 years as on closing date of receipt of applications.

- 13 : Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) consisting of :—

1. Director of Deputy Secretary (A), Department of Expenditure, Ministry of Finance —Chairman
2. Under Secretary (A) Department of Expenditure, Ministry of Finance—Member
3. Under Secretary (A) Department of Revenue, Ministry of Finance—Member

- 14 : Not applicable

- 1 : Accountant

- 2 : 1* (2003) *Subject to variation dependent on category of non-statutory canteen/workload with the further provision that recruitment will not exceed the prescribed staffing pattern/authorization.

- 3 : General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial and Non-Technical

- 4 : Rs. 4000-100-6000 #. #Dy. Accountant having under his charge a group of more than 2A Type Canteens will in addition to his pay be allowed a fixed monthly amount as special allowance @Rs. 150 and on having a group of more than 4A Type Canteens under his charge will be allowed special allowance @Rs. 300.

- 5 : Selection-cum-seniority

- 6 : No

- 7 : Minimum age 18 years and maximum age 25 years.

Note :—The upper age limit shall stand increased by two years i.e. upto 27 years in case the post is filled by the method of Direct Open Competitive Examination in terms of DOP & T Notification No. 15012/6/98-Estt.(D) dated 21-12-1998.

(Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).

Note 1 :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu Kashmir State, Lahaul & Spiti Districts and Pangri Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Island or the Union Territory of Lakshadweep).

Note 2 :—The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

- 8 : (a) B. Com. and
(b) Three years experience in accounts
- 9 : No
- 10 : Two years for direct recruits. Nil in case of Promotees
- 11 : Promotion failing which by deputation failing which Direct Recruitment

12 : **Promotion :—**

Cashier or Store Keeper with at least six years regular services in the grade of Rs. 3200-85-4900.

On deputation :—

- (a) Officers of the Central Government holding analogous posts on regular basis from other Canteens, or
(b) Cashier or Store Keeper with atleast 6 years regular service in the grade of Rs. 3200-85-4900

(The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for deputation is 56 years as on closing date of receipt of applications.

13 : Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) consisting of :—

1. Director or Deputy Secretary (A), Department of Expenditure, Ministry of Finance—Chairman
2. Under Secretary (A) Department of Expenditure, Ministry of Finance—Member
3. Under Secretary (A) Department of Revenue, Ministry of Finance—Member

14 : Not applicable

4. 1 : Store Keeper

2 : 1* (2003) *Subject to variation dependent on category of non-statutory canteen/workload with the further provision that recruitment will not exceed the prescribed staffing pattern/authorization.

3 : General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial and Non-Technical

4 : Rs. 3200-85-4900#. #Store Keeper having under his charge a group of more than 2A Type Canteens will in addition to his pay be allowed a fixed monthly amount as special allowance @Rs. 125 and on having a group of more than 4A type Canteen under his charge will be allowed special allowance @Rs. 250.

5 : Selection-cum-seniority

6 : No

7 : Minimum age 18 years and maximum age 25 years.

Note :—The upper age limit shall stand increased by two years i.e. upto 27 years in case the post is filled by the method of Direct Open Competitive Examination in terms of DOP & T Notification No. 15012/6/98-Estt.(D) dated 21-12-1998.

(Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).

Note 1 :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu Kashmir State, Lahaul & Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Island or the Union Territory of Lakshadweep).

Note 2 :—The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

- 8 : (a) Matriculate or equivalent with one year Diploma in Book keeping or store keeping, and
(b) Three years experience.

- 9 : No
- 10 : Two years for direct recruits. Nil in case of Promotees.
- 11 : Promotion, failing which by deputation failing both by Direct Recruitment
- 12 : **Promotion :—**

Clerk with atleast four years regular service in the grade of Rs. 3050-75-3950-80-4590.

On deputation :—

- (a) Officers of the Central Government holding analogous posts on regular basis from other Canteens, or
- (b) Clerk with atleast four years regular services in the grade of Rs. 3050-75-3950-80-4590.

(The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for deputation is 56 years as on closing date of receipt of applications).

- 13 : Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) consisting of :—

1. Director or Deputy Secretary (A), Department of Expenditure, Ministry of Finance—Chairman
2. Under Secretary (A), Department of Expenditure, Ministry of Finance—Member
3. Under Secretary (A), Department of Revenue, Ministry of Finance—Member

- 14 : Not applicable

5. 1 : Cashier

- 2 : 1* (2003) *Subject to variation dependent on category of non-statutory canteen/workload with the further provision that recruitment will not exceed the prescribed staffing pattern/authorization.

- 3 : General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial and Non-Technical.

- 4 : Rs. 3200-85-4900#. #Cashier having under his charge a group of more than 2A Type Canteens will in addition to his pay be allowed a fixed monthly amount as special allowance @Rs. 125 and on having a group of more than 4A type Canteen under his charge will be allowed special allowance @Rs. 250.

- 5 : Selection-cum-seniority

- 6 : No

- 7 : Minimum age 18 years and maximum age 25 years.

Note :—The upper age limit shall stand increased by two years i.e. upto 27 years in case the post is filled by the method of Direct Open Competitive Examination in terms of DOP & T, Notification No. 15012/6/98-Estt.(D) dated 21-12-1998.

(Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).

Note 1 :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul & Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Island or the Union Territory of Lakshadweep).

Note 2 :—The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

- 8 : (a) Matriculate or equivalent with one year Diploma in Book keeping or store keeping, and

(b) Three years experience.

- 9 : No

10 : Two years for direct recruits. Nil in case of Promotees.

11 : Promotion, failing which by deputation, failing both by Direct Recruitment

12 : **Promotion :—**

Clerk with atleast four years regular service in the grade of Rs. 3050-75-3950-80-4590.

On deputation :—

(a) Officers of the Central Government holding analogous posts on regular basis from other Canteens, or

(b) Clerk with atleast four years regular service in the grade of Rs. 3050-75-3950-80-4590.

(The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for deputation is 56 years as on closing date of receipt of applications).

13 : Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) consisting of :—

1. Director or Deputy Secretary (A), Department of Expenditure, Ministry of Finance—Chairman

2. Under Secretary (A), Department of Expenditure, Ministry of Finance—Member

3. Under Secretary (A), Department of Revenue, Ministry of Finance—Member

14 : Not applicable

6. 1 : Halwai

2 : 3* (2003) *Subject to variation dependent on category of non-statutory canteen/workload with the further provision that recruitment will not exceed the prescribed staffing pattern/authorization.

3 : General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial and Non-Technical.

4 : Rs. 3200-85-4900.

5 : Selection-cum-seniority

6 : No

7 : Minimum age 18 years and maximum age 25 years.

Note :—The upper age limit shall stand increased by two years i.e. upto 27 years in case the post is filled by the method of Direct Open Competitive Examination in terms of DOP & T. Notification No. 15012/6/98-Estt.(D) dated 21-12-1998.

(Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).

Note :—The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

8 : (a) 8th Standard Pass or equivalent. and

(b) Two years experience in preparation of sweets and saltish eatables.

9 : No

10 : Two years for direct recruits. Nil in case of Promotees.

11 : Promotion, failing which by deputation failing both by Direct Recruitment.

12 : **Promotion :—**

Cook or Assistant Halwai with atleast 5 years regular service in the grade of Rs. 3050-75-3950-80-4590.

On deputation :—

(a) Officers of the Central Government holding analogous posts on regular basis from other Canteens, or

(b) Cook or Assistant Halwai with atleast 5 years regular service in the grade of Rs. 3050-75-3950-80-4590.

(The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for deputation is 56 years as on closing date of receipt of applications).

13 : Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) consisting of :—

1. Director or Deputy Secretary (A), Department of Expenditure, Ministry of Finance—Chairman
2. Under Secretary (A), Department of Expenditure, Ministry of Finance—Member
3. Under Secretary (A), Department of Revenue, Ministry of Finance—Member

14 : Not applicable

7. 1 : Clerks (Coupen, Kitchen, Office Accounts and General Duties)

2 : 6* (2003) +3 (Reserve Clerk) *(Subject to variation dependent on category of non-statutory canteen/workload with the further provision that recruitment will not exceed the prescribed staffing pattern/authorization).

3 : General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial and Non-Technical.

4 : Rs. 3050-75-3950-80-4590.

5 : Selection-cum-seniority.

6 : No

7 : Minimum age 18 years and maximum age 25 years.

Note :—The upper age limit shall stand increased by two years i.e. upto 27 years in case the post is filled by the method of Direct Open Competitive Examination in terms of DOP & T. Notification No. 15012/6/98-Estt.(D) dated 21-12-1998.

(Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).

Note :—The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

8 : **Essential :—**

- (a) Matriculation or equivalent examination from a recognized school. and
- (b) One year experience in maintaining accounts and stores.

9 : Age — No, Educational Qualification — Yes

10 : Two years for direct recruits. Nil in case of Promotees.

11 : 50% of the posts filled by direct recruitment of Matriculates and (ii) 50% of the post filled by promotion of only Matriculates from the Bearers and Tea/Coffee Makers failing which by deputation.

12 : **Promotion :—**

Tea or Coffee Maker or Bearer with atleast six years regular service in the grade of Rs. 2610-60-3150-65-3540 and having Matriculation or equivalent qualification.

On deputation :—

(a) Officers of the Central Government holding analogous posts on regular basis; or

- (i) Tea or Coffee Maker or Bearer with atleast six years regular service in the grade of Rs. 2610-60-3150-65-3540.

(b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 8, or

(Cook or Assistant Halwai with atleast 5 years regular service in the grade of Rs. 3050-75-3950-80-4590).

(The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for deputation is 56 years as on closing date of receipt of applications).

13 : Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) consisting of :—

1. Director or Deputy Secretary (A), Department of Expenditure, Ministry of Finance—Chairman
2. Under Secretary (A), Department of Expenditure, Ministry of Finance—Member
3. Under Secretary (A), Department of Revenue, Ministry of Finance—Member

14 : Not applicable

8. 1 : Cook

2 : 3* (2003) *(Subject to variation dependent on category of non-statutory canteen/workload with the further provision that recruitment will not exceed the prescribed staffing pattern/authorization).

3 : General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial and Non-Technical.

4 : Rs. 3050-75-3950-80-4590.

5 : Selection-cum-seniority.

6 : No

7 : Minimum age 18 years and maximum age 25 years.

Note :—The upper age limit shall stand increased by two years i.e. upto 27 years in case the post is filled by the method of Direct Open Competitive Examination in terms of DOP & T, Notification No. 15012/6/98-Estt.(D) dated 21-12-1998.

(Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).

Note :—The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

8 : **Essential :—**

- (a) 8th Standard pass or equivalent from recognized school, and
- (b) One year experience in preparation sweets and saltiest eatables.
- (c) A Trade Test will be prescribed for direct recruit as well as promotee/deputationist filling these posts.

9 : No

10 : Two years for direct recruits. Nil in case of Promotees.

11 : 75% of the posts filled by promotion of Bearers and Tea/Coffee Makers and (ii) 25% of the posts filled by direct recruitment failing which by promotion and failing which by deputation. (A trade test will be prescribed for direct recruits as well as those promoted to this post).

12 : **Promotion :—**

Tea or Coffee Maker or Bearer with atleast six years regular service in the grade of Rs. 2610-60-3150-65-3540 and one year experience as helper to Halwai.

On deputation :—

- (a) Officers of the Central Government holding analogous posts on regular basis; or
- (b) Tea or Coffee Maker or Bearer with atleast six years regular service in the grade of Rs. 2610-60-3150-65-3540 and one year experience as helper to Halwai.

(The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for deputation is 56 years as on closing date of receipt of applications).

13 : Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) consisting of :—

1. Director or Deputy Secretary (A), Department of Expenditure, Ministry of Finance—Chairman
2. Under Secretary (A), Department of Expenditure, Ministry of Finance—Member
3. Under Secretary (A), Department of Revenue, Ministry of Finance—Member

14 : Not applicable

9. 1 : Assistant Halwai

2 : 3* (2003) *(Subject to variation dependent on category of non-statutory canteen/workload with the further provision that recruitment will not exceed the prescribed staffing pattern/authorization).

3 : General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial and Non-Technical.

4 : Rs. 3050-75-3950-80-4590

5 : Selection-cum-seniority

6 : No

7 : Minimum age 18 years and maximum age 25 years.

Note :—The upper age limit shall stand increased by two years i.e. upto 27 years in case the post is filled by the method of Direct Open Competitive Examination in terms of DOP & T Notification No. 15012/6/98-Estt.(D) dated 21-12-1998.

(Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).

Note :—The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

8 : **Essential :—**

- (a) 8th Standard pass or equivalent from recognized School, and
- (b) One years experience in preparation sweets and saltiest eatables.
- (c) A Trade Test will be prescribed for Direct Recruit as well as promottee/deputationist filling these posts.

9 : No

10 : Two years for direct recruits. Nil in case of Promotees.

11 : 75% of the posts filled by promotion of Bearers and Tea/Coffee Makers and (ii) 25% of the posts filled by direct recruitment failing which by promotion and failing which by deputation. A Trade test will be prescribed for direct recruits as well as those promoted to this post.

12 : **Promotion :—**

Tea or Coffee Maker or Bearer with atleast six years regular service in the grade of Rs. 2610-60-3150-65-3540 and one year experience as helper to Halwai, subject to qualifying a trade test.

On deputation :—

- (a) Officers of the Central Government holding analogous posts on regular basis; or
- (b) Tea or Coffee Maker or Bearer with atleast six years regular service in the grade of Rs. 2610-60-3150-65-3540 and one year experience as helper to Halwai, subject to qualifying trade test.

(The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for deputation is 56 years as on closing date of receipt of applications).

13 : Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) consisting of :—

1. Director or Deputy Secretary (A), Department of Expenditure

2. Under Secretary (A) Department of Expenditure, Ministry of Finance—Member

3. Under Secretary (A) Department of Revenue, Ministry of Finance—Member

14 : Not applicable

10. 1 : Tea/Coffee Maker

2 : 3* (2003) *(Subject to variation dependent on category of non-statutory canteen/workload with the further provision that recruitment will not exceed the prescribed staffing pattern/authorization).

3 : General Central Service Group 'D' Non-Gazetted, Non-Ministerial and Non-Technical

4 : Rs. 2610-60-3150-65-3540

5 : Selection-cum-seniority

6 : No

7 : Minimum age 18 years and maximum age 25 years.

Note :—The upper age limit shall stand increased by two years i.e. upto 27 years in case the post is filled by the method of Direct Open Competitive Examination in terms of DOP & T Notification No. 15012/6/98-Estt.(D) dated 21-12-1998.

(Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).

Note :—The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

8 : **Essential :—**

(a) 8th Standard Pass or equivalent from recognized School, and

(b) Should be competent to make Tea/Coffee

9 : No

10 : Two years for direct recruits, Nil in case of Promotees

11 : By promotion, failing which by deputation and failing both by direct recruitment

12 : **Promotion :—**

Wash Boy or Safai Karmchari in the grade of Rs. 2550-55-2660-60-3200 with atleast two years regular service.

On deputation :—

(a) Officers of the Central Government holding analogous posts on regular basis; or

(b) Wash Boy or Safai Karmchari with two years regular service in the grade of Rs. 2550-55-2660-60-3200.

(The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for deputation is 56 years as on closing date of receipt of applications).

13 : Group 'D' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) consisting of :—

1. Under Secretary (A), Department of Expenditure, Ministry of Finance—Chairman

2. Section Officer (Ad. II), Department of Expenditure, Ministry of Finance—Member

3. Section Officer (Ad. II), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance—Member

14 : Not applicable

11. 1 : Bearer

2 : 21* (2003) *(Subject to variation dependent on category of non-statutory canteen/workload with the further provision that recruitment will not exceed the prescribed staffing pattern/authorization).

- 3 : General Central Service Group 'D' Non-Gazetted, Non-Ministerial and Non-Technical
 4 : Rs. 2610-60-3150-65-3540
 5 : Selection-cum-seniority
 6 : No
 7 : Minimum age 18 years and maximum age 25 years.

Note :—The upper age limit shall stand increased by two years i.e. upto 27 years in case the post is filled by the method of Direct Open Competitive Examination in terms of DOP & T Notification No. 15012/6/98-Estt.(D) dated 21-12-1998.

(Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).

Note :—The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

- 8 : **Essential :—**

- (a) 8th Standard pass or equivalent from recognized School. and
 (b) Six months experience as Bearer or Helper

- 9 : No

- 10 : Two years for direct recruits. Nil in case of Promotees

- 11 : (i) 50% promotion failing which by deputation. and (ii) 50% by direct recruitment.

- 12 : **Promotion :—**

Wash Boy/Safai Karmchhari in the grade of Rs. 2550-55-2660-60-3200 with two years regular service.

On deputation :—

- (a) Officers of the Central Government holding analogous posts on regular basis: or
 (b) Wash Boy or Safai Karmchhari with two years regular service in the grade of Rs. 2550-55-2660-60-3200.

(The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for deputation is 56 years as on closing date of receipt of applications).

- 13 : Group 'D' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) consisting of :—

1. Under Secretary (A), Department of Expenditure, Ministry of Finance—Chairman
 2. Section Officer (Ad. II), Department of Expenditure, Ministry of Finance—Member
 3. Section Officer (Ad. II), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance—Member

- 14 : Not applicable

12. 1 : Wash Boy
 2 : 6* (2003) *(Subject to variation dependent on category of non-statutory canteen/workload with the further provision that recruitment will not exceed the prescribed staffing pattern/authorization).
 3 : General Central Service Group 'D' Non-Gazetted, Non-Ministerial and Non-Technical
 4 : Rs. 2550-55-2660-60-3200
 5 : Not applicable
 6 : No

- 7 : Minimum age 18 years and maximum age 25 years.

Note :—The upper age limit shall stand increased by two years i.e. upto 27 years in case the post is filled by the method of Direct Open Competitive Examination in terms of DOP & T Notification No. 15012/6/98-Estt.(D) dated 21-12-1998.

(Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).

Note :—The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

- 8 : (a) 5th Standard pass or equivalent from recognized School

- 9 : No

- 10 : Two years

- 11 : By direct recruitment.

- 12 : Not applicable

- 13 : Not applicable

- 14 : Not applicable

13. 1 : Safai Karamchari

- 2 : 3* (2003) *(Subject to variation dependent on category of non-statutory canteen/workload with the further provision that recruitment will not exceed the prescribed staffing pattern/authorization).

- 3 : General Central Service Group 'D' Non-Gazetted, Non-Ministerial and Non-Technical

- 4 : Rs. 2550-55-2660-60-3200

- 5 : Not applicable

- 6 : No

- 7 : Minimum age 18 years and maximum age 25 years.

Note :—The upper age limit shall stand increased by two years i.e. upto 27 years in case the post is filled by the method of Direct Open Competitive Examination in terms of DOP & T Notification No. 15012/6/98-Estt.(D) dated 21-12-1998.

(Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).

Note :—The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

- 8 : (a) 5th Standard pass or equivalent from recognized School

- 9 : No

- 10 : Two years

- 11 : By direct recruitment.

- 12 : Not applicable

- 13 : Not applicable

- 14 : Not applicable

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2003

सा. का. नि. 436.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बी.सी.जी. वैक्सीन, प्रयोगशाला, गिण्डि, चैन्नई में सहायक तकनीकी अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बी.सी.जी. वैक्सीन, प्रयोगशाला, गिण्डि, चैन्नई (सहायक तकनीकी अधिकारी) भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1. पद का नाम	: सहायक तकनीकी अधिकारी
2. पदों की संख्या	: 04 * (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है
3. वर्गीकरण	: साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", अराजपत्रित अननुसचिवीय
4. वेतनमान	: रु. 5500-175-9000
5. चयन अथवा अचयन पद	: चयन
6. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	: 30 वर्ष से अधिक नहीं। केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा

चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

7. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय : नहीं

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं : आवश्यक :

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सूक्ष्म विज्ञान/जीव रसायन विज्ञान/जीवाणु विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री या समतुल्य।

टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

वांछनीय : मानव प्रयोग के लिए जैव उत्पादन का विनिर्माण और या परीक्षण या शैक्षिक अर्हता में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी एक विषय में अनुसंधान का अनुभव।

9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं : आयु : नहीं
शैक्षिक अर्हताएं : नहीं

किन्तु उसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एस.सी. डिग्री अवश्य होनी चाहिए।

10. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो : सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता : प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा : प्रोन्नति : ऐसा तकनीकी पर्यवेक्षक जिन्होंने उस श्रेणी में छह-वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :

(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5000—8000 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की है; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 4500—7000 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की है; और

(ख) जिनके पास सीधे भर्ती होने वाले व्यक्तियों के लिए विहित स्तंभ 8 के अधीन शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अन्तर्गत उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति

से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर से बाहर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना : समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :—
 1. उप महानिदेशक, (पी)—अध्यक्ष
 2. निदेशक, (प्रशासन और सतर्कता)—सदस्य
 3. उप निदेशक (प्रशासन)—सदस्य
14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-11018/2/98-ईपीआई/पीएच]

के.बी.एस. राव, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 25th November, 2003

G.S.R. 436.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Technical Officer in the BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai (Assistant Technical Officer) Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in column 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Name of Post | : Assistant Technical Officer |
| 2. Number of post(s) | : 4* (2003) *(Subject to variation dependent on workload) |
| 3. Classification | : General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial |

4. Scale of pay : Rs. 5500-175-9000.
5. Whether selection post or non-selection post : Selection
6. Age limit for Direct Recruits : Not exceeding 30 years
(Relaxable for Government servants and employees of Government of National Capital Territory of Delhi upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island or Lakshadweep).
7. Whether benefit of added years of service admissible : No
8. Educational and other qualification required for direct recruits : **Essential :**
(i) Master's Degree in Microbiology/Bio-Chemistry/Bacteriology/Bio-Technology/Medical Laboratory Technology from a Recognised University or equivalent.
Note : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.
Desirable :
Experience in manufacture and/or testing of Biological products for human use or research experience in one of the subjects specified in the Educational Qualification.
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees : **Age :** No
EQs : No
##But must possess B. Sc. Degree from a Recognised University or Equivalent.
10. Period of probation, if any : 2 years for direct recruits and promotees
11. Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation absorption and percentage of posts to be filled by various methods : Promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment.
12. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation absorption to be made. : **Promotion :**
Technical Supervisor with six year's regular service in the grade.
Note : Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.
Deputation :
Officers of the Central Government :
(a)(i) Holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre/ Department; or

(ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 5000-8000 or equivalent in the parent cadre/Department; or

(iii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 4500-7000 or equivalent in the parent cadre/Department; and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for Direct Recruits under column 8.

The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).

13. If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition : Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion/confirmation) :—

1. Deputy Director General (P)—Chairman
2. Director (Admn. & Vigilance)—Member
3. Deputy Director (Admn.)—Member

14. Circumstance in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment : Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F.No. A-11018/2/98-EPI/PH]

K. V. S. RAO, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2003

सा. का. नि. 437.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बी.सी.जी. वैक्सीन, प्रयोगशाला गिण्डि, चैन्नई में कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बी.सी.जी. वैक्सीन, प्रयोगशाला, गिण्डि, चैन्नई (कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी) भर्ती नियम 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

- | | |
|--|---|
| 1. 1. पद का नाम | : कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी। |
| 2. पदों की संख्या | : 02* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। |
| 3. वर्गीकरण | : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", राजपत्रित अननुसूचिवीय |
| 4. वेतनमान | : 6500-200-10500 रु. |
| 5. चयन अथवा अचयन पद | : चयन |
| 6. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | : 30 वर्ष से अधिक नहीं।
(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) |

टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

- | | |
|---|---|
| 7. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा | : नहीं |
| 8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | : आवश्यक :
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सूक्ष्म विज्ञान/जीव रसायन विज्ञान/जीवाणु विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री या समतुल्य। |

(ii) मानव प्रयोग के लिए जैव उत्पादन का विनिर्माण और/या उसके परीक्षण या शैक्षिक अर्हता में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी एक विषय में अनुसंधान का तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

- | | |
|--|--------|
| 9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | : नहीं |
|--|--------|

10. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो : सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।
11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता : प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।
12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा : प्रोन्नति : ऐसा सहायक तकनीकी अधिकारी जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।
टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।
- प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :
- (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5500-9000 रु. के या इसके समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की है; या
- (ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती होने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक, अर्हताएं और अनुभव हैं। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अन्तर्गत उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर से बाहर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)
13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना : समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :-
1. उप महानिदेशक, (पी) — अध्यक्ष
2. निदेशक, (प्रशासन और सतर्कता) — सदस्य
3. सहायक महानिदेशक (ईपीआई) — सदस्य
3. उप निदेशक (प्रशा.) — सदस्य
14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : सीधे भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फ़. सं. ए-11018/2/98-ईपीआई/पीएच]

के.वी.एस. राव, अवर सचिव

New Delhi, the 25th November, 2003

G.S.R. 437.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Junior Technical Officer in the BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai (Junior Technical Officer) Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any persons from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other backward classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1. Name of Post	: Junior Technical Officer
2. Number of posts	: 02* (2003) *(Subject to variation dependent on workload)
3. Classification	: General Central Services Group 'B' Gazetted Non-Ministerial
4. Scale of pay	: Rs. 6500-200-10500.
5. Whether selection or non-selection post	: Selection
6. Age limit for direct recruits	: Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants and employees of Government of National Capital Territory of Delhi upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island or Lakshadweep).
7. Whether benefit of added years of service admissible	: No
8. Educational and other qualification required for direct recruits	: Essential : (i) Master's Degree in Microbiology/Bio-Chemistry/Bacteriology/Bio-Technology/Medical Laboratory Technology from a Recognised University or equivalent.

(ii) Three years' experience in manufacture and/or testing of Biological products for human use or research experience in one of the subjects specified in Educational Qualification (i)

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Casts or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees : No
10. Period of probation, if any : 2 years for direct recruits
11. Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of posts to be filled by various methods : Promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment.
12. In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made : **Promotion**
Assistant Technical Officer with three years' regular service in the grade.
Note : Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Deputation

Officers of the Central Government :

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre/Department; or

(ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereon on regular basis in the scale of pay of Rs. 5500-9000 or equivalent in the parent Cadre/Department; and

(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for Direct Recruits under column 8.

The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).

13. If a Departmental Promotion Committee : Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion/confirmation)
exists, what is its composition
1. Deputy Director General (P)—Chairman
 2. Director (Admn. & Vigilance)—Member
 3. Assistant Director General (EPI)—Member
 4. Deputy Director (Admn.)—Member
14. Circumstances in which Union Public : Consultation with Union Public Service Commission is necessary
Service Commission is to be con- while making Direct recruitment.
sulted in making recruitment

[F. No. A-11018/2/98-EPI/PH]

K.V.S. RAO. Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2003

सा. का. नि. 438.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी में सहायक गृह व्यवस्थापक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी (सहायक गृह व्यवस्थापक) भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** :— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** :— उक्त मद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि क अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** :—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

- | | |
|---------------------|--|
| 1. पद का नाम | : सहायक गृह व्यवस्थापक |
| 2. पदों की संख्या | : 2(दो) * (2003) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है) |
| 3. वर्गीकरण | : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित अननुसचिवीय |
| 4. वेतनमान | : 3050-75-3950-80-4590 रु. |
| 5. चयन अथवा अचयन पद | : लागू नहीं होता |

6. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय : नहीं
सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के
नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए : 18 से 25 वर्ष के साथ।
आयु-सीमा

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।)

टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए : आवश्यक :
अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

मेट्रिकुलेशन या इसके समतुल्य।

वांछनीय :

1. कम्प्यूटर के कार्यकरण ज्ञान या कम्प्यूटर में अर्हता प्राप्त।
2. गृह प्रबंधन/भंडार पालन कार्य के किसी होस्टल में गृह व्यवस्था/भंडार कार्य करने का अनुभव।

टिप्पण : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए : लागू नहीं होता।
विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत
व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो : सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति : प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा।
द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा
तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले
पदों की प्रतिशतता

12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति/आमेलन :
दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हैं; या
आमेलन किया जाएगा (ii) जिन्होंने 2750-4400 रु. के वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की हैं; या
(iii) जिन्होंने 2650-4000 रु./2610-4000 रु. के वेतनमान वाले पदों पर 4/5 वर्ष नियमित सेवा की है; और
(ख) जिनके पास स्तंभ 8 में विहित अर्हताएं हैं।

13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना : विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :—
1. चिकित्सा अधीक्षक/डीन—अध्यक्ष
 2. संबंधित विभाग का प्रधान—सदस्य
 3. उप निदेशक (प्रशासन)—सदस्य
 4. कार्यालय का प्रधान—सदस्य
 5. केन्द्रीय सरकार के अन्य विभाग से एक अधिकारी—सदस्य
14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/39/98-आर.आर./एम.ई.-IV]

महा बीर प्रसाद, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd December, 2003

G.S.R. 438.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Housekeeper in the Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Pondicherry, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Pondicherry, (Assistant Housekeeper) Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay .—The number of said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

- | | |
|---|--|
| 1. Name of the Post | : Assistant Housekeeper |
| 2. Number of post | : 2(Two)* (2003) *(Subject to variation dependent on workload). |
| 3. Classification | : General Central Services Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial |
| 4. Scale of pay | : Rs. 3050-75-3950-80-4590. |
| 5. Whether selection post or non-selection post | : Not applicable. |

6. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972. : No
7. Age limit for direct recruits. : Between 18 to 25 years.
(Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions and orders of the Central Government).
Note 1 : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman & Nicobar Islands or Union Territory of Lakshadweep).
Note 2 : In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.
8. Educational and other qualifications required for direct recruits : **ESSENTIAL :**
Matriculation or its equivalent.
DESIRABLE :
1. Working knowledge of Computer/or qualified in Computer.
2. Experience of working in a Hostel in House Keeping/Store keeping job.
Note : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of Competent Authority in case of candidates belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up vacancies reserved for them.
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. : Not applicable
10. Period of probation : 2 years for direct recruits
11. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods : By Deputation failing which by direct recruitment
12. In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made : Deputation/Absorption from amongst officer of the Central/State Government :
(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or
(ii) 3 years regular service in posts in the pay scale of Rs. 2750-4400; or
(iii) 4/5 years regular service in posts in the pay scale of Rs. 2650-4000/2610-4000; and
(b) Possessing qualifications prescribed in col. 8.

13. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition : Departmental Promotion Committee consisting of :
 1. Medical Superintendent/Dean—Chairman
 2. Head of the Department concerned—Member
 3. Deputy Director (Administration)—Member
 4. Head of Office—Member
 5. An Officer from other Central Government Department—Member
14. Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment : Not applicable

[F. No. A-12018/39/98-RR/ME-IV]
 MAHA BIR PERSHAD, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2003

सा. का. नि. 439.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पाण्डिचेरी (चपरासी और दफ्तरी) भर्ती नियम, 1995 को, जहां तक उनका संबंध चपरासी के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पाण्डिचेरी में चपरासी पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान संस्थान, पाण्डिचेरी (चपरासी) (समूह 'घ') पद भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय हैं, और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

- | | |
|---------------------|--|
| 1. पद का नाम | : चपरासी |
| 2. पदों की संख्या | : 58* (2003) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है) |
| 3. वर्गीकरण | : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "घ", अराजपत्रित, अननुसचिवीय |
| 4. वेतनमान | : रु. 2550-55-2660-60-3200 |
| 5. चयन अथवा अचयन पद | : लागू नहीं होता |

6. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय : नहीं
सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के
नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए : 18 से 25 वर्ष के बीच।
आयु-सीमा (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।)

टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए : आवश्यक :
अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 8वीं कक्षा उत्तीर्ण।

वांछनीय :

होमगार्ड और सिविल रक्षा में 'बुनियादी' और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण।

9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए : लागू नहीं होता।
विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।

10. परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। : सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति : 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; और
द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा 25 प्रतिशत आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।
विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता।

12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की : **आमेलन :** ऐसे सफाईवाला, फराश, चौकीदार और अन्य समूह 'घ' पदों में से दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा, जिन्होंने 2550-3200 रुपए के वेतनमान में उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास प्राथमिक रूप से साक्षरता और अंग्रेजी या हिंदी या प्रादेशिक भाषा पढ़ने में समर्थता है।

13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी : समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए जिसमें संरचना निम्नलिखित होंगे :—

1. चिकित्सा अधीक्षक/डीन—अध्यक्ष
2. कार्यालय का प्रधान—सदस्य
3. विभाग का प्रधान (संबंधित)—सदस्य
4. उप निदेशक (प्रशासन)—सदस्य
5. केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग से एक अधिकारी—सदस्य

14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संच लोक : लागू नहीं होता।
सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

[फा. सं. ए-11018/32/2001-आर.आर./एम.ई.-IV]

महा वीर प्रसाद, अव्वर सचिव

New Delhi, the 2nd December, 2003

G.S.R. 439.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Pondicherry (Peon and Daftry) Recruitment Rules, 1995 in so far as they relate to the post of Peon, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Peon in the Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Pondicherry, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Pondicherry (Peon) (Group 'D' post), Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1. Name of the Post	: Peon
2. Number of post	: 58* (2003) *(Subject to variation dependent on workload)
3. Classification	: General Central Service Group 'D' Non-Gazetted, Non-Ministerial.
4. Scale of pay	: Rs. 2550-55-2660-60-3200
5. Whether Selection post or Non-selection post	: Not applicable
6. Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	: No
7. Age limit for direct recruits	: Between 18 and 25 years.

(Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)

Note :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh,

- Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of J & K State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit names.
8. Educational and other qualifications required for direct recruits : **Essential :**
VIIIth class pass.
Desirable :
Training in 'Basic' and 'Refresher Courses' in Home Guards and Civil Defence.
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees : Not applicable
10. Period of probation : Two years for direct recruits.
11. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of posts to be filled by various methods : 75% by direct recruitment; and 25% by absorption failing which by direct recruitment
12. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made : **Absorption :**
Absorption from Safaiwala, Farash, Chowkidar and other Group 'D' posts in the pay scale of Rs. 2550-3200 with five years' regular service in the grade and who possess elementary literacy and ability to read English or Hindi or a regional language.
13. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition : Group 'D' Departmental Promotion Committee for considering confirmation consisting of :—
Head of Office—Chairman
Head of the Department (concerned)—Member
Deputy Director (Administration)—Member
An officer from other Central Government Department—Member
14. Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment : Not applicable

[F. No. A-11018/32/2001-RR/ME.IV]
MAHA BIR PERSHAD, Under Secy.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले के विभाग)

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2003

सा. का. नि. 440.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले के विभाग) के वायदा बाजार आयोग, मुम्बई में वरिष्ठ निजी सचिव, समूह 'ख' (राजपत्रित) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायदा बाजार आयोग, वरिष्ठ निजी सचिव (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

- | | |
|---|---|
| 1. पद का नाम | : वरिष्ठ निजी सचिव |
| 2. पदों की संख्या | : 01* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। |
| 3. वर्गीकरण | : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित अननुसचिबीय |
| 4. वेतनमान | : रु. 7500-250-12000 |
| 5. चयन अथवा अचयन पद | : चयन |
| 6. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं | : लागू नहीं होता |
| 7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | : लागू नहीं होता |
| 8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | : लागू नहीं होता |
| 9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | : लागू नहीं होता |
| 10. परीक्षा की अवधि | : लागू नहीं होता |

11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति : प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न
पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की : प्रोन्नति :
दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ ऐसा वरिष्ठ निजी सहायक जिसने 6500-200-10500 रु. के वेतनमान में इस श्रेणी में
आमेलन किया जाएगा तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।

टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :

(क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;
या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 6500-200-10500 रु. के वेतनमान में या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जो आशुलिपि कार्य (अंग्रेजी/हिन्दी) में तीन वर्ष का अनुभव रखता हो।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी : समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति :

संरचना

1. सदस्य, वायदा बाजार आयोग—अध्यक्ष

2. सचिव, वायदा बाजार आयोग—सदस्य

3. निदेशक, वायदा बाजार आयोग—सदस्य

14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक : संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

[फा. सं. ए-12011/28/2002-स्था.]

एस. के. नायक, अवर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Consumer Affairs)**

New Delhi, the 27th November, 2003

G.S.R. 440.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Private Secretary, Group 'B' (Gazetted) in the Forward Markets Commission, Mumbai, under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs), namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Forward Markets Commission, Senior Private Secretary (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2003,

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay.—The number of the post, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1. Name of the Post	: Senior Private Secretary
2. Number of post	: 1* (2003) *(Subject to variation dependent on workload)
3. Classification	: General Central Services Group 'B' Gazetted. Non-Ministerial
4. Scale of pay	: Rs. 7500-250-12000
5. Whether Selection or Non-selection post	: Selection
6. Whether benefits of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	: Not applicable
7. Age limit for direct recruits	: Not applicable
8. Educational and other qualifications required for direct recruits	: Not applicable
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	: Not applicable
10. Period of probation, if any	: Not applicable

11. Method of recruitment : whether by direct recruitment or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods : By promotion failing which by deputation
12. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption grade from which promotion/deputation/absorption to be made. : **Promotion:—**
 Senior Personal Assistant in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 with three years regular service in the grade.
Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.
Deputation :
 Officers under the Central Government :
 (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent Cadre/Department; or
 (ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500. or equivalent in the parent Cadre/Department; and
 (b) Possessing three years experience in Stenography work (English/Hindi).
 The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
 (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).
13. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition : Group 'B' Departmental Promotion Committee :
 1. Member, Forward Markets Commission—Chairman
 2. Secretary, Forward Markets Commission—Member
 3. Director, Forward Markets Commission—Member
14. Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment : Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-12011/28/2002-Estt.]
 S. K. NAYAK, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन एवं डेयरी विभाग)

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2003

सा. का. नि. 441.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (महानिदेशक) भर्ती नियम, 1986 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का

लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधीन भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण में महानिदेशक, मुंबई के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (महानिदेशक) भर्ती नियम, 2003 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों में उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

- | | |
|-------------------|--|
| 1. पद का नाम | : महानिदेशक |
| 2. पदों की संख्या | : 1* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। |
| 3. वर्गीकरण | : सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "क", (राजपत्रित) (अननुसचिवीय) |
| 4. वेतनमान | : रु. 16400-450-20000 |

16400-20000 रुपए के वेतनमान में भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के महानिदेशक के उन्नत पद पर नियुक्ति के लिए नियमित रूप से भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण महानिदेशक के पद के धारक की उपयुक्तता का आरम्भिक तौर पर निर्धारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। यदि उपयुक्त निर्धारित कर लिया जाता है तो उसे पद पर आरंभिक गठन से नियुक्त किया गया समझा जाएगा। यदि उन्नत वेतनमान में नियुक्ति के लिए उपयुक्त निर्धारित नहीं किया जाता है तो वह 14300-18300 रुपए के पुनरीक्षित वेतनमान में कार्य करता रहेगा और प्रत्येक वर्ष उसके मामले का पुनर्वलोकन किया जाएगा।

- | | |
|--|------------------|
| 5. योग्यता के आधार पर चयन अथवा मह ज्येष्ठता या अचयन | : लागू नहीं होता |
| 6. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 अधीन अनुज्ञेय है या नहीं | : लागू नहीं होता |
| 7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | : लागू नहीं होता |
| 8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए | : लागू नहीं होता |

अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए : लागू नहीं होता
विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
 10. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो : लागू नहीं होता
 11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति : प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)
द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
 12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की : प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :—
दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
 - I. केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र/कृषि विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अन्वेषण/संस्थान या परिषद्/अर्द्ध सरकारी कानूनी या स्वायत्त संगठन के अधीन अधिकारी :—
 - (क)(i) मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर समदृश्य पद धारण किए हों; या
 - (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 14,300-18,300 रुपए के वेतनमान में, नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर, उस श्रेणी में दो वर्ष की लगातार सेवा की हो या समतुल्य; और
 - (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखता हो :—
 - (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से जीव सामुद्रिक या प्राणिशास्त्र या समुद्र विज्ञान या मत्स्य विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य या मत्स्य अभियांत्रिक की केंद्रीय संस्थान, बंबई से मत्स्य विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य;
 - (ii) समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान और विकास में बारह वर्ष का अनुभव, जिसमें से योजना बनाने, कार्यक्रमण, क्रियान्वयन और मत्स्य पकड़ने के खोजी जलयान बेड़ों की तैनाती द्वारा मात्स्यिकी संसाधन सर्वेक्षण को मॉनीटर करने में कम से कम पांच वर्ष का वास्तविक अनुभव अवश्य हो।
- II. ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा के साथ उक्त (ख) में दी गई अर्हता एवं अनुभव रखने वाले विभागीय उप महानिदेशक (मात्स्यिकी) के नाम पर भी विचार किया जाएगा और यदि उनका इस पद पर नियुक्ति के लिए चुनाव हो जाता है तो इस पद को प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा।
- [पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी]
13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना : लागू नहीं होता
 14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है। : प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[फा. संख्या 2-11/2001-मात्स्यिकी (प्रशा.)]

आर. के. मेहता, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE**(Department of Animal Husbandry & Dairying)**

New Delhi, the 25th November, 2003

G.S.R. 441.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Fishery Survey of India, (Director General) Recruitment Rules, 1986, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director General in Fishery Survey of India, Mumbai under the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry and Dairying, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Fishery Survey of India, (Director General) Recruitment Rules, 2003,

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification—No person.—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1. Name of Post	: Director General
2. Number of posts	: 1 (One)* (2003) *(Subject to variation dependent on workload)
3. Classification	: General Central Service Group 'A' Gazetted. Non-Ministerial
4. Scale of pay	: Rs. 16,400-450-20,000. The suitability of the regular holder of the post of Director General, Fishery Survey of India will be initially assessed by the competent authority for appointment to the upgraded post of Director General, Fishery Survey of India in the scale of Rs. 16,400-20,000. If assessed 'Suitable', he shall be deemed to have been appointed to the post at the initial constitution. If assessed 'Not Suitable' for appointment to the upgraded scale of pay, he shall continue to be in the revised scale of Rs. 14,300-18,300 and his case shall be reviewed every year.
5. Whether selection post or non-selection post	: Not applicable
6. Age limit for direct recruits	: Not applicable
7. Whether benefit of added years of service admissible, under Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	: Not applicable

8. Educational qualification and other qualification required for direct recruits : Not applicable
9. Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees : Not applicable
10. Period of probation, if any : Not applicable
11. Method of recruitment by direct recruits or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods : Deputation (Including short-term contract)/Promotion.
12. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made. : **Deputation (Including short term contract)/Promotion.**
 I. Officers under the Central/State Governments/Union Territories/Agriculture Universities/recognised research institutions or Councils/Semi-Government/Statutory or autonomous organisations :
 (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent Cadre/Department; or
 (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 14,300-18,300 or equivalent in the parent cadre/Department; and
 (b) possessing the following educational qualifications and experience :
 (i) Master's degree in Marine Biology or Zoology or Oceanography or Fisheries Science from a recognised University or equivalent; or Post-Graduate diploma in Fisheries Science of Central Institute of Fisheries Engineering, Mumbai or equivalent;
 (ii) Twelve Years' experience in a Marine Fisheries Research and Development out of which atleast five years' must be actual experience in the planning, programming, implementation and monitoring of fisheries resources survey by exploratory fishing, deploying a fleet of vessels.
 II. The departmental Deputy Director General (Fisheries) possessing the qualifications and experience at (b) above with two years' regular service in the grade will also be considered and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.
 The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
 [Period of deputation (short-term contract) including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract)/absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications].
13. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition : Not applicable
14. Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment : Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

[F. No. 2-11/2001-Fishery (Adm.)]
 R. K. MEHTA, Under Secy.